

प्रकाशक
विश्वनाथ शर्मा
मंत्री, प्रकाशन-विभाग
श्री काशी-विद्यापीठ, बनारस

मुद्रक
डब्ल्यू. एम. गोडसे
आर्यभूषण प्रेस, ब्रह्माघाट
बनारस सिटी

दो शब्द

पिछले मार्च अप्रैल में जब हम लखनऊ-धनारस-इलाहाबाद डा० बड़थवाल स्मारक सम्बन्धी शीरे में गये थे तो यावू सम्पूर्णानन्द जी ने डा० बड़थवाल के संत-सम्बन्धी निबन्धों को काशी विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित करने की राय दी थी। हमें उनकी बहुमूल्य राय शिरोधार्य हुई। निबन्ध अब हिन्दी संसार के सम्मुख है। इसके लिये बड़थवाल स्मारक ट्रस्ट यावूसहय का आभारी है।

निबन्धों में प्रेम प्रधान निर्गुण—भक्ति काल के संतों की वाणी, उनकी जीवन गाथा तथा उनके दर्शन की व्याख्या है। डा० बड़थवाल अपने विषय के अधिकारी थे अतः उनके निबन्धों को अधिकार पूर्ण होना स्वाभाविक है। परख विद्वानों की अपनी है।

डा० बड़थवाल ने “जिन संतों के सम्बन्ध में शोध कार्य किया है वे संसार के लिये एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गये हैं। वह संदेश है एक सीधे सच्चे विश्व धर्म का जो सब जगह,

सब काल और परिस्थितियों के लिये एक है, नित्य, सत्य तथा सनातन है।" संत प्रत्येक युग में "सारग्रहिता" अथवा सब धर्मों का सहायुभूतिपूर्ण सहयोग द्वारा ही विश्व धर्म का साक्षात्कार कराते रहते हैं जिसमें एक मात्र प्रेम का साम्राज्य है। आशा है पाठक डा० वड़थवाल के इन निबन्धों में इस "एक मात्र प्रेम के साम्राज्य" को ढूँढ़ने का प्रयत्न करेंगे। साहित्य के अतिरिक्त राज-नैतिक दृष्टिकोण से भी संत-विचार प्रणाली का अध्ययन आज हमारे लिये आवश्यक ही नहीं अनिवार्य भी है क्योंकि संत-विचार प्रणाली के सबसे बड़े प्रचारक निबन्धों के रचयिता की राय में आज महात्मा गांधी हैं। गांधीवाद के बिना आज भारतवर्ष कैसे जी सकता है !

अन्त में हमें पूर्ण आशा है कि हिन्दी संसार डा० वड़थवाल पुस्तकमाला के इस प्रथम पुष्प को हृदय से अपनायेगा। डा० वड़थवाल के अन्य निबन्धों को भी हम शीघ्र प्रकाशित करने जा रहे हैं। स्मारक ट्रस्ट कार्य में हम समस्त हिन्दी-संसार का सहयोग चाहते हैं।

लैन्सडौन
गढ़वाल। }
१२-१२-४५

ललिता प्रसाद नैथानी, वकील
मंत्री डा० वड़थवाल स्मारक ट्रस्ट कमेटी

को लोकदृष्टि से बचाने के लिये तन्त्र ग्रन्थों की रचना भी संस्कृत में हुई। परिणाम यह हुआ कि लोगों की श्रद्धा उधर से दृष्ट गयी। तांत्रिक शक्तों को छोड़कर शुद्ध योग के सहारे नया धारा फूटी। इससे सिद्ध-सम्प्रदाय कहते हैं। सिद्धों में गोपीचन्द्र, गेरण्ट, टिटिभि जैसे कुछ महात्माओं के नाम से लोग परिचित हैं। फार्नांतर में सिद्धों का स्थान नाथों ने लिया। मत्स्येन्द्र, जालन्धर, गोरध और भर्तृहरि की कीर्ति आज भी लोकविश्रुत है। इन्हीं नाथों के उच्चराधिकारी कबीर-आदि मन्त हैं।

सैकड़ों वर्षों के विचारसंचय और विचारविकास के इतिहास का यह निचोड़ स्वभावतः बहुत संक्षिप्त है। जो इसका विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए अब पर्याप्त सामग्री प्राप्य है और होती जा रही है। अब यह प्रमाणित हो गया है कि योग का जो प्रवाह कबीर और उनके परवर्ती सन्तों में मिलता है वह वेदों से निःसृत होकर बराबर चला आ रहा है। उसका स्वाद कुछ बदल गया है; शीदों ने तो अपना प्रभाव डाला ही था, वैष्णव भक्तों और मुसलमान सफ़ियों के विचारों की भी कुछ पट्ट है। परन्तु मूलधारा अब भी वही है।

आज नाथों और सिद्धों की रचनाएँ उपलब्ध हो रही हैं। इन लोगों को साधारण को जनता को आकृष्ट करना था। अतः इन्होंने भी बुद्धदेव की भाँति संस्कृत का तिरस्कार करके लोकभाषा को अपनाया। जो तन्त्रप्रधान प्रदेश था वहीं सिद्ध-सम्प्रदाय पनपा अतः बिन बोलियों में सिद्ध वाङ्मय और उसके पीछे नाथ वाङ्मय रचा गया वह प्राकृत की वह शाखाएँ थीं जो पीछे चलकर हिन्दी कहलार्यीं। सन्तों ने भी संस्कृत के “कूपगंभीर” की जगह भाषा के बहते नीर का ही आश्रय लिया। इस प्रकार हिन्दी को आध्यात्मिक वाङ्मय का भंडार विशाल और बहुमूल्य है और इसका संचय सैकड़ों तपस्वियों और योगियों के कई शतियों के परिश्रम का फल है। इसका इतिहास भारत का कई सौ वर्षों का आध्यात्मिक इतिहास है।

भूमिका

रा० चट्याल को मृत्यु से हिन्दी संगार की बहुत बड़ी क्षति हुई। उन्होंने हमारे वाङ्मय के एक विशेष क्षेत्र को, उस क्षेत्र को जिसका सम्बन्ध आध्यात्मिक रचनाओं से है, अपने अध्ययन का विषय बनाया था। इस दिशा में उन्होंने जो काम किया था उसका आदर विद्वत्समाज में सर्वत्र हुआ। यदि आयु ने थोड़ा न दिया होता तो वह गंभीर रचनाओं का और भी सर्जन करते।

हिन्दी जगत को अभी थोड़े दिन पहिले तक अपने वाङ्मय भण्डार के इस बहुत बड़े अंश के अस्तित्व का पता भी नहीं था। लोग तुलसी, सूर और दूसरे वैष्णव मक्तों की रचनाओं से परिचित थे, फकीर और उनके पथाद्वर्ती सन्तों के शब्दों और साखियों को भी जानते थे। वैष्णव रचनाएँ सगुण साहित्य का अंग थीं, सन्तों की रचनाएँ निर्गुण धारा के अन्तर्गत थीं। जहाँ तक सगुण धारा की बात है, उसका उद्गम बहुत कुछ शत था। रामानुज, रामानन्द, वल्लभ, निम्बार्क, मध्व, प्रधान वैष्णव आचार्य थे। इनके पहिले श्रीमद्भागवत की रचना हो चुकी थी। यह पुस्तक न तो महापुराण है न उपपुराण है। यह उसके अन्तःसाध्य से मिद्ध है। स्पष्ट ही लिखा है कि सब पुराणों की रचना कर चुकने के बाद व्यासदेव ने इसे लिखा। ऐसा मानने का भी पर्याप्त कारण है कि इसकी रचना कहीं दक्षिण में हुई। परन्तु किसी ने और किसी समय इसे लिखा हो, वैष्णव जगत में इसका स्थान अपूर्व है। यदि अपने को हिन्दू कहनेवाला किसी रचना को श्रुति से बढ़कर प्रामाणिक मान सकता है तो वैष्णव वह स्थान श्रीमद्भागवत को देता है। भागवत के कृष्ण ने महाभारत के कृष्ण को पीछे डाल दिया है, रुक्मिणी तो क्या सीता और लक्ष्मी भी राधा के समकक्ष

विषय-सूची

| सं० | नाम | पृष्ठ |
|-----|--|-------|
| १ | स्वामी राघवानन्द और सिद्धांत पंचमात्रा | १ |
| २ | सिद्धांत पंचमात्रा | १८ |
| ३ | सुरति-निरति | २३ |
| ४ | कुछ निरंजनी संतों की चानियाँ | ३८ |
| ५ | हिंदी कविता में योग-प्रवाद | ५४ |
| ६ | कर्षर का जीवन-वृत्त | ७९ |
| ७ | कबीर और सिकन्दर लोदी | ९४ |
| ८ | कबीर के कुल का निर्णय | १०४ |
| ९ | मीराबाई और ब्रह्मभाचार्य | १२९ |
| १० | 'मीराबाई' — नाम | १४८ |
| ११ | संत | १५६ |
| १२ | नागार्जुन | १७२ |
| १३ | उत्तरखंड में संत मत और संत-साहित्य | १९७ |
| १४ | कणेरी पाव | २१६ |
| १५ | गंगाबाई | २२९ |
| १६ | हिंदुत्व का उन्नायक नानक | २४५ |
| १७ | पद्मावत की कहानी और जायसी का आध्यात्मवाद | २५६ |
| १८ | हिंदी साहित्य में उपासना का स्वरूप | २७१ |
| १९ | मूल गोसाईं चरित की प्रामाणिकता | २९१ |

नहीं बैठ सकतीं । साधारण श्रद्धालु वैष्णव, या अन्य हिन्दू भी भागवत के पीछे जाने का, यह जानने का कि उपासना की यह शैली जो कई अंशों में प्रचलित श्रुति स्मृति सम्मत पद्धतियों से भिन्न ही नहीं विपरीत भी है कैसे चल पड़ी, यत्न नहीं करता । उसके लिये जो कुछ भी पुराना है, वह सनातन है ।

कवीर को निर्गुण प्रवाह का मूल प्रवर्तक मानते हैं । गोरख की रचनाओं का कुछ-कुछ परिचय मिलने से यह धारा कुछ और पीछे हट गयी, इसका उद्गम कवीर से कुछ शती पहिले का हो गया । इसकी विशेषता यह है कि यह प्रायः अद्वैतवाद का प्रतिपादन करती है, इससे भी बढ़कर विशेषता यह है कि इसमें योग को मोक्ष का प्रधान साधन मानते हैं । योग को सीधे योग न कहकर भजन भले ही कहा जाय, योग के उपांगभूत ईश्वरप्रणिधान को भक्ति के नाम से महत्ता भले ही दी जाय, परन्तु मुख्य प्रक्रिया योग की ही है—आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि सभी विद्यमान हैं । काल पाकर प्रतिपादन शैली शास्त्रीय नहीं रही, यम नियम का यथाविधि स्थान नहीं रहा, प्रत्याहार का समावेश वैराग्य में हो गया । कुछ ऐसे पारिभाषिक शब्दों का चलन हुआ जो पातञ्जल साहित्य में नहीं मिलेंगे परन्तु नाम कुछ भी हो, पातञ्जलि के 'यथा भिमतध्यानाद्वा' सूत्र में बताये आदेश का अवलम्बन करके चित्त-वृत्ति को निरुद्ध करने के किसी भी उपाय से काम लिया जाय, योग-योग ही है । योग पातञ्जलि या किसी अन्य आचार्य की अपेक्षा नहीं करता । वह हिन्दू-धर्म का प्राण है, श्रुति में ओतप्रोत है । यह शंका उठनी चाहिये थी कियकायक गोरख या कवीर के समय यह धारा कैसे फूट पड़ी । भक्ति का सम्बन्ध हृदय से है, बिना किसी के सिखाये भी तप्त मानव रो पड़ता है, आर्त जगत का प्रवर्तक किसी अदृश्य सत्ता की खोज में विह्वल होकर दौड़ पड़ता है और कलियों के चटकने,

योग-प्रवाह

तारों के मुस्कराने, पत्तियों के मर्मर, चिड़ियों के कल्लोल और समुद्र के गर्जन में अपने को लय करके कवि का हृदय गा पड़ता है। परन्तु योग दीर्घकालीन शिक्षा की अपेक्षा करता है, उसका सम्बन्ध हृदय नहीं मस्तिष्क से है; उसमें पदे-पदे संयम की और संयम करानेवाले की आवश्यकता पड़ती है। वैष्णव भक्त स्यात् यह कह सकता होगा—

“नारीर कोल माछेर झोल बोल हरि बोल”

परन्तु योगी को तो सतत यह स्मरण रखना है—

साध संग्राम है रैन दिन जूझना, देह पर्यन्त का काम भाई।
कहत कवीर टुक वाग ढौली करै, उलट मन गगन से जमीं आई ॥

यह बात लोगों को खटकनी चाहिये थी कि योग की परम्परा कवीर तक कैसे पहुँची, बीच की लड़ियाँ कहाँ गयीं। संभव है प्रश्न उठा हो परन्तु उत्तर नहीं मिला।

अब यह अज्ञान कुछ दूर हुआ है। ऐसा पता लगता है कि योग की परम्परा वैदिक धर्म से बौद्धों में आयी। बुद्धदेव स्वयं महा योगी-श्वर थे, उनके प्रमुख शिष्यों में मौद्गलायन और सारिपुत्र तो महा-योगी थे ही दूसरे भी कई अर्हत पद प्राप्त योगी थे। यह धारा अक्षुण्ण नीचे चली। बुद्धदेव के उपदेश लौकिक भाषा में थे, इसलिये योग-वाङ्मय भी लोक भाषा में रचित हुआ। निश्चय ही बौद्ध दार्शनिक सिद्धान्तों के अनुसार कुछ नये शब्द प्रचलित हुए। उपासक का लक्ष्य मोक्ष या कैवल्य नहीं कहा जा सकता था, उसके लिये निर्वाण ही उचित नाम था। योगी के उच्च मानस स्तर को सत्यलोक जैसा कोई नाम न देकर शून्य कहना ही ठीक जँचता था। कुछ दिन तक शुद्ध रूप में चलकर यह प्रवाह तंत्र के रूप में परिणत हुआ। यह परिवर्तन रोचक है पर यहाँ हम इसकी ओर संकेत ही कर सकते हैं। बौद्ध-धर्म के हास और वैदिक धर्म के पुनरुदय के साथ-साथ तंत्र का कलेवर बदलना स्वाभाविक था। उसने धीरे-धीरे अपने बौद्ध जामे को उतार कर वैदिक जामे को

स्वामी राघवानन्द और सिद्धांत-पंचमात्रा

हिन्दी साहित्य के तथा मध्यकालीन धार्मिक आन्दोलन के इतिहास के विद्यार्थियों के लिए स्वामी राघवानन्द का नाम सर्वथा अपरिचित नहीं। स्वामी रामानन्द के गुरु होने के नाते उनका नाम बहुत लोग जानते हैं, किन्तु इतना होने पर भी हमारे लिए अभी तक वे एक प्रकार से हैं नाम ही नाम। नाम के अतिरिक्त उनके विषय में हम जो कुछ जानते हैं वह बहुत थोड़ा है। परम्परागत जनश्रुति से इतना ज्ञात है कि वे रामानुजी सम्प्रदाय के महात्मा थे और योगविद्या में पारङ्गत थे^१। नाभाजी

१—किंवदन्ती है कि राघवानन्द ने अपनी योगविद्या के बल से अपने अधिक प्रसिद्ध शिष्य रामानन्द को मृत्युमुख से बचाया था। कहा जाता है कि स्वामी रामानन्द पहले किसी अद्वैती गुरु के शिष्य थे जिन्होंने अल्पायु योग को देखकर विशिष्टाद्वैती स्वा० राघवानन्द की योगशक्ति के भरोसे उनकी शरण में रामानन्द को छोड़ दिया। स्वामी राघवानन्द ने रामानन्द को भी पूर्ण योगी बना दिया और जिस समय उनका मारकयोग था उस समय उन्हें समाधिस्थ हो जाने की आज्ञा दी। इससे काल उन्हें छू नहीं पाया और मृत्युयोग टल गया।

बहिनने का यत्न किया और इसमें उसको यहाँ तक सफलता मिली कि आज साधारण हिन्दू तंत्र को भी सनातन मानता है। सुरदित ब्रह्मण भी प्रायः यह नहीं जानता कि तंत्र ग्रन्थ वेद को प्रमाण नहीं मानते। शुद्ध तांत्रिक के लिये आगम ही स्वतःसिद्ध प्रमाण है। बौद्ध रूप छोड़ने पर तंत्र ने तीन दिशाओं में विस्तार पाया। शैवागम के आधार पर लिंगायतादि सम्प्रदाय चले। यद्यपि आज यह वैदिक मत के बहुत पास आ गये हैं, फिर भी इनके ग्रन्थ इनके वेद ब्राह्मण होने की पुकार-पुकार कर घोषणा करते हैं। वैष्णवागम की नींव पर श्रीमद्भागवत लिखा गया। तंत्र से दूर हटकर वैदिक बन जाने में सबसे अधिक सफलता इस वर्ग को मिली। तीसरी धारा वह है जिसको साधारण बोल-चाल में तांत्रिक कहा जाता है। मेरा तात्पर्य शाक्त समुदाय से है। वैष्णव, शैव या शाक्त, कोई भी तंत्र हो उसको वैदिक विचारधारा के निकट आने में कोई विशेष कठिनाई नहीं थी। आर्य सदा से शक्ति का उपासक है। 'देवता' के नाम से वह जगत की परिचालक शक्तियों को अपने मन्त्रों के बल से जगाता रहा है। वह स्वधा, आद्या, वाक्, सरस्वती, उमा हैमवती, इडा, गायत्री को पहले से जानता था:—उसको यह मानने में कोई कठिनाई नहीं पड़ी कि यही देवतायें तारा, वाराही, छिन्नमस्ता का नाम रूप धारण करके तन्त्र में अवतरित हुई हैं। राधा और कृष्ण का सम्बन्ध लोकदृष्ट्या कैसा भी लगता हो, पर वेद में अम्बिका वद की पत्नी भी हैं और स्वसा (बहिन) भी। दर्शन के स्तर पर यह बातें निवाही जा सकती हैं।

जितना ही तांत्रिक लोकप्रिय बना, जितना ही उसने अपने को बौद्ध शृङ्खलाओं से छुड़ाया, उतना ही वह अपना तांत्रिक रूप खोता गया। वैष्णव सम्प्रदाय इसका ज्वलन्त उदाहरण है। उधर शाक्त सम्प्रदाय ऐसा न कर सका। डूबते बौद्ध काल की बहुत सी बुराइयों उसमें रह गयीं। वामाचार भ्रष्टाचार का पर्याय हो गया। वामाचार

यद्यपि स्पष्ट रूप से उममें पट्टचक्र इडा पिंगला सुषुम्ना आदि का उल्लेख नहीं है फिर भी सांकेतिक तथा प्रकट रूप से योग की बहुत सी बातें उसमें विद्यमान हैं। योग शब्दावली से वह भरी हुई है—सुन, गगन (२ अ २) शब्द (२ अ २; ६ आ ६) क्लृण्-कार (क्लृण्कार = अनाहतनाद) (२ अ १) आदि का उल्लेख स्थल स्थल पर है। योगियों के मुहावरे भी कहीं कहीं पर प्रयुक्त हुए हैं, जैसे सेल-आन (६ आ ३) और 'रम गयो' (४ आ) पिण्ड पड़ना (६ आ १०) जटा रखना (२ आ १०) भभूत रमाना (२ आ ११-१२) दण्डकमण्डलु धारण करना (२ आ ७) कानों में मुद्रा पहरना (२ अ) आडवन्द और कोपीन धारण करना (२ आ १) मृगछाला रखना (४ आ १०) आदि आदि बातें उममें उल्लिखित हैं (जिनका जोगियों के व्यवहार और वेश (भेष) से सम्बन्ध है, और जान पड़ना है कि उनका उल्लेख विरोध या निषेधमय नहीं वरन् अनुरोध या विधिमय है। उसके साथ ही यंत्रियनिग्रह की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, योगी के मन में धैर्य और ब्रह्मचर्य जीवन इसके लिये आवश्यक बताये गये हैं :—

योगेश्वर मन में धारण धीर

मुज को आडवन्द वज्र कोपीन

इस विध जोगी यंत्री जीत (२ अ १०-२ आ १.)

सन्तोष जोगी के जीवन की बड़ी आवश्यकता है, उसे धन-विभव

सुरति-निरति

(नागरी प्रचारिणी पत्रिका ने उद्धृत)

सुरति तत्त्व मंत्रों के सिद्धान्त और माधन-पथ की भित्ति है । हिन्दी में सुरति का सामान्य अर्थ है स्मृति. याद । तुलसीदास,^१ सूरदास,^२ घनानन्द^३ से लेकर हरिऔध^४ तक अधिकांश में इस शब्द का प्रयोग इसी अर्थ में हुआ है । इस अर्थ में यह शब्द संस्कृत के 'स्मृति' शब्द से निकला है । 'म्' का लोप, 'ऋ' का 'उ'

१—बारवार ग्युनाभर्हि नुरति कगण्णु मोरि ।—गमचरितमानस, कांड ७, पद १९ । और भी देवियण २, ५६; २, ३२५; ३, २६; ५, १४, ६, ६६ (गीता प्रेस संस्करण) ।

२—रीती मटकी सीम धर ।

वन की घर की सुरति न काहँ, लेहु दही यह कइति फिर ।

कवहुँक जाति कुंज भीतर की, तहाँ स्याम की सुरति कर ॥

—सूर-सुपमा, पृ० १९२, ३६० ।

३—लागी है लगनि प्यारे, पगी है सुरति तोसों, जगी है विकलताई,
टगी सी सदा रहै ।—सुजान सागर, (ना० प्र० स० संस्करण) पृ० ७४, ६३ ।

४—कंसारी को सुरति ब्रज के वासियों की कराना ।

—प्रिय-प्रवास, सर्ग ६, छंद ६९ ।

इस भंडार के रत्नों को हमारे सामने लाने का भिन्न लोगों ने यत्न किया है उनमें स्वर्गीय बड़ध्वाल जी थे। प्रस्तुत ग्रन्थ में उनकी कई रचनाएँ हैं जिनमें से कुछ अवतार प्रकाशित नहीं हुई थीं। उनके परिश्रम से हमको कैसा लाभ हुआ है, और उनके अमान्यित निवन से हमारी कितनी क्षति हुई है इसके प्रमाण में एक नहीं निवन पर्याप्त है जिसमें उन्होंने रामानन्दजी और उनके गुरु गजानन्दजी की चर्चा किया है। अकेला यह निवन बहुत सी ग्रन्थियों का सुलझाता है।

इस छोटे से प्राक्कथन के द्वारा मैं अपने दिवंगत् मित्र गण्डर पीताम्बर बड़ध्वाल के प्रति अपनी श्रद्धाञ्जलि अर्पित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि उनकी इन रचनाओं को पढ़कर लोग इस दिशा में और अधिक अन्वेषण करने और हिन्दी साहित्य के इस अनूद्य अंश के उद्धार करने के लिये प्रोत्साहित होंगे। डा० बड़ध्वाल के प्रति अपनी श्रद्धा दिखलाने का हमारे लिये यह सबसे अधिक श्रेयस्कर मार्ग है।

जालिपादेवी, काशी }
श्रावणी २००३ }

सम्पूर्णानन्द

१७१३ ई० में हुई। इस में नाभादास के भक्तमाल में छूटे हुए भक्तों का उल्लेख किया गया है। वारह निरंजनी महंतों का कुछ विवरण उसमें दिया हुआ है, जिनमें ऊपर आए हुए हरिदास, तुरसीदास, खेमजी, कान्हड़दास और मोहनदास सम्मिलित हैं। ये सब राजस्थानी हैं।

इनमें समय की दृष्टि से सब से पहला ग्रंथकार हरिदास जान पड़ता है। राघोदास ने हरिदास को प्रागदास का शिष्य बतलाया है, जिसे छोड़ कर बाद को वह गोरखपंथी हो गया। सुन्दरदास ने भी—जो प्रागदास का बड़ा सम्मान करते थे और जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से भली भाँति जानते थे—हरिदास की गणना गोरखनाथ, कंधड़नाथ और कबीर आदि की भाँति बड़े गुरुओं में की है^१। इस से यह जान पड़ता है कि संभवतः हरिदास ने

१—पुरोहित हरिनारायण जी—सुन्दरदास-ग्रंथावली, भूमिका पृ० ७८।

२—“कोउक गोरष कूँ गुरु थापत, कोउक दत्त दिगंबर आदू,
कोउक कंथर कोउक भर्थर, कोइ कबीरा के राखत नादू।
कोउ कहै हरदास हमार जु, यूँ करि ठानत बाद विवादू,
और सुसंत सबै सिर ऊपर सुन्दर के उर है गुरु दादू ॥”

(पीतांबर जी द्वारा सम्पादित सुन्दर-विलास—१-५)

दूसरे स्थान पर सुन्दरदास उनका उल्लेख अस्त से आध्यात्मिक युद्ध करने में लगे हुए योद्धा के रूपमें करते हैं—

“अंगद भुवन परस हरदास ज्ञान गह्लो हथियार रे ।”

(पीतांबर जी द्वारा संपादित सुन्दर-विलास, पृ० ७५०)

कान्हड़दास इतने बड़े संत थे कि राघोदास उन्हें अंशायनार
 मकते थे। राघोदास के कथनानुसार कान्हड़दास इन्द्रियों पर
 वेजय प्राप्त कर चुके थे। वे केवल भिक्षा में मिले अन्न ही का
 भोजन करते थे। यद्यपि उनको बड़ी सिद्धि तथा प्रसिद्धि प्राप्त थी,
 किन्तु उन्होंने अपने लिये एक मढ़ी तक न बनवाई। वे 'अति
 भजनीक' थे और राघोदास का कहना है कि उन्होंने अपनी
 'संगति के सब ही निसतारे' थे (पृ० १४०)। ये तीनों—
 मोहनदास, कान्हड़ और खेमजी—निश्चय ही राघोदास
 (वि० सं० १७७०==१७१८ ई०) से पहले हुए हैं।

सेवादास ने भी विस्तृत रचना की है। मेरे संग्रह में आई हुई
 उनकी 'वानी' में ३५६१ साखियां, ४०२ पद, ३६६ कुंडलिया, १
 छोटे ग्रन्थ, ४४ रेखता, २० कवित्त और ४ सवैये हैं।

वे सीधे हरिदास निरंजनी की परंपरा में हुए। सौभाग्य
 इनकी पद्यबद्ध जीवनी भी 'सेवादास परची' के नाम से उप
 है। इनके चेले (अमरदास) के चेले रूपदास ने उसकी वि
 संवत् १८३२ (ई० सन् १७९५) में वैशाख कृष्ण द्वादश
 रचना की। रूपदास के कथनानुसार सेवादास की मृत
 कृष्ण अमावस को, संवत् १७६२ वि० में हुई थी। क
 इन्होंने अपना सतगुरु माना है। परची उनके चमत्कारों
 पढ़ी है। त्रिनका उल्लेख यहां आवश्यक नहीं है।

मनोहरदास निरंजनी ने 'ज्ञानमंजरी', 'ज्ञान वचनचूर्णिका' तथा 'वेदान्त भाषा' की रचना की है। पहली^१ संवत् १७१६ वि० में बनी थी और अंतिम की रचना भी कदाचित् इसी समय के आस पास हुई।

इन सब कवियों ने अपनी आध्यात्मिक अनुभूति को सरल और स्वाभाविक सौंदर्यमय गीतों में विकास दिया है। ये गीत बड़े ही चित्ताकर्षक हैं। इन कवियों में से कुछ तो, जिनकी विस्तृत वाणियों का अध्ययन मैंने किया है, इस बातका दावा करते हैं कि वे साधना की चरम अवस्था पर पहुँच कर आत्मदर्शन कर चुके थे। निरंजनियों में भी इस अनुभूति तक पहुँचने का मार्ग निर्गुणियों की ही भाँति उल्टा मार्ग या उलटी चाल कहाता है। मन की बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को—जो जीव को सांसारिक बंधनमें डालने का कारण होती हैं—अंतर्मुखी करना, उनके अनुसार, परम आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, सर की प्रक्रिया को प्रतिसंचर में परिणत कर देने पर ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिये हरिदास ने उलटी नदी बहाने को कहा है^२ और सत्य के खोर्ज को उलटा मार्ग पकड़ने का उपदेश दिया है^३। सेवादास ६

१—“संवत् सत्रह सै माही वर्ष सोरहे माहि।

वैशाख मासे शुक्ल पक्ष तिथि पूनो है ताहि ॥”

२—“उलटी नदी चलारैंगे”—पृ० २५।

३—“उलटा पंथ संभालि पंथी सति सदा सतगुरु कहै ।”



प्रीतान्वरदत्त वडुश्वाल

स्वर्गीय
डा० पीतान्वरदत्त वडुश्वाल
एम. ए., डि. लिट्

अनुसार अलख को पहचानने के लिये उलटा गोता लगाना आवश्यक है। ऐसा करने से आत्मा धीरे धीरे गुण, इंद्रिय, मन और वाणी से अपने आप परे हो जायगी^१। और तुरसी कहते हैं कि जब साधक उलटा अपने भीतर की ओर लौटता है तभी वह अध्यात्म-मार्ग से परिचित होता है^२।

निरंजनियों का यह उलटा मार्ग निर्गुणी कवीर के प्रेम और भक्ति से अनुप्राणित योग-मार्ग के ही समान है। निर्गुणियों की सारी साधना पद्धति उसमें विद्यमान है। निरंजनियों का उद्देश्य है इडा और पिंगला के मध्यस्थित सुपुम्णा को जागरित कर अनाहत नाद सुनना, निरंजन के दर्शन प्राप्त करना तथा वंकनालि के द्वारा शून्यमण्डल में अमृत का पान करना। जो साँच की डोरी^३ उन्हें परमात्मा से जोड़े रहती है, वह है नामस्मरण। नामस्मरण में प्रेम और योग का पूर्ण समन्वय है। साधक को उसमें अपना सारा अस्तित्व लगा देना होता है। साथ ही त्रिकुटी अभ्यास का भी विधान है, जो गोरख-पद्धति तथा गीता की

१—“सहजि सहजि सब जाहिगा गुण यंद्री वाणि।

तू उलय गोता मारि करि अन्तरि अलख पिछायि ॥”

२—“जब उलय उर अन्तर मांही आवै, तब भल ता मघ (? ग)
की सुधि पावै ॥”

३—“भुमिरण डोरी साँच की सत गुरु दई बताय ।”—सेवादास ।

अनुसार पाद-सेवन^१ हृदय-कमलस्थित ज्योति-स्वरूप ब्रह्म का ध्यान करना है; अर्चन^२ समस्त ब्रह्मांड में ॐ का प्रतिरूप देखना है; वंदन^३ साधु गुरु और गोविंद दोनों को एक समझकर उनकी वंदना करना है; दास्य^४ भक्ति हरि, गुरु और साधु की निष्काम सेवा करना है; सख्य^५ भक्ति भगवान् से बराबरी का अभिमान न

१—“तुरसी तेजपुंज के चरन वे, हाइ चाम के नाहिं ।

वेद पुराननि बरनिए, रिदा कँवल कै माहिं ॥”

२—“तुरसी प्रतिमा देपि कै, पूजत है सब कोय ।

अदसि ब्रह्म कौ पूजिबौ, कहौ कौन विधि होय ॥

तुरखिदास तिहूँ लोक में, प्रिमा (प्रतिमा) ॐकार ।

वाचक निर्गुन ब्रह्म कौ, वेदनि बरन्थौ सार ॥”

३—“गुरु गोविंद संतनि विषै, अभिन भाव उपजाय ।

मंगल सूँ वंदन करै, तौ पाप न रहई काय ॥”

४—“तुरसी बनै न दाम कूँ, आलस एक लगाय ।

हरि गुरु साधू सेव मैं, लगा रहै यकतार ॥

तुरसी निहकामी निज जनन की, निहकामी हो मोय ।

सेवा निति किया करै, फल वासना जू पोय ॥”

५—“बराबरी कौ भाव न जानै, गुन औगुन ताको कछू न आनै ।

अपनौ मित जानिबौ राम, ताहि समरपै अपना धाम ॥”

तुरखी त्रिभुवन नाथ कौ, सुहत सुभाव जु एह ।

जेनि केनि ज्युँ भज्यो जिनि, तैसैं ही उधरे तेह ॥”

त्मिक आदान-प्रदान की भाषा बन गई । अतएव इन संतों के प्रति जितनी कृतज्ञता प्रकट की जाय, थोड़ी है ।

खोज से नवीन सामग्री के प्रकाश में आने पर इस प्रकार की अन्य अंतर्धाराओं के दर्शन होंगे । अलग अलग नए रचयिताओं का पता चलने से भी विभिन्न धाराओं की ओर उनके द्वारा समस्त साहित्य की संपन्नता प्रकट होगी ।

के समय में नेपाल गए थे। नरेंद्रदेव का समय तो निश्चित है
 चीनी यात्री वांग ह्यूसे राजा नरेंद्रदेव का अतिथि हुआ था।
 इस यात्री ने सं० ७२२ (ई० ६६१) में अपना यात्रा-विवरण
 लिखा। इससे नरेंद्रदेव का भी यही समय होना चाहिए।
 परंतु क्या इसी से यह भी मान लिया जाय कि गोरखनाथ का
 भी यही समय है? कई विद्वान् और उनके साथ डा० शही-
 दुल्ला यह मानते हैं। पर वास्तव में इन जनश्रुतियों को शब्दशः
 इतिहास मानना उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति
 प्रसिद्ध घटनाओं को बहुत प्राचीन समय में ले जा रखने की है।
 विक्रम से पूर्व १६३ संवत् (ई० पू० २१०) में अशोक ने
 लुंबिनी आदि तीर्थों को देखने की आकांक्षा से नेपाल की यात्रा
 की थी। परंतु इन श्रुति-परंपराओं के अनुसार यह घटना
 कलिगत संवत् १२३४ (ईसा से पूर्व १८६७) से लगभग
 २० पीढ़ी पहले किराता राजा म्यूका के समय में हुई।
 इसी प्रकार जगद्गुरु शंकराचार्य का दिग्विजय करते हुए
 राजा वृषदेव के समय में नेपाल जाना कहा गया है।
 जगद्गुरु शंकराचार्य का समय विक्रम के नवें शतक के
 उत्तरार्ध अर्थात् कुछ दशवें शतक के आरंभ में पड़ता है जब
 कि राजा वृषदेव का समय इतिहासवेत्ताओं ने पाँचवें शतक
 का आरंभ माना है। यही दशा गोरखनाथ और मंछंदरनाथ
 की नेपाल-यात्रा की भी हुई होगी।

पहले नेपाल में मानें तो अनुचित न होगा। इससे भी गोरख-नाथ का समय ग्यारहवें शतक का मध्य ही ठहरना है।

इन सब बातों से हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि गोरख-नाथ का समय संवत् १०५० के आसपास है।

अब प्रश्न यह उठता है कि गोरखनाथ की जो रचनाएँ उल्लेख हुई हैं वे इतनी पुरानी हैं या नहीं ? इसमें तो सह नहीं कि उनमें प्राचीनता के चिह्न हैं। उदाहरण के लिये—

आओ माई धरि धरि जाओ गोरख बाल भरि भरि स्त्राओ ।
झरै न पारा वाजै नाद, ससिहर सूर न वाद विवाद ॥
पवन गोटिका रहणि अकास महियल अंतरि गगन कविलास ।
पयाल नी डीवी सुन्नि चढ़ाई कथत गोरखनाथ मछींद्र बतार्ई ॥

इसमें ससिहर, महियल, पयाल इसकी प्राचीनता के द्योतक हैं। इसी प्रकार, अम्हें, तुम्हें आदि सर्वनाम भी इनकी रचनाओं में मिलते हैं। हि विभक्ति प्राकृत और अपभ्रंश में प्रायः सभी कारकों का काम देती थी। इनकी रचनाओं में वह इ के रूप में विद्यमान है। 'जल कै संजमि अटल अकास' में के 'संजमि' में वह करण की विभक्ति की स्थानापन्न है और 'कौणे चेतनि मन उनमनि रहे' में के 'चेतनि' में अधिहरण की। परंतु सब रचनाओं को पढ़ने से जो प्रभाव पड़ता है उससे वे उतनी प्राचीन नहीं जान पड़ती जितनी अर्वाचीन।

ने भी उनका रामानुजी होना कहा है। नाभा जी के अनुसार राघवानन्द भक्ति आन्दोलन के बड़े भारी नेता हुए। उन्होंने भक्तों को मान दिया, चारों वर्णों और आश्रमों को भक्ति में इढ़ किया और सारी पृथ्वी को हिलाकर (पत्रालम्बित कर) वे स्थायीरूप से काशी में बस गये। हरिभक्तिमन्थुवेला ग्रन्थ में, जिसके कर्ता अनन्तस्वामी बताये जाते हैं, उनका दक्षिण से आकर उत्तर में राममन्त्र का प्रचार करना कहा गया है। राघवानन्द ही की शिष्यपरम्परा में होनेवाले मिहीलाल ने (अनुमानतः सत्रहवीं शती में विद्यमान) उनको अवधूतवेशवाला कहा है।

इस बात में तो सभी स्रोत सहमत हैं कि राघवानन्द प्रसिद्ध रामानन्द स्वामी के गुरु थे, नाभाजी का कथन है :—

१—भक्तमाल ३० ।

२—सम्भवतः रामानन्द के शिष्य अनन्तानन्द से अभिप्राय हो ।

३—वन्दे श्रीराघवाचार्यं रामानुजकुलोद्भवं ।

याम्यादुत्तरमागत्य राममन्त्रप्रचारकम् ॥ २ ॥

ह. भ. सिं. वे., मन्त्रप्रकरण, चौथी तर

श्री रामट्टहलदास का कहना है कि यह 'ग्रन्थ रेवास स्थान में हस्त लेखित धरा है' । श्री रा० दा० संपादित वैष्णवमताब्जभास्कर "पृ० ५

४—श्री अवधूतवेष को धारे राघवानन्द सोइ ।

रिसर्च रिपोर्ट ना० प्र० स० १९०० सं० ५

प्रसिद्ध खोजी महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध-
गान नाम से सहजिया संप्रदाय के कुछ गीतों का संग्रह प्रकाशित
किया है। इसमें से कानपाद का एक पद लीजिए—

आलिए कालिए वाट हँवैला, ता देखि कान विमन भईल ।
कान्हु कहिं गइ करिव निवास, जो मन गोअर सो उआस ॥
ते तिनि ते तनि तिनि हो भिआ, भणई कान्हु भव परिछिआ ।
जे जे आइला ते ते गोला, अघनागवने कान विमन भईला ॥
हेरि से कान्हु जिन उर बटई, भणइ कान्हु मो हियहि न पइमई ॥

शास्त्रीजी इसे बँगला का पुराना रूप बतलाते हैं। परंतु हमें
इसमें पूर्वी हिंदी के विलकुल पुराने नहीं बल्कि कुछ विकसित
रूप के दर्शन होते हैं। इससे गोरखनाथजी के नीचे लिखे पद
को मिलाइए—

कान्हाप व भेटीला, गुरु विद्यानग्रे सैं ।
तार्थे पाईला गुरु, तुम्हारा उपदेसैं ॥
एते कछु कथीला गुरु, सर्वे भइला भोलै ।
सर्वे कमाई खोई, गुरु वाघनी चै पोलै ॥

मराठी 'चै' को छोड़कर इन दोनों में बहुत कुछ समा-
न्ता है, विशेषकर क्रियापदों के आईला गईला भईला इत्यादि
रूपों में बौद्धगान से जो पद ऊपर दिया गया है उसके
कर्ता का समय डा० शहीदुल्ला ने आठवीं सदी रखा है। परन्तु
सुमे यह रचना इतनी प्राचीन नहीं जान पड़ती। गोरख-

रामानुज पद्धति प्रताप अवनी अमृत ह्वै अनुसन्धो

देवाचारज दुतिय महामहिमा हरियानन्द ।

तस्य राघवानन्द भये भक्तन को मानद ॥

पत्रावलम्ब पृथिवी करि वस कासी स्थाई ।

चारि वरन आश्रम सवहीं को भक्ति दृढ़ाई ॥

तिनके रामानन्द प्रगट विश्व मङ्गल जिन वपु धन्धो ।

रामानुज पद्धति प्रताप ३०

नाभा जी के समकालीन और सहतीर्थ जानकीदास के पोता-
चेले तथा वैष्णवदास के चेले मिहीलाल (अनुमानतः १७वीं शती)
ने भी अपने गुरुप्रकारी नामक ग्रन्थ में लिखा है :—

धनि धनि सो मेरे भाग श्रीगुरु आये हैं

श्री अवधूत वेष को धारे राघवानन्द सोई

तिनके रामानन्द जग जाने कलि कल्याणमई

तथा

श्री राघवानन्द सरन गही जब निज जनु लियो अपनाई ।

श्री रामानन्द दास नाम कर भुज पसार लियो कंठ लगाई ॥

सं० १८८० की लिखी कही जानेवाली श्री वालानन्द जी के
स्थान जैपुर की दोहावद्ध परम्परा में राघवानन्द रामानुजाचार्य
जी की परम्परा में हर्याचार्य के शिष्य और रामानन्द के गुरु-
माने गये हैं—

हरियाचारज शिष्य भये तिनके सब जग जान ।

नाथजी का समय हम ११०० संवत् निर्धारित कर आए हैं। गोरखनाथजी की रचना में प्राचीनता के निशान होने पर भी जिस रूप में वह हमें प्राप्त हुई है वह इतना पुराना नहीं कहा जा सकता। जान पड़ता है कि गोरखनाथ के उपदेशों के प्रचार के इच्छुक उनके अनुयायी जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ के लोगों के लिये उनके उपदेशों का बोधगम्य करने के उद्देश्य से उनकी रचनाओं में देशकालानुसार फेरफार करते रहे। इसीसे जिस रूप में हमें आज वह मिलती है उसमें कई प्रांतों की भाषाओं का प्रभाव देख पड़ता है। ऊपर जो उद्धरण दिए गए हैं उनमें एक स्थान पर 'पयाल नी डीवी' में 'नी' गुजराती है। मराठी 'चै' का हम दर्शन कर ही चुके हैं। महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्रीजी को उनको बँगला के पू्व रूप मानने के लिये भी उसमें आधार विद्यमान है; जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। राजस्थानी ठाट तो पद पद पर देखने को मिलता है। यहाँ पर एक ही उदाहरण काफी होगा—

हवकि न बोलिवा ठवकि न चलिवा धीरे धरिवा पावं ।
 गंरव न करिवा सहजै रहिवा भणत गोरखरावं ॥
 गढ़वाल के प्रसिद्ध साहित्य-प्रेमी पंडित तारादत्त जी गैरोला की कृपा से मुझे कुछ प्रसिद्ध योगियों की रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। इनमें गोरखनाथजी की निम्नलिखित लोती-मोती मंत्र

भये राघवानन्द पुनि तिनके भजन सुजान ॥१३॥

श्री रघुवर अवतार ले प्रगटे रामानन्द

कलि मँह जे मतिमन्द अति मुक्त किये नरगुन्द ॥ १४ ॥

राघवानन्द के अपने विचार का थे, किन् सिद्धान्तों का उन्होंने प्रचार किया इसका हमें विशेष ज्ञान नहीं है। इसका कोई साधन भी अवतक नहीं था, परन्तु अब एक छोटी सी पुस्तिका प्राप्त हुई है जो राघवानन्द रचित कही जाती है। सम्भव है कि उससे इस सम्बन्ध में हमारा कुछ ज्ञानवर्धन हो सके। इस पुस्तिका का नाम है—सिद्धान्त पञ्चमात्रा। यह दानवाटी, गोवर्द्धन, के हनुमानमन्दिर के महन्त रामानुज सम्प्रदाय के साधु श्रीरामशरणदास जी से प्राप्त हुई है और नागरी प्रचारिणी सभा के पुस्तकालय में सुरक्षित है। पुस्तिका की पुष्पिका में लिखा है—“ई [ति] श्री राघवानन्द स्वामी की सिद्धान्त पञ्चमात्रा संपुरण”। पुस्तिका में छोटे छोटे बारह पृष्ठ थे जिनमें से चार लुप्त हो गये हैं केवल आठ मिले हैं, प्रत्येक पृष्ठ में लगभग ३२ शब्द हैं। इस हस्तलिखित प्रति में न तो निर्माणकाल दिया है और न लिपिकाल।

अन्तःसाक्ष्य से पता चलता है कि पुस्तिका के रचयिता राघवानन्द हों या न हों, उसकी यह प्रति राघवानन्द के समय की नहीं है क्योंकि उसमें कवीर और गोरख के शास्त्रार्थ का उल्लेख है और चतुःसम्प्रदाय के अन्तर्गत रामानन्द सम्प्रदाय का उल्लेख है-

सवदी, पद, तिथि, वार, अभैमात्रा योग, संख्या दर्शन, प्राण संकलि, आत्म-बोध, नरचै बोध, काफर बोध, श्रवली सिलक, जाती भौरावली, रामावली, सापी, मछीन्द्र गोरखबोध, गोरख गणेश संवाद, गोरख दत्त, संवाद । इनके अतिरिक्त ज्ञान सिद्धांत जोग, ज्ञान तिलक, विराट पुराण, कंधड़ बोध, रह्रास, किसन असतुति, सिद्ध इकवीसा, अष्ट मुद्रा इन आठ ग्रन्थों का उल्लेख खोज के १९०२ ई० के विवरण में है । इनमें अवश्य ही कुछ तो गोरख के बनाए नहीं हैं, जैसे गोरख गणेश संवाद और गोरख दत्त संवाद । इन पौराणिक व्यक्तियों से उनके संवाद की बात उनके शिष्यों ने ही गढ़ी होगी । यहाँ पर इतना समय नहीं है कि इन सब ग्रन्थों की छान-बीन की जाय । जिस प्रति से मेरे संग्रह की प्रतिलिपि कराई गई है वह बहुत पुराने कागज पर लिखी हुई है । कागज इतना पुगना है कि छूते ही टूटने लगता है । इसके आदि और अंत के कुछ पृष्ठ नष्ट हो गए , इससे उसके लिपि-काल का ठीक ठीक पता नहीं लगता । कागज की प्राचीनता और उसमें रजवदास तक की रचनाओं का संग्रह होने से यह अनुमान किया जा सकता है कि शाहजहाँ के शासन-काल के अंत में इसकी लिपि की गई होगी ।

इस संग्रह से पता चलता है कि गोरखनाथजी अपने ढर्रे के केवल एक ही कवि नहीं हुए बल्कि वे हिंदी कविता पर अपनी छाप लगा गए थे । उनके बहुत काल बाद तक उनके अनुयायी

६ अ-१० ज्ञान गे.सटी की घात कवीर गोरप की वीती

१३ र्सीगीनाद कान की मुद्रा

७ अ- १ कवीरन गोरप कू जीत्यो

तथा

७ अ- ७ श्री संप्रदाचारी

८ श्री गुरु रामानन्द जी नीमानन्द जी माधवाचारी
विष्णुस्वामी

इससे यह अनुमान होता है कि यह प्रति कवीर के जीवन-काल से भी कम से कम एक शताब्दी बाद की तो अवश्य है क्योंकि तब तक कवीर के सम्बन्ध में वे परम्पराएँ प्रसिद्ध हो गयी थीं जो उनके जीवनकाल में घटित नहीं हुई थीं क्योंकि कवीर और गोरख कदापि समकालीन नहीं थे ।

इसी कारण इसके स्वामी राघवानन्द की रचना होने में भी सन्देह हो जाता है । स्वयं पुस्तिका के अनुसार वह रामानन्द को स्वामी राघवानन्द का उपदेश है—

७ अ० १४ 'श्री राघवानन्द स्वामी उचरन्ते श्री रामानन्द स्वामी सुनन्ते' इससे यह भी स्पष्ट है कि राघवानन्द से अभिप्राय रामानन्द के गुरु ही से है किसी अन्य से नहीं । ऐसी रचनाएँ बहुधा गुरु की न होकर उनके शिष्य अथवा किसी प्रशिष्य की होती हैं । होने को तो केवल कवीर-गोरख गोष्ठीवाला प्रसंग भी पीछे से जुड़ा हुआ हो सकता है किन्तु सावधानी यही चाहती है

योग-विषयक कविता रचते रहे। इस संग्रह में २० योगियों की कविता संगृहीत है। इनमें से कई तो पौराणिक नाम हैं जिनके विषय में यही कहा जा सकता है कि पीछे से उनके नाम पर पुस्तकें बनाई गई होंगी, उदाहरण के लिये हणवन्त, दत्तात्रेय और गणेश की कविता उपस्थित की जा सकती है। इसी प्रकार महादेव और पार्वती की भी कुछ रचनाएँ इस संग्रह में दी गई हैं। महादेव के नाम से जो रचना है उसमें पार्वती को उपदेश दिया गया है—

यंद्री का जती, मुप का सती,

हृदा का कमल मुकता;

ईश्वर बोलंत पारवती,

तो जोगी जो जुगता ।

नाथपंथवाले अपनी गुरु-परंपरा शंकर से आरंभ करते हैं। शंकर इस प्रकार आदिनाथ कहलाए। मंत्र-तंत्र सभी महादेवजी का आश्रय लेकर चले हैं। उधर शंकराचार्य का शैवमतावलंबी होना भी इससे कुछ संबंध रखता है। किंवदंती है कि महादेव ने सबसे पहले पार्वती को योग का रहस्य बतलाया था। इसको मछंदरनाथ ने नदी में मछली होकर सुना। इसी कारण उसको महादेवजी का शाप हुआ था जिससे गोरखनाथ ने उसका उद्धार किया। संभव है कि मछंदरनाथ ने महादेव-पार्वती के संवाद रूप में अपने परिवर्तित मत को लिखा हो जिसकी

कि हमें इसे उस समय से पहले की न मानें जिम्न समय उनमें कवीर-गोरख गोष्ठी का जुड़ना सम्भव हो सकता था। इन्में अधिक से अधिक पहले ले जाने पर हम उसे सत्रहवीं शती की रचना मान सकते हैं। पुस्तिका की भाषा भी उसको सत्रहवीं शती का मानने में कोई बाधा प्रस्तुत नहीं करती। कभी कभी परम्परा से चली आती हुई रचनाओं में स्मृतिदोष आदि कई कारणों से अपने आप अर्थात् किसी के सज्जन प्रयत्न के बिना ही बहुत सी बातें पीछे से जुड़ जाती हैं। प्रस्तुत पुस्तिका में भी ऐसा ही हुआ जान पड़ता है, क्योंकि कवीर और गोरख के समय के विषय में चाहे कवीरपन्थियों को भ्रम हो जाय परन्तु कवीर और उनके दादागुरु राघवानन्द के समय के सम्बन्ध में भ्रम नहीं हो सकता। इस भ्रम में पड़ कर कवीर का महत्त्व बढ़ाने के उद्देश्य से भी यदि किसी ने जाल किया हो तो अपनी उद्दिष्ट बातों को जाल रचने वाले ने उन्हीं बातों के बीच रक्ख होगा जो उस समय सच्ची समझी जाती होंगी। इससे यह पुस्तिका चाहे अंशतः भी राघवानन्द की रची न हो इतना जानने में तो अवश्य ही हमारी सहायता करती है कि उनकी एक शिष्य प्रशाखा में चलती हुई परम्परानुसार उनकी विचारधारा क्या थी।

पुस्तिका बहुत छोटी है, इस लिये वह जितनी मिली है, सारी इस निबन्ध के अन्तमें दे दी गयी है। वह गद्य में है या पद्य में यह कहना कठिन है। कहीं पर उसमें पद्य सा लगता है फिर वह गद्य

तक प्राप्त नहीं हुई है। यह भी कहा जा सकता है कि योगेश्वरी वाणी में काव्य के उच्च गुणों का अभाव ही सा है और वह अधिकतर पद्य की ही सीमा में बँधी रही। कांता-सम्मित उपदेश उसके दिये दिया भी नहीं जा सकता था। यह बात ठीक है, पर यही आक्षेप निर्गुण कविता पर भी किया गया है और इसके कारण उसके संबंध में वहिष्कार-नीति का अनुसरण नहीं किया गया। साहित्य के इतिहास में काव्य के गुण-दोषों की समीक्षा का होना आवश्यक है; परंतु उसके आधार पर त्याग-नीति का अवलंबन इतिहास की सीमा के बाहर है। अपनी वस्तु चाहे बहुमूल्य हो अथवा अल्पमूल्य, उसे अपनी स्वीकार करना ही पड़ेगा। फिर योग की कविता का बहुत प्राचीन साहित्य होने के कारण भी उसका अपना अलग ही मूल्य है जिसके लिये हमें योगियों का समुचित आभार मानना चाहिए।

अवलोकनीय साहित्य

१ हिस्टरी आव् नेपाल, पं० गुणानंद शर्मा की सहायता से मुं० शिवशंकर द्वारा अनुवादित तथा डा० राइट द्वारा संपादित । ॥

२ तारानाथ रचित गिशडेस बुद्धिस्मस इन इंडीन, सेंट-पीटर्सवर्ग । (इस ग्रंथ से मैं सहायता न ले सका ।)

३ सिल्वेन लेवी रचित ले नेपाल ।

४ डा० शहीदुल्ला रचित चैट्स डि मिस्टिक्स ।

सा जान पड़ने लगता है। सुभीवे के लिए मैंने पुस्तिका को अलग-अलग पंक्तियों में विभक्त कर दिया है। जहाँ तक सा मिलता हुआ दिखायी दिया है वहाँ तक पर और शेष स्थलों पर भाव आदि के अनुरूप, सुभीवे के लिये मैंने प्रत्येक पंक्ति पर अलग-अलग संख्या दे दी है। प्रति के पत्र तथा पृष्ठ संख्या का भी संकेत यथास्थान कर दिया गया है। जिस स्थल पर पुस्तिका का एक पृष्ठ समाप्त होकर दूसरा आरम्भ होता है, वहाँ पंक्ति के ऊपर एक सीधी पाई दे दी गयी है।

परन्तु इस पुस्तिका में ठीक ठीक लिखा क्या है यह जानने में कई कठिनाइयाँ हैं। एक तो इसके दो पन्ने अथवा चार पृष्ठ खो गये हैं जिससे उन स्थलों का पूर्व अथवा अपर प्रसंग न जानने के कारण अर्थ समझ में नहीं आता। दूसरे, इसकी बातों का परस्पर सम्बन्ध और क्रम समझना वैसे भी कठिन है और पढ़ते पढ़ते यह भी संदेह होने लगता है कि कहीं सुग्रथित ग्रंथ न होकर यह भी 'अनमिल आखर अरथ न जापू' वाले मंत्रों के ही समान तो नहीं है। फिर शब्द अलग-अलग न लिखे जाकर एकसाथ सटा कर लिखे गये हैं। इससे यह आशंका रह जाती है कि हो सकता है कि मैंने तोड़ कर जो शब्द पढ़े हैं वे विल्कुल ठीक वे ही न हों जो लेखक ने लिखे थे। कुछ न कुछ स्थलों पर तो अवश्य ही यह बात हुई होगी। कहीं पर भाषा का प्रयोग भी ऐसा है कि एक से

ये पद्य गोरखनाथ की सचरी के हैं। इनसे पता चलता है कि वे मुसलमानों के हृदय में अहिंसा की भावना भरना चाहते थे जिससे उन्हें अपने हिंदू पढ़ासियों के साथ मेल-जोल से रहने की आवश्यकता मालूम पड़ती। संभवतः चाचा रतन हाजी उनके मुसलमान चेलों में से एक थे, जिन्होंने अपने ग्रंथ काफिर बोध में ऐस्य के पक्ष में बहुत कुछ कहा है।

पृ०५२२ की एक टिप्पणी में पांडेयजी ने बड़ा अनुग्रह करके मेरा स्मरण किया है, और नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग ११, अंक ४ में छपे हुए मेरे लेख 'हिंदी-कान्य में योग-प्रवाह' में से एक अवतरण दिया है जिसमें मैंने कहा है—“निर्गुण शाखा वास्तव में योग का ही परिवर्तित रूप है। भक्ति-धारा का जल पहले योग के ही फाट पर बहा था”, इस र अपना अभिमत देते हुए पांडेयजी ने सत्कामना की है—“भक्ति एवं योग के विवाद में न पड़, हमें यही कहना है कि यदि उक्त पंडितजी इस विषय की सीमांसा में तल्लीन रहेंगे तो एक नवीन तथ्य का उद्घाटन ही नहीं प्रतिपादन भी हो जायगा।” पांडेयजी की सत्कामना के लिये मैं कोटिशः धन्यवाद देता हूँ। परंतु मुझे इस बात का पता नहीं चला कि पांडेयजी 'भक्ति एवं योग का विवाद' कहाँ से ले आए हैं। जान पड़ता है कि उक्त लेख में मेरे इस कथन की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया—“गोरखनाथ का हठयोग केवल ईश्वर-प्रणिधान में बाहरी सहायक मात्र है। न कबीर ने ही वास्तव में योग का

अधिक अर्थकी सम्भावना हो जाती है। उदाहरणतः † इस पुस्तक में 'ने, नहीं और बहुवचन, नीनों का योनक हो सकता है—

“रोरी श्री आचारजन करी” (४ आ, ५)

“सूल धरण सीन्दूर की अवभूत भरी” (४ आ, ६)

“कवीरन गोरख कू जीता” (७ अ, १)

ऐसे स्थलों पर पूर्वापर प्रसंग का ध्यान रखकर ही सैनि अर्थ समझने का प्रयत्न किया है। परन्तु यह निश्चयरूप से नहीं कहा जा सकता कि जो अर्थ सैने लिया है, वह सर्वथा सही ही है।

इस पुस्तिका के अनुसार स्वामी राघवानन्द का साधनामार्ग योग और प्रेम का समन्वित रूप है जो पुस्तिका ही के अनुसार सनत्कुमार आदि ब्रह्मा के चार मानस पुत्रों के द्वारा चलाया गया था—

सनक सनन्दन सनतकुमार

जोग चलायो अपरमपार

प्रेम सुन सनकादिक चारु गुरु भाई

डंड कमंडल योग चलायी २ अ ४-७

और

पीता म राखे जोगेसुर मतवाला

उपजे ज्ञान-ध्यान प्रेमरस-प्याला ४ आ, १-२

† इस सम्बन्ध में यह बतलाना उचित होगा कि गढ़वाली बोली खंडी बोली के कर्ता क्री 'ने' विभक्ति के स्थान पर न का ही प्रयोग होता है

मुँह से ऐसी ही बातें निकलती हैं मानो अभी वे काशी ही में हों । अगर पाठ-परिवर्तन ही मानना अभीष्ट हो तो 'जाई' का 'आई' बन जाना क्यों न माना जाय ? यद्यपि मैं स्वयं यह नहीं मानता ।

पांडेयजी ने यह भी दलील पेश की है—'जहाँ तक हमें इतिहास का पता है, उस समय मगहर में मुगलमानों का निवास न था ।' मुझे इतिहास का बहुत कम पता है, परंतु जाननेवाले बतलाते हैं कि उस समय गोग्रवपुर के आमपाम का शासन नवाब विजलोग्याँ पठान के हाथ में था । गाजी मियाँ मालार जंग तो बहुत पहले बहराइच तक आ पहुँचे थे । फिर उस समय मगहर में मुसलमानों के वसों में कौन सी असंभवता है ?

इन सब बातों को देखते हुए यदि कोई यह माने कि कबीर के जन्म-स्थान के लिये काशी का दावा संदेहास्पद है तो अनुचित नहीं । यह बात ठीक है कि 'न जाने कितनी बार कबीर ने अपने को काशी का जुलाहा कहा है' पर इससे यह कहाँ निकलता है कि वे पैदा भी वहीं हुए थे । आजकल अपने आपको बनारसी कहनेवालों की संख्या वेढव बढ़ रही है पर यह इस बात का प्रमाण थोड़े ही है कि वे जनमे भी बनारस ही में हैं ।

मेरा तो विचार है कि कबीर का मगहर ही में जन्म लेना अधिक संभव है । कबीर के शिष्य धर्मदास भी यही कहते जान पड़ते हैं । उनका कहना है—

कृत करणी जाति भया जुलाहा ।^{१०} इत्यादि इत्यादि ।

अपने जुलाहेपन का ऐलान वे ऊँचे से ऊँचे स्वर में और ऊँचे से ऊँचे बुरज से करने के लिए तैयार रहते थे । यह भी उनके सुसलमान होने एक पुष्ट प्रमाण है ।

वे जुलाहा कुल में केवल पाले-पोपे ही नहीं गये थे, पैदा भी हुए थे । रज्जवदास संग्रहीत 'सर्वांगी' में दी हुई निम्नलिखित पंक्तियाँ इस बात को बहुत स्पष्ट शब्दों में पुष्ट करती हैं—

जुलाहा त्रभे उतपनो साध कवीर महामुनी ।

उत्तम ब्रह्म सुमिरणं नाम तस्मात् किं नाति (ज्ञाति) कारणम् ।^८

ये पंक्तियाँ रज्जव की ही अथवा उनके किसी समकालीन गन्त की जान पड़ती हैं, क्योंकि इनके साथ ही दादू का भी उल्लेख हुआ है । रज्जवदास दादू के शिष्य थे । दादू का जन्म सं० १६०१ में और मृत्यु सं० १६६० में हुई थी । कवीर की मृत्यु सं० १५०५ में हुई थी, अन्य विद्वान् सं० १५७५ में^{१०} भां मानते हैं । इस प्रकार दादू कवीर के समकालीन न होने पर भी काफ़ी समीप काल के हैं । वे कवीर के बड़े श्रद्धालु भक्त भी थे । इससे उनके

७—वही, वही, २७१

१० 'सर्वांगी' (भजन प्रताप का) अंग २२, (ग्रन्थ साध

से क्या करना है। अन्त में केवल पाँच हाथ भूमि समाधि के लिए बस होती है:—

तीन हाथ अनदेहा पाँच हाथ कर धरनी (४ अ ८)

जब तक शरीर का अस्तित्व है उसकी सामान्य आवश्यकताएँ तो पूरी करनी ही होती है। इसके अनंतर, उसे निश्चिन्त और निर्द्वंद्व होकर योगमार्ग पर चलना चाहिए।

सादु चालुचाल चालो पन्था

रापो कन्था रहो निचन्ता (६ अ, ९)

इंद्रियजितता के लिये नासिकाग्र दृष्टि का विधान है—

जीह मारी द्रोत्री (ही) कल जीतो जोगी रापो हाथ

नन (? नैन) नासका येक ही हाथ

देख्या चाह जग व्योहार (१ आ ७-६)

इस क्रिया से जगत का व्यवहार रूप प्रत्यक्ष होता है; यह अनुभव होता है कि परमार्थ रूप से जगत सत्य नहीं है। खेचरी मुद्रा का भी विधान है जिसमें योग ग्रंथों के अनुसार भ्रूमध्यादि माथनी पड़ती हैं—

खेचर कर तो गुर की आण (७ अ, १०)

प्राणायाम से (पवन) के द्वारा शुक्र (पानी) को स्थिर करके ऊर्ध्वरेता होकर योगी कालब्रंचणा करता है और अमर हो जाता है—

पवन पानी धरें मों जुग जुग जीव जोगी आस (९ आ ६)

कहलाना वे अपना निरादर समझें। आज 'कोरी' चाहे जुलाहा कहे जाने पर धीरे से यह कह दे कि मैं हिंदू जुलाहा हूँ, पर जुलाहा कोरी कहे जाने पर बिना तचे न रहेगा। उस जमाने में संभवतः जुलाहों के हृदय में 'कोरीपन' के त्याग के लिए कुछ पश्चात्ताप भी अवश्य रहा होगा। क्योंकि उन दिनों धर्म-परिवर्तन स्वेच्छा तथा हृदय की अनुभूति के कारण नहीं होते थे, बल्कि जोर-जबर से। इन बातों को ध्यान में रखने से कवीर की विचार-धारा को समझने में आसानी होगी। सचमुच कवीर को मुसलमान रूप में जानना उनके संबंध में कुछ न जानने के बराबर है और उन्हें जुलाहे के रूप में जानना उनके संबंध में सब कुछ जानने के बराबर है।

कवीर का जुलाहा होना हमें एक ओर तथ्य की ओर ले जाता है। आजकल कवीर-पंथियों का विश्वास है कि कवीर ने योग का विरोध किया था। उनके नाम से चले ग्रन्थों में कवीर की गोरखनाथ से भिड़न्त करायी गयी है, जिसमें कवीर विजयी ठहराये गये हैं। परन्तु वस्तु-स्थिति इसके विपरीत है। कवीर गोरखनाथ के विरोधी नहीं ऋणी और कृतज्ञ थे, और एक प्रकार से अनुयायी भी। 'हिन्दी-काव्य में योग-प्रवाह' नामक अपने निबन्ध में मैने

सांकेतिकरूप से हठयोग का पूरा विधान पुस्तिका में है। हठयोग का चरमोद्देश्य सूर्यचन्द्र (प्राणापान, इडापिंगला) समागम है जिससे समाधिअवस्था में पहुँचकर नाद, शब्द और ज्योति इस प्रकार त्रिधा योगानुभूति होती है—

चन्द्रसुरज जमी असमान तारामण्डल भये प्रकास (१ आ ५)

आवुन जोगी यह धनकार

सुन गगन म ध्वजा फराई पुछो सबद भयो प्रकासा

सुन लो सीधो सबद का वासा (२ अ-१-३)

वैष्णवधर्मसंन्वन्धी बातों का भी इसमें काफी समावेश है। द्वादश* (द्वादशाक्षर मन्त्र-ओं नमो भगवते वासुदेवाय) तिलक, तुलसी की माला और सुमरनी (२ आ-६) का आदर के साथ उल्लेख किया गया है, आरती अर्घ्य और चरणामृत का भी उल्लेख है, और यह उल्लेख यदि उतना आदरपूर्ण नहीं है तो इसका कारण यह नहीं है कि उनका विरोध किया जा रहा है बल्कि इस लिए कि उनके केवल बहिर्मुखी प्रयोग की प्रवृत्ति रोकी जाय। नामस्मरण का इतना महत्त्व माना गया है कि उसके बिना सब योग और वैराग्य फीके समझे गये हैं, प्रेम की भावना भी (२ आ, ६; ४ आ २) जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है, संभवतः योग के ऊपर वैष्णवतत्व ही की पुट है।

* द्वादश 'तिलक' का विशेषण भी हो सकता है। उस दशा में उसका अर्थ होगा द्वादशाक्षरमन्त्र का जाप करने वालों का तिलक।

झोर वहां भगवद्द्वार्ता में रमा रह गया। बल्लभाचार्य जी ने जब इस घात को सुना तो (उनके पुत्र) श्री गुसाईं जी (विट्ठलनाथ) ने गोविंद दुबे को एक श्लोक लिख भेजा। जिस समय गोविंद दुबे के पास वह पत्र पहुँचा, उस समय वह संध्यावंदन कर रहा था। उसे पढ़ते ही गोविंद दुबे वहाँ से ऐसा चला कि पीछे फिर कर भी न देखा। मीराबाई ने कितना समझाने का प्रयत्न किया पर वह रुका नहीं।^१

कृष्णदास अधिकारी की वार्ता से पता चलता है कि आचार्य महाप्रभु के कुछ 'निजसेवक' मीराबाई को नीचा दिखाने का भी प्रयत्न किया करते थे। उससे इस विरोध के कारण का भी कुछ पता चलता है।

कृष्णदास अधिकारी एक बार द्वारिका गया। वहाँ से रणछोड़

१ "और एक समय गोविंद दुबे मीराबाई के घर हुते। तह मीराबाई सों भगवद्द्वार्ता करत अटके। तब श्री आचार्य जी ने सुनी जे गोविंद दुबे मीराबाई के घर उतरे हैं सो अटके हैं। तब श्री गुसाईं ॥
 ॥ एक ब्रजवासी के हाथ पठायौ तब ॥

इस प्रकार दो मतों के एक में समन्वित होने में एक बहुत अच्छा परिणाम यह हुआ जान पड़ता है कि दोनों पर उसमें निष्पत्त दृष्टि भी डाली जा सकती है और दोनों की वहिर्मुख्य दृष्टि से मुक्ति प्राप्त करना संभव हुआ है। जैसे भीतरी भाव के बिना आरती, अर्घ्य, चरणामृत आदि वैष्णवी पूजा विधान छूटे अर्थात् रिक्त समझे गये हैं वैसे ही योग की क्रियायें भी। जहाँ पुस्तिका में एक ओर लिखा है—

गंगा जमुना के असनान
 राय चमेली पुसप विमान
 तुलसी चन्दन सेज प्रमान
 सजन आरती अरघ समान
 चरणामृत ओर छूठी पूजा ओर भगवान
 (४ अ २-६)

वहीं दूसरी ओर—

धरम कर आसण वाटु (? म्रग) मन म्रगछाला
 ग्यान की से (ली) ध्यान कर टीका
 योग वैराग नाम मंत्र विन फीका
 (४अ, १०, ४ अ ३४)

भीतरी भाव की महत्ता ने ही नाममंत्र को योगवैराग्य का भी सार बना दिया है। इससे इस समन्वित नवीन मत में सत्य को अधिक महत्व मिला, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान सत्य को

इनके लेखक तो क्या संप्रहकर्ता भी थे या नहीं, नहीं कहा जा सकता। परंतु इस से मीराबाई-संबंधी इन प्रसंगों की प्रामाणिकता में कोई अंतर नहीं आता। इन प्रसंगों के पीछे यदि ऐतिहासिक आधार न होता तो ये पीछे से 'वार्ता' में न आ पाते। मीरा का महत्व सर्वकालीन है। ऐसे व्यक्तियों को सब लोग अपनाने का प्रयत्न करते हैं। समय की दूरी जब तुच्छ कलहों की तात्कालिक तीव्रता को शिथिल कर डालती है तब ऐसे व्यक्तियों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने की इच्छा होती है, मतभेद दिखाने की नहीं। उससे जान पड़ता है कि इन बातों के पीछे अवश्य ऐतिहासिक आधार है। और ये इस समय की लिखी या कही हुई हैं जक कि अभी ताज़ी ही थीं। इनमें कोई बनावट भी नहीं जान पड़ती। यदि कोई बनावट हो तो अधिक से अधिक इतनी ही कि रामदास से मीराबाई के लिए जो दुर्वचन कहलाए गए हैं वे अतिरंजित हों। कृष्णदास वाला प्रसंग तो इतना निश्चल है कि इसके सर्वथा सत्य होने में कोई संदेह ही नहीं जान पड़ता।

ऐतिहासिक दृष्टि से इन घटनाओं में कोई असंभवता भी नहीं है। चरलभाचार्य जी का जन्म सं० १५३५ में हुआ था और गोलोकवास सं० १५८७ में। ये तिथियाँ संप्रदाय में भी मान्य समझी जाती हैं और उसके बाहर भी। मीराबाई पहले महाराणा कुंभ की स्त्री समझी जाती थी। परंतु अब मुंशी देवीप्रसाद, श्री हर-

वास्तविक खोज करने वाले ही को प्राप्त हो सकता है। प्राणों का मोह करने वाले केवल बाहरी बातों में पड़े रहने वाले अहंकारी लोग मृत्यु के मुख में चले जाते हैं, अनन्त नहीं हो सकते—

अनन्तपोजी जीववादी मरे

अहंकारी के पोंड पड़े (६ आ ६-१०)

गुरु का महत्व सब आध्यात्मिक पंथों में माना जाता है, योगमार्ग और वैष्णवमत में भी। इस पुस्तिका में भी यही बात है। जगत के आत्यन्तिक दुःख का दूर होना उसके अनुसार सद्गुरु के मिलने ही पर निर्भर है—

सतगुरु मीले तो दुप दालिद्र दूर करे

साधक का दुःखदारिद्र्य शारीरिक कष्ट और पैसे का अभाव नहीं, जगत् का बन्धन है। जिसने गुरु से दीक्षा पाई है वह साधना मार्ग में जैसी सफलता प्राप्त कर सकता है वैसी पोथीपत्रों से ज्ञान प्राप्त करने वाला नहीं। इसी लिये कहा है कि सौ दिन का पंडित एक दिन के मुंडित (दीक्षाप्राप्त) के बराबर है, उसे योगेश्वर की पहुँच का पता नहीं लग सकता:—

सो दीन पीडन्त एक दी का मुडत

पार, न पाय योगेश्वर घर का (६ आ ७-८)

सगरा अर्थात् सच्चे शिष्य का लक्षण यह है कि वह गुरु के शब्द का आदर करता है परन्तु जो गुरु के कहने के ऊपर अर्थात् उसे रौंद कर चलता है, उसपर विश्वास नहीं लाता है, वह निगुरा

में थी और व्याही भी कृष्ण-भक्त परिवार में। उसके पति के यशस्वी पूर्वज महाराणा कुंभ ने तो राधामाधव संबंधी मधुर काव्य 'गीतगोविन्द' पर सुन्दर टीका उस समय लिखी थी जब कि वल्लभ-संप्रदाय अभी अस्तित्व में नहीं आया था।

यह भी छिपा नहीं है कि वल्लभ-संप्रदाय भी प्रेम-मार्ग है परन्तु नवधा भक्ति का, जो निर्गुणोपासना का विरोधी है। 'भ्रमरगीत' में सगुण की आराधिका गोपियों के हाथों सूरदास ने निर्गुण-ज्ञानी उद्धव की जो दुर्दशा करायी है उसमें निर्गुणोपासना के प्रति वल्लभ-संप्रदाय की विरोध-भावना का स्पष्ट प्रतिबिंब है। यहाँ पर गोपियों के चुटीले तर्क की एकाध वानगी दे देना काफी होगा—

१—सुनिहै कथा कौन निर्गुण की रचि पचि वात वनावत ।

सगुन सुमेरु प्रगट देखियतु तुम वृन की ओट दुरावत ॥

२—रेख न रूप वरन जाके नहिं ताको हमैं वतावत ।

अपनी कहौ, दरस ऐसे को तुम कवहूँ हौ पावत ॥

वल्लभाचार्य जी और मीरा के बीच गहरे तार्किक मतभेद के ही आधार पर हम 'वार्ता' में लिखित उपर्युक्त घटनाओं को उनके उचित रूप में समझ सकते हैं।

अर्थात् गुरुहीन ही कहलायेगा और वास्तविक अनुभव ज्ञान को न प्राप्तकर पङ्दर्शन अर्थात् वाचनिक ज्ञान ही में पड़ा रह जायगा—

सुगुरा होय तो सबद कूमानै

नुगुरा होय तो ऊपर चाल

चलतो पटदरसन में मो काला (७ अ ११-१३)

मुसलमानी प्रभाव भी पुस्तिका में थोड़ा बहुत दृष्टिगत होना है। टोपा लुगी और अलफी + (बिना बाहों के लम्बे कुरते) का उसमें उल्लेख हुआ है—

टोप की लुगी सेली राजे

गलबिच अलफी साकड़ी लाफड़ी (६ अ ५-१०)

जान पड़ता है कि जोगियों ने बहुत कुछ सूफी फकीरों का पहनावा ग्रहण कर लिया था। विनियन के 'कोर्ट पेंटर्स आव दि प्रैंड मोगल्स' में संगृहीत एक चित्र में (प्लेट १८ और १९) गोरखनाथ और मछन्दरनाथ मुसलमानी फकीरों का सा पहनावा पहने दिखाये गये हैं।

+ अलफी के व्युत्पत्तिसम्मत अर्थ हैं अलिफवाला। उर्दू कोशों में इसके माने दिये गये हैं, जिस पर अलिफ का चिह्न हो (कपड़ा इत्यादि) जैसे हिन्दुओं में रामनामी दुपट्टा होता है वैसे ही मुसलमानों में अलफी होती होगी। हिन्दीशब्दसागर में अलफी के माने बिना बाहों का लम्बा कुरता दिया है।

अर्थ महापापशून्य लिखा है। जो संगीतियों के सम्मुख पेश किए जाते थे नाग कहलाते थे। अर्हंतों को नाग—सर्प अथवा गज कहते हैं, इसलिए कि सर्प पानी में खूब तैरते हैं और हाथी पर्वतों पर खूब धावा मारते हैं। हो सकता है कि नागों भी ऐसे ही 'नाग' हों। ऐसे वीरों में वीर नागार्जुन हैं।

अभिन्नव गुप्ताचार्य ने तंत्रालोक में 'मच्छंद' शब्द का प्रयोग किया है। इसकी व्याख्या करते हुए राजानक जयद्रथ ने लिखा है—

मच्छाः पाशाः समाख्याता चपलाश्चित्तवृत्तयः—

श्छेदिनास्तु यदा तेन मच्छंदस्तेन कीर्तितः ॥

तथा

पाशखंडन स्वभावो मच्छंद एव ।^१

यह मच्छ और पाश चंचल चित्तवृत्तियों अथवा ज्ञानेंद्रियों का शोक है। नाग शब्द का भी इसी तरह का अर्थ हो सकता है। सर्प मनुष्य जाति का शत्रु समझा जाता है। मनुष्य के हृदय में उसके प्रति स्वाभाविक शत्रुता है। इसलिए उनका नाग कहा जाना स्वाभाविक ही है। वे शक्तिशाली गज भी कहे जा सकते हैं। इन नागों को बश में रखना ही साधना का प्रधान उद्देश्य है। मोहेंजो दड़ो की प्राप्त सामग्री के चित्रों में से एक में एक योगी कीन्ही मूर्ति बनी हुई है जिसके दोनों ओर से मुग्ध सर्प

सम्भवतः मुसलमानों के आघात से वचने के लिए योगियों ने ऐसा किया। टेस्सिटरी का कथन है कि मुसलमानी शासकों को प्रसन्न करने और राजनीतिक सुभीतों के लोभ से योगी बौद्धधर्म के क्षेत्र को छोड़ कर ईश्वर शिव के उपासक हो गये। तारा भी कुछ ऐसा ही कहता है। इनसे भी ऊपर का अन्तःपुष्ट होता है।†

ऐसा जान पड़ता है कि समय की आवश्यकताओं के अन्तर्गत मुसलमानों की छुआछूत से वचने के लिये कुछ चतुराई भरे उपाय भी इस समय काम में लाये जाते रहे थे। मुसलमानों के देश में फैल जाने से सम्भवतः छुआछूत के नियमों का पालन पूर्णतः नहीं हो सकता था। इसी से सुअर के दाँतों का आसरा लिया गया—

दंत वराह का मुलक मुलक खेल आव (६ आ ३)

सम्भवतः मुसलमानों की छूत से अपवित्र हुई खाद्य सामग्री सुअर के दाँतों स्पर्श से शुद्ध की जाती होगी, यह भी सम्भव है कि स्वामी राघवानन्द की इसी प्रकार की शिक्षा को रामानन्द ने आगे बढ़ाया होगा जिससे श्री रामानुजाचार्य के कट्टरतामय संप्र-

* इन्साइक्लोपीडिया ग्रांव रिलिजन ऐंड एथिक्स में योगियों पर टेस्सिटरी का लेख।

† शिफनर: गिथ डेस बुद्धिस्म इन इंडिया १८६९ ई० सेंट पीटर्सबर्ग ई० रि० ए० में गोरखनाथ पर डा० ग्रियर्सन के लेख में उल्लिखित।

है।^१ भोटिया ग्रन्थ उन्हें श्रीपर्वत के निकट धान्यकटक का निवासी बतलाते हैं^२ जिसे पुरातत्ववेत्ता नई लुदाई के परिणाम-स्वरूप अब नरहल बडु नागार्जुनी कोंड जिला गूंटूर के साथ एक बतलाते हैं। 'मञ्जुश्रीमूल कल्प' में इस स्थान का बड़ा साहास्य गाया गया है। वहाँ सर्वार्थ सिद्धि करनेवाले मंत्रों की तत्काल सिद्धि होती है।

श्रीपर्वते महाशैले इक्षिणापथसंज्ञिके ।

श्रीधान्यकटके चैत्ये जिनधातुधरे भुवि ॥

सिध्यन्ते तत्र मंत्रा वै क्षिप्रं सर्वार्थ कर्मसु ।^३

तारानाथ ने सिद्ध नागार्जुन का नालंदा में भी रहना लिखा है।

चीनी भाषा में नागार्जुन की दो भिन्न-भिन्न परंपराएँ मिलती हैं। एक के अनुसार नागार्जुन कणेरी के गुरु कहे जाते हैं और कणेरी राहुल के (नागार्जुन-कणेरी-राहुल) तथा दूसरी के अनुसार नागार्जुन राहुल के गुरु थे और राहुल कणेरी के (नागार्जुन-राहुल-कणेरी) परंतु भोटिया लामा तारानाथ के अनुसार नागार्जुन कणेरी के गुरु और राहुलभद्र के शिष्य थे (राहुलभद्र नागार्जुन-कणेरी)। परंतु भोटिया भाषा के ग्रंथों में नागार्जुन सरह पा के शिष्य भी बताए गये हैं।

१ जर्नल अक् दि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग २६

२ क्लोड-देल-गुड बुम (व्हासा) च, पृ० ६ क; गंगा (पुरातत्त्वां

पृ० २१३

३ गंगा (पुरातत्त्वांक), पृ० २१३

दाय से अलग उनका एक सम्प्रदाय बनना आवश्यक हो गया हो ।

ऐसा जान पड़ना है कि मध्यकाठ की आर्यभट्ट और भगवान् परिस्थितियों में साधुओं को अपना सैनिक संगठन भी करना पड़ा होगा । सिद्धगुरुओं का सैनिक संगठन प्रसिद्ध ही है । अग भी कुम्भ आदि अवसरों पर बड़े बड़े अगाड़ों के साथ शत्रुओं के कुत्त कलावाज भी दिखाई देते हैं । सम्भवतः इनके मूल पुराने सैनिक संगठन ही हों । सिद्धान्तपञ्चमात्रा में भी कटार और तमंचे का उल्लेख है परन्तु असली का नहीं नकली कटार और तमंचे का :

काठ की कटारी बेल की तुमानी

नहीं कह सकते कि इसका ठीकठीक कारण क्या है । संभवतः पुराने साधु संगठनों की सैनिक प्रवृत्ति के विरोध में अहिंसा को महत्त्व देने के लिए ऐसा किया गया हो ।

ऊपर की सब बातों का तारतम्य स्थापित करने से यह अनुमान होता है कि जिस समय दक्षिण से आकर श्री यामुनाचार्य और रामानुजाचार्य की वैष्णव भक्ति का उत्तर में प्रचार हुआ उस समय वहाँ योग सम्प्रदाय का बहुत प्रसार था । इस नवीन भक्ति के प्रभाव में योग सम्प्रदाय के बहुतसे लोग आ गये । परन्तु साथ ही इन लोगों ने पुराने मार्ग की बातों को जो उनके अस्तित्व के अभिन्नांश हो गये थे त्यागा नहीं । उन्हें नई परिस्थितियों के साथ समन्वित कर लिया । इसी लिए हमें रामानन्द, कवीर, रैदास आदि उनके उत्तराधिकारियों में योग और भक्ति का पूर्ण समन्व

जल्पतो मध्यदेश्यांश्च ।^१ यद्यपि जान पड़ता है कि दाक्षिण्य चिन्हो-
 चोतनाचार्य स्वयं मध्यदेशी नहीं थे और मध्यदेश की भाषा नहीं
 जानते थे । सुना-सुनाया जैसा उनकी समझ में आया वैसा
 लिखा है । फिर भी इससे विल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि उस
 समय तक मध्यदेश में प्रचलित भाषा आजकल की हिन्दी का
 काफ़ी विकसित रूप है । 'तेरे मेरे' हर किसी के अर्थ में अब भी
 पछांही मुहावरा है । मध्यदेशी वणिक तेरे मेरे हर किसी से
 'आओ आओ' कह रहा है । जो सबदियाँ मैं आपके सामने रख
 रहा हूँ वे इससे डेढ़ सौ से अधिक वर्ष बाद की हैं । अतएव उन-
 को दसवीं शताब्दी में रचित मानने में कोई अड़चन नहीं पड़ती ।
 यह अभिप्राय नहीं कि परंपरा में चले आते हुए इनमें कुछ भी
 परिवर्तन नहीं हुआ । स्मृति में चले आते रहने से, लिपिकारों के
 प्रमाद से, जिनपर अपने काल की भाषा का प्रभाव जोर मारता
 रहता है, कभी-कभी मूल में परिवर्तन हो जाता है । परन्तु यह
 परिवर्तन बहुत अल्प होता है । उस समय के अपभ्रंश में लिखे
 काव्यों की प्रचुरता भी इसके विरोध में प्रस्तुत नहीं की जा
 सकती । अपभ्रंश उस समय तक साहित्यिक भाषा हो गई थी ।
 जन-साधारण के अमर संस्पर्श से दूर हो चली थी । हिन्दी के
 क्षेत्र में बोल-चाल की भाषा वही थी जिस की दाक्षिण्य चिन्हो-
 चोतनाचार्य ने एक जरा-सी झलक दिखाई है । उसी में

१ 'अप्रभ्रंशकाव्यत्रयी' (गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज), पृ० ९२ .

मिलता है और यही बात इस पुस्तिका में भी पायी जाती है। 'गुरुप्रकारी' में मिहीलाल ने राघवानन्द को अवधूतवेश वाला कहा है। अवधूत दत्तात्रेय के अनुयायी थे जो पीछे गोरक्षादि के प्रभावक्षेत्र के अन्तर्गत आ गये। गोरखनाथी आदि में भी दत्तात्रेय को मानते हैं। योगियों के ही समान रामानन्द के वैरागी भी अपने को अवधूत कहा करते थे।

यह भी एक अर्थगर्भित तथ्य है कि इस पुस्तिका की प्रस्तुत प्रति एक रामानुजी हनुमानमन्दिर में पायी गई है, जो योग सम्प्रदाय और श्री वैष्णव सम्प्रदाय के समन्वय का प्रत्यक्ष उदाहरण है। लक्ष्मण के समान हनुमान भी योगमार्ग में आदर्श यती और योगी समझे जाते हैं। इस पुस्तिका में भी (ग)रुद्र हनुमान (४अ १) का उल्लेख हुआ है परन्तु किस अभिप्राय से यह उसके ठीक पहले के पत्रे के खो जाने से पता नहीं चलता। हणमन्त के नाम से कुछ कविता भी बन गई है जो योगियों के साहित्य में प्रचलित है। डा० ग्रियर्सन को रामानन्द का एक पद मिला था जिसमें हनुमान की प्रार्थना है। ये बातें भी योग वैष्णवमत समन्वय के अनुमान को पुष्ट करती हैं।

यह कहा जा चुका है कि व्यासजी ने ब्रह्मसूत्र की रचना च्दरिकाश्रम में ही की थी। हिन्दी का भो थोड़ा सा आध्यात्मिक साहित्य गढ़वाल में लिखा हुआ मिलता है।

मोलाराम का नाम चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। उसने चित्रकारी के साथ साथ कविता भी की थी।

मोलाराम ने नाना विषयों पर लिखा है। मोलाराम ने जो कुछ लिखा है, उसका काव्य की दृष्टि से विशेष महत्त्व नहीं परन्तु अन्य दृष्टियों से उसका बहुत महत्त्व है। गढ़वाल के तत्कालीन इतिहास पर उनकी कविताओं से अच्छी तरह प्रकाश पड़ता, है। थोड़ा-बहुत अध्यात्म विद्या पर भी उन्होंने लिखा है। साधना पंथ के मनोविज्ञान की दृष्टि से इन कविताओं का बड़ा महत्त्व है।

कुछ मनस्तत्ववेत्ताओं का मत है कि मनुष्य के सब भावों का मूल प्रेरक शृंगार ही है। यही एक भाव नाना रूप धारण कर मनुष्य के विविध क्रिया-कलापों में प्रकट होता है। जान पड़ता है कि मोलाराम के समय में गढ़वाल में भी एक साधना पंथ फैला था जिसके आचार्यों को इस मनोवैज्ञानिक तथ्य व ज्ञान था और उसी पर उन्होंने इस पंथ की नींव डाली थी। इ पंथ का नाम मोलाराम के अनुसार मनमथ-पंथ था। यह पंथ शक्ति का उपासक था। इस पंथ के अनुसार आदि शक्ति सर्वोपरि और सृष्टि का मूल है। अकल रूप में वह सदादि

सिद्धान्त पंचमात्रा

श्रीमते रामानुजाय नमः

पत्र १ आ—१ ॐ मनश्चन्दकरी मनत्रुग वना

२ ह्रमता वीणा मनगुन कग्ना

३ सतगुरु करते बुध अपार

४ कंठ सरस्वती धरो समार

५ चंद्र सुरज जगो अममान नारा मण्डल भये प्रकाम

६ पवन पानी धरे सो जुग जुग जीव जोगी आम

७ जीह भारी द्रोत्री (? ही) कल (? काल) जीतो

जोगी रापो हाथ

८ नन (? नैन) नासका चेक हो हाथ

२ अ—९ देण्या वाह जग व्योहारः

१ आवु न जोगी यह भनकारः

२ सुन गगन म धजा फराई पूछो सवद भयो प्रकासाः

३ सुन लो सीधी सवद (? शब्द) को वासाः

४ सनक सनन्दन सनत कुमारः

५ जोग चलायो अपरमपार

६ प्रेम सुन सनकादीक चारु गुरुभाई

७ डण्ड कमण्डल योग चलायो

है, निर्गुण है। सकल या मगुण रूप धारण कर वही सृष्टि रचती है।

आदि शक्ति रचना जब रची या विश्व मादि

मन मथि के ध्यान धरयो मनमथ हुलाना है।

मनमथ नीं इच्छा भई भोग औं विलास हूँ की
ताके हेत प्रह्ला हरि रुद्र कीं प्रकासा है ॥

आफै नायित्री भई कमला, गिरिनंदिनी जू सीनि

के अरधंग बैठि कीन्यौं सुख विलासा है।

कहत मोलाराम काहू पंथ सौं न धेष्ट चली—

मनमथ पंथ सेती सकल विश्व कीं निवासा है ॥

एक से दो होने का कारण वही शृङ्गार-भाषना है, उसीसे सारी भौतिक सृष्टि की रचना भी हुई है—

शक्ति सीं मनमथ भयो, मनमथ सीं मिथुन,

मिथुन मथन करि रचना रचाई है।

रचना सीं पंच तत्त पंड और प्रखंड कीने,

तातैं एह विश्व रूप सृष्टि के इलाई है ॥

सृष्टि कीन्दि थावर और जंगम परकास होय,

ता में चेतन शक्ति आपही समाई है।

कहत मोलाराम मन-आद आद-शक्ति जानो।

कै तो मनमथ-पंथ जगत जिनि उपाई है ॥

रती है। मनमथ, कामदेव आदि शब्दों के व्यवहार से यह नहीं समझना चाहिए कि जिस पंथ का वर्णन मोलाराम ने किया है, वह व्यभिचार फैलानेवाला पंथ है। मोलाराम ने स्पष्ट शब्दों में कुमार्ग का त्याग दया दान्तिण्य मुक्त गृहस्थ धर्म को पालना, मन को साधना और अंतर्मुख जीवन विताना आवश्यक बतलाया है—

है तुहु भन्दर बैठ निरंतर लेख्यो लिलाट कहीं नहीं जावै ।
छाड़ि कुमारग मारग में रहौं, घृस्त कौं मूल दया हितरावै ॥
साधन तें मन साधले आपनों मोलाराम महा सुप पावै ।
है तुहु अन्दर दुइत मन्दर क्यों जग वन्दर सौं भरमावै ॥

वस्तुतः इस पंथ ने मनुष्य की वास्तविक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है और अपनी साधना को दृढ़ आधार शिला पर रखा है, जिससे साधक धोखे में न पड़े। जैसा 'यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी' से पता चलता है। गीता भी मानती है कि फैलाव जितना है प्रवृत्ति का है। इसलिए वही पंथ जो इस प्रवृत्ति को ध्यान में रख कर चलता है, वस्तुतः लाभदायक हो सकता है। अतएव मोलाराम ने जीव से सीव (शिव-ब्रह्म) होने का एक मात्र उपाय बतलाया है। इस मनः-शक्ति को उपयुक्त रूप से मथ कर उसे नाना दिशाओं में दौड़ने से रोक कर एक ही स्थान लाना यही सारी साधना का सार है, इसी का दूसरा नाम निवृत्त या योग है—

- ४ तुलसी चन्दन सेज प्रमान
- ५ सजत आरती अरघ समान
- ६ चरणामृत और कुट्टी पूजा और भगवान
- ७ झांझ पंजरी और म्रीदंग वाजा वाज संप घोर धुन
- ८ तीन हाथ अन देही पाँच हाथ कर भरनी
- ९ गुरु आस धुनी वीचरन्त धरण कर धरणी

४-आ—१० धरम कर आसण बाहु मृगछाला

- १ पीता म राजे जोगेसुर मतवाला
- २ उपजो ग्यान ध्यान में रस धाला
- ३ ग्यान वी सैली ध्यान कर टीका
- ४ योग वैराग नाम मंत्र विन फीका
- ५ रोगी श्री आचारज न करी
- ६ सुल धरण साँदूर की अवधुत न धरी
- ७ दील कर भोली मन तुमा
- ८ दिल दरियाव कुवा भरि पीवो सीधाओ रसुवा कुंडी
- ९ कुतका मार वगल का साहु रम गयो
- १० सुन महल मा मनी पाँच कमक...

पत्र ५ — नहीं है

पत्र ६ ध — १...सक कर साँगार

२ जब योगेसुर रूप नीहार

एहि जाने नो धारो पॉएन, करै कुनयाए बसाइ ।
जाने बिना मिले नही, गूढ़ करि होत धकाइ ॥

—दीप्तवर्ती

सब को ये उम स्थान तक पहुँचने का आदेश देते हैं ।
ब्रह्मानुभव के आनन्द का उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया है ।

ध्यान भजन तहाँ नहि पूजा, आपे आप अतीत आवरण बूजा ।
बंधन-भोध तहाँ पूरण आनंद, आपे आप सद्गज खेले निखंद ॥

—सच्चिदानन्द धरन

इस पद तक पहुँचने का उन्होंने जो मार्ग बतलाया है उसमें
भी मन की शक्तियों का भली-भाँति ध्यान रखा गया है । उन्होंने
कहा है कि ब्रह्म-लीन होने के लिये ब्रह्म-बोध होना आवश्यक है
और ब्रह्म-बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक मन को बोध
विषय की प्रतीति नहीं होती ।

मैं क्या कहूँ कहूँ, यति सति सब कोई,
नभ सभी गाँवें जो बुगैँ सो सब होई !
प्रतिन सें बोध होवैँ बोध से लय लागे मन,
मन के गति गुनि जाने जाके मिलि गये तन ।

—शानदीप

मन को बिना कष्ट पहुँचाये सुख से अंतर्मुख करने के
लिए, उन्होंने मन के सामने कृष्ण का परम, प्रेमालुप्त स्वरूप
रखा है ।

- ३ केते मन की गोदड़ी केते मन का टोप
 ४ नो मन की गुदड़ी सवा मन का टोप
 ५ टोप की लुगी सेली राजे
 ६ कान ठेचरी अद्भुत वीराजे
 ७ चोला खलका पहरी काया री
 ८ सादु चालु घाल चालो पन्था
 ९ रापो कन्था रहो न चन्ता
 १० गल बीच अलफी साकड़ी लाकड़ी
 ११ सादीक कह सीध के तन मन की
 ६ आ-१२ उन मतंगा हाथे गंगा बगल बीच झोली
 १ हथ म सीसा टीकी थली (?)
 २ द्वादस तीलक संत जन करते
 ३ दंत वराह का मुलक मुलक पेल आव
 ४ काठ की कटारी वेल का तुमाची
 ५ पी प्याला ओर अमता
 ६ सवद सवद ले सादु रमता
 ७ सो दीन का पीडित येक दी का मुडत
 ८ पार न पाव योगेस्वर घर का
 ९ अनन्त पोनी जीव वादी मरे
 १० अहंकारी के पीड पड़ (? पिंड पड़े)
 ११ सतगुरु मीलें तो दुख दालीद्र दुर करे

उच्च सिद्धान्तों पर टिका हुआ एक शुद्ध साधना मार्ग है। इसमें प्राचीन परम्परा से आती हुई उन बातों का मोलाराम ने सिद्धांत रूप से सम्बन्ध १८५० के लगभग उल्लेख किया था जिनको मनस्तत्व के क्षेत्र में बड़े-बड़े विद्वान् समझ रहे हैं कि हम ही पहले पहल आविष्कार कर रहे हैं। इन्हीं बातों के कारण मोलाराम के अनुसार यह पंथ अमृत का सार है। जो उसे जानते हैं उन्हें ब्रह्मानन्द लाभ होता है—

मनमथ को पंथ ऐसो, इमृत को सार जैसो।

जानत हैं सोई संत ब्रह्म को विलासा है ॥

इसी प्रकार स्वामी, शशिधर का भी गढ़वाली संत साहित्य-कारों में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा हरिमुनि शर्मा इनका बड़ा आदर करते थे। सं० १८८२ में ये ब्रह्मलीन हुए। इनके रचे हुए १—दोहों की पुस्तक (दोहावली), २—ज्ञानदीप, ३—सच्चिदानन्द लहरी, और ४—योग-प्रेमावली का विवरण नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट (१९१२-१९१४) में मिलता है।

ये बड़ी पहुँच के ज्ञानी थे। जीवन-मुक्त होकर इसी शरीर से वे उम ब्रह्म पद को प्राप्त हो गये थे, जहाँ ब्रह्म की सृष्टि और विष्णु के अवतारों की पहुँच नहीं। रूपक की भाषा में उन्होंने ऐसे शहर में व्यापार करने की बात कही है—

ब्रह्मा न रचे जहाँ विष्णु को नहि अवतार।

ऐसो सहर में सदा करै सब वसि बजार ॥

- ६ घावन दुवारा भेष के ऊपर भेष
 १० घेचरी कर तो गुर की आण
 ११ सुगरा होय तो सबद कु माने
 १२ नुगरा होय तो उपर चाल
 १३ चाल तो पटदरसन में मो काला
 १४ श्री राघवानन्द स्वामी उचरंते श्री रामानन्द
 स्वामी सुनन्ते ।

इति श्री राघवानन्द स्वामी की सिधान्त पंचमात्रा संपुरणं ।

एहि जाने नो ताफो पंदिन, वरे कुनबाल बसाइ ।
जाने दिना मिले नही, बूढ़ करि होत थकाइ ॥

—दीपावली

सब को ये उम स्थान तक पहुँचने का आदेश देते हैं ।
प्राप्तानुभव के आनन्द का उन्होंने बड़ा अन्ध्रा वर्णन किया है ।

ध्यान भजन वहाँ नहीं पूजा, आपे आप अतीत आचरण पूजा ।
बंधन-भोक्ष तहाँ पूरण आनंद, आपे आप महज न्येले निरवंद ॥

—गणेशानन्द उरण

इस पद तक पहुँचने का उन्होंने जो मार्ग बतलाया है उसमें
भी मन की शक्तियों का भली-भाँति ध्यान रखा गया है । उन्होंने
कहा है कि ब्रह्म-लीन होने के लिये ब्रह्म-बोध होना आवश्यक है
अगर ब्रह्म-बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक मन को बोध
विषय की प्रतीति नहीं होती ।

मैं क्या कहूँ कहूँ चति सति मभ कोई,
सभ सभी गायैं जो बुझैं मो सभ होई !
प्रतिव सैं बोध होई बोध से नय लागे मन,
मन के गति मुनि जाने जाके मिलि गये तन ।

—ज्ञानदीप

मन को बिना कष्ट पहुँचाये सुख से अंतर्मुख करने के
लिए उन्होंने मन के सामने कृष्ण का परम प्रेमालुप्त स्वरूप
पत्ता है ।

एहि जाने नो ताफो पंडित, करे कुतयाल बनाए ।

जाने बिना मिले नही, मूढ़ परि होत भकाइ ॥

—ॐ॥

मन को वे हम ध्यान तक पहुँचने का आदेश देते
प्राप्तानुभव के आनन्द का उन्होंने बड़ा अच्छा वर्णन किया है ।

ध्यान भजन तहाँ नहिं पूजा, आपे आप अतीत आवरण वृजा
बंधन-भोक्ष तहाँ पूरण आनंद, आपे आप नष्ट ज स्पेले निरखंद ।

—सच्चिदानन्द सर

इन पद तक पहुँचने का उन्होंने जो मार्ग बतलाया है उसमें
भी मन की शक्तियों का भली-भाँति ध्यान रखा गया है । उन्होंने
कहा है कि ब्रह्म-हीन होने के लिये ब्रह्म-घोष होना आवश्यक है
और ब्रह्म-घोष तब तक नहीं हो सकता जब तक मन को बोध
विषय की प्रतीति नहीं होती ।

मैं क्या कहूँ कहूँ रति सति सभ कोई,
नभ सभी गाँवें जो बुझै मों सभ होई !
प्रतिव सें बोध होई घोध से नय लागे मन,
मन के गति गुनि जाने जाके मिलि गये तन ।

—ज्ञानदास

मन को बिना कष्ट पहुँचाये सुख से अंतर्मुख करने के
लिए उन्होंने मन के सामने कृष्ण का परम प्रेमालुप्त स्वरूप
रखा है ।

में परिवर्तन और उसके संगम में 'र' का आगम—इस प्रकार सुरति शब्द सिद्ध हुआ। इसके अतिरिक्त और अर्थों में भी इसका प्रयोग मिलता है। सुरति का अर्थ सुन्दु प्रेम (सु-रति) और सुरति का अर्थ रति-क्रीड़ा (सुग्ग)। इस प्रकार 'सुरति' अक्षर-समूह में तीन शब्दों का परिवर्तित रूप छिपा है। कवि सेनापति ने तीनों अर्थों में एक ही पंक्ति में इस शब्द का प्रयोग करके^१ यमक का उदाहरण प्रस्तुत किया है।

सन्तों ने इस शब्द का प्रयोग स्मृति के अर्थ में किया है। उनका सिद्धान्त है कि सत्त्व परब्रह्म इसी शरीर में है। परमात्मा और आत्मा तथा आत्मा और जीव में कोई तात्त्विक अन्तर नहीं। माया के सूक्ष्म-स्थूल आवरणों को धारण कर ब्रह्म ही जीव हो गया है। हमें इसावात का ज्ञान न होने पर भी वह हमारे भीतर अपने पूर्ण प्रकाश से जाज्वल्यमान है। ब्रह्म से शब्द-ब्रह्म, त्रैगुण्य-पञ्चभूत, अन्तःकरण, अहंकार और स्थूल माया—इस प्रकार ब्रह्म के विवर्तन से चराचर सृष्टि का बन्धान खड़ा हुआ और जीव बन्धन में पड़ा। ब्रह्म के ऊपर पड़ी हुई परतें दूसरी दृष्टि से देखने से कोश नाम से अभिहित की जाती हैं। अन्नमय कोश, प्राणमय

१—सेनापति साँवरे की सुरति की सुरति की सुरति कराइ करि-डास्त विहाल हैं। (साँवले कृष्ण की सुन्दर प्रेमवाली रतिक्रीड़ा की स्मृति कराकर राधिका को व्याकुल कर देते हैं।)

नमस्ते नन्द कुमार नमस्ते गोपिका वर ।

बोधात्मा साधनी गावै दीन दास शशिधर ॥

कठिन योग को इस प्रकार प्रेममय बनाकर उन्होंने उसके हठा स्वरूप को कृष्ण के द्वारा मन के लिए आसानी से ग्राह्य बना दिया है । क्योंकि कृष्ण में हमें प्रेम और ज्ञान दोनों का समन्वय मिलता है । भागवत और महाभारत (भगवद्गीता जिसका एक अंश मात्र है), इसके साक्षी हैं । श्रीकृष्ण इसी लिए हमारे पुराणेतिहास आदि के सार हैं और ज्ञान के साक्षी तथा स्वयं योगिराज और योगियों के साध्य भी हैं—

श्रुति स्मृति पुराणात्मा
वाध साक्षि विद्याधर ।

देवकी नंदन नाथ
श्रीकृष्ण साधका वर ॥

महाभारत में कृष्ण ने योगत्रय-मूला गीता कही है और भागवत में प्रेम-मार्ग का निदर्शन किया है । मानो दोनों का सार लेकर स्वामी शशिधर ने योग-प्रेमावली कही है । इस प्रकार तन-मन को अधिकार में कर आत्मबोध के द्वारा साधक अपनी अविनाशी सत्ता को प्राप्त करता है । भगवद्भजन और प्रपत्ति की भी होने महत्ता गायी है ।

काया कर निकर मुख राम भजि

भक्ति मन आत्मा जागला ।

कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश, आत्मा के ऊपर पड़ी हुई परतें ही हैं। कल्पना कीजिए कि एक न बुझने-वाला बृहन् प्रकाश-पुञ्ज है जिस पर एक के ऊपर एक दूधिया काँच और अन्य धातुओं के कई खोल चढ़े हुए हैं जिससे प्रकाश बाहर नहीं दिखलाई देता। परन्तु हमारे न देख सकने पर भी प्रकाश तो वहाँ है ही। यही दशा हमारे भीतर के प्रकाश की है। अन्तर केवल इतना है कि उक्त प्रकाश-पिंड के ऊपर से परतें हटाकर हम उसका दर्शन कर सकते हैं किन्तु आत्मा के ऊपर की परतें यों नहीं हटाई जा सकती। अब यदि हमारे चक्षु में ऐसी क्रांतदर्शी किरण हो जो घनी से घनी धातुओं में प्रवेश कर उनको भी पारदर्शी बना दे तो इन खोलों के ऊपर उसका प्रयोग कर उन्हें बिना हटाए ही हम इस प्रकाशपुञ्ज का दर्शन कर लें। ब्रह्मज्योति के सम्बन्ध में सुरति यही क्रांतदर्शी किरण है जिसके द्वारा जीव इसी जीवन में ब्रह्म-साक्षात्कार करके मुक्त हो सकता है, जीवन्मुक्त हो सकता है।

जीवात्मा जीव होते हुए भी आत्मा है। जीवत्व में उलझा हुआ आत्मा अपने आत्मत्व को कभी त्यागता नहीं। इस माया-जनित विस्मृति में भी जीव को कभी कभी अपने आत्मत्व की स्मृति हो आती है। ऐसे अवसरों पर कभी बिना प्रत्यक्ष कारण के और कभी दुःख-शोकादि से उद्विग्न होकर संसार से उसका जी उचट जाता है। क्या उसे तृप्ति देगा, वह यह नहीं जानता। हाँ,

पास नागाजुन के शिष्य कगेरी का भी ठीक समय होना चाहिए।

कगेरी बिहार के रहने वाले थे। भिक्षु होने के बाद नागंदा में भी वे कुछ समय तक रहे थे। ज्ञानार्जुन होना है कि ये तंत्र-विद्या शक्ति दर्शन के अनेक पंडित थे। तंत्र में आर्यदेव के दर्शन के ९ और तंत्र के १६ ग्रंथों का अनुवाद हुआ है, परंतु यह कहना कठिन है कि इनमें से कितने काण्डेय के हैं और कितने कगेरी के। यदि समय की प्रवृत्ति की ही ध्यान दें तो दर्शन के ग्रंथ काण्डेय के होने चाहिए और तंत्र के कगेरी के। लेकिन इसका ठोकाठीक निर्णय नहीं हो सकता है जब कोई भोटिया का दावा इन पुस्तकों का फिर से अनुवाद किसी आर्य-भाषा में उपस्थित कर दे। तंत्र के ग्रंथों के संबंध में कहा जाता है कि उनमें मुद्राओं और क्रमों का वर्णन है। तंत्र के ग्रंथों में से एक का नाम 'निर्विकल्प प्रकरण' है जो सांस्कृत्यायन जी के अनुमान से हिंदी का है। चर्याचर्यविनिश्चय में इसका एक पद मिलता है जो अपभ्रंश-मिश्रित भाषा में है। नाथ-पंथी परंपरा में भी उनकी हिंदी की कुछ कविता मिलती हैं। मुझे चार हस्तलेखों में उनकी हिंदी रचना मिली है। (क) इनमें से एक जयपुर की है जो अब पौड़ी (गढ़वाल) में है, (ख और ग) दो जोधपुर के और (घ) एक बिकानेर का। इनको मैं क्रमशः क, ख, ग और घ प्रति कहूंगा। (क) में औरों से एक पद अधिक है और

से यहाँ वृत्ति नहीं मिलती । बाल्यावस्था के भोलेपन में दार्शनिक प्रवृत्तिवाले भावुक कवि इस स्मृति की—शुद्ध आत्मज्ञानिनी—झलक देखते हैं । मन्त योगी इसी लिये आध्यात्मिक जागृति की तुलना बालकपन से करते हैं और फिर से बालक हो जाना चाहते हैं^१ । बालकपन में 'यहाँ' की विस्मृति और 'वहाँ' की स्मृति रहती है । बालक मानो परमात्मा के पान में मग्नः आता है । गर्भस्थ शिशु की कल्पना मन्त लोग एक तपस्वी के रूप में करते हैं । पूर्व-कर्मों के कारण जीव को गर्भ में आना पड़ना है । वहाँ वह माना पूर्व कृत कर्मों के लिये पश्चात्ताप करता हुआ विशुद्ध प्रार्थनामय^२—परमात्मामय—अस्तित्व रखता है । इसलिये शुद्ध आध्यात्मिक रूप में वह जगत् में अवतरित होना है । शैशव में इसीलिये स्मृति मानो मूल की ओर रहती है । प्रारंभ में 'अहं' का ज्ञान शिशु को नहीं रहता । धीरे-धीरे अहं की भावना उसके भीतर प्रतिष्ठित होती जाती है । यहाँ की स्मृति वहाँ की स्मृति को दवाती जाती है । जो कुछ कर्म वह करता है 'मैंने वह किया,

१—कवीर ग्रंथावली पृ० २९, १२ । देखिये आगे टिप्पणी ४, पृ० ६७ ।

२—गरभ कुंडि नर जव तू बसता, उरध ल्यौ लाया ।

उरध ध्यान मृत मंडलि आया, नरहरि नांव भुलाया ॥

ही सबसे पुरानी भी जान पड़ती है; परंतु यह भी १७ वीं शताब्दी से पहले की लिखी नहीं हो सकती। स्व तथा ग भी जगभग इसी समय की होंगी और य लगभग १९ वीं शताब्दी के आरंभ की। इन्हीं के आधार पर मैंने कणेरी की कविताओं का संपादन किया है जो इतनी कम हैं कि संपूर्ण की सटीक यहाँ दे देना अनुचित न होगा। इन पद्यों की भाषा का सुधरा हुआ रूप देखकर भड़कने की आवश्यकता नहीं। जिन भाषाओं में हिंदी का साहित्य भांडार भरा हुआ है वे उतनी नवीन नहीं हैं जितनी लोग उन्हें समझते हैं। दक्षिण्यचिन्होद्योतनाचार्य ने संवत् ८३५ की लिखी अपनी 'कुसुम-माला' में मीना बाजार में आए हुए मध्यदेशीय वणिक के मुँह से 'तेरे मेरे आउ' कहलाया है (" तेरे मेरे आउत्ति जंपिरे मज्ज देशेय ।" ❀) जो हिंदी का काफी विकसित रूप है और यह वाणी तो प्रायः डेढ़ सौ वर्ष बाद की है। हाँ, यह मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि परंपरा में चले आते हुए इनमें कुछ परिवर्तन ही न हुआ होगा; लेकिन वह परिवर्तन इतना अधिक न हुआ होगा कि मूल वस्तु का स्वरूप ही इनमें न रहने पाया हो।

कणेरी पाव की सवदी

सगौ नहीं संसार^१ चीत नहिं आवै वैरी ।

निरभय होय निसंक हरिप मैं हस्यौ कणेरी ॥१॥

^१ अपभ्रंश काव्यत्रयी (गायकवाड़ ओरियंटल सिरीज़) पृष्ठ ९२ ।

में उसका कर्ता हूँ', इस रूप में यहाँ की प्रत्यभिज्ञा (स्मृति-ज्ञान) उमको होती है। यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उतरोत्तर बढ़ती जाती है, वहाँ की स्मृति चिन्मृति में बदलती जाती है, और इसके साथ ही कर्मों का बन्धन और माया का अन्धकार भी^१। माया-जाल के इसी बन्धन को वह अपना घर समझने लगता है। वहाँ की स्मृति सर्वथा दृत्रती जाती है और यहाँ की प्रत्यभिज्ञा उसके समस्त अस्तित्व को घेर लेती है। यहाँ की प्रत्यभिज्ञाएँ ही जीव को उमका जाँचत्व देती हैं, जीव को जीव बनाती हैं और दुःख में डालती हैं। इसी लिये राधास्वामी संप्रदाय में जीव को सुरति कहते हैं। जीव 'यहाँ' की सुरति है, 'वहाँ' की सुरति नहीं। चेतना सुरति का मार्ग है। इसलिये विस्तृत अर्थ में मन ही सुरति है^२। सुरति की गति दोनों ओर है—'इधर' भी, 'उधर'

१—उजला आया बतन से जतन किया कर काल ।

चाल भुलानो आपनी यों भया बंधन जाल ॥

तुलसी, रत्नसागर, पृ० १७ ।

२—चेतन पैदा सुरति का, दादू रह ल्यो लाइ ।

—दादूदासी भाग १ पृ० ८९ ।

भीखा ! यही सुरति मन जानो । सत्य एक दूगर मति मानो ॥

—महात्माश्री की वानी, पृ० १९९

श्री संपूर्णानन्द ने 'स्रोत' से 'सुरति' को निकाला है और चित्तवृत्ति प्रवाह उसका अर्थ किया है।—विद्यापीठ (त्रैमासिक), भाग २, पृ० १३५

यहाँ की सुरति के अर्थ में 'स्रोत' का प्रयोग धम्मपद में भी हुआ है जिसमें मन के ३६ स्रोत माने गए हैं। आँख, कान, नाक, जीभ, काय

नीचे-लिखे पद में बाल-स्वभाव का बड़ा सुंदर और प्रकृत चित्रण किया गया है। गोवर्धन-पूजन के अवसर पर खूब चहल-पहल रहती है। आनंद की छटा तो चतुर्दिक् छाई ही रहती है, भाँति-भाँति के सुस्वादु व्यंजनों का भी आकर्षण रहता है—

गोवर्धन-पूजन के दिन आए।
बछरा, गाय देव गोधन के
अब कैं बहुत बढ़ाए।
कहत लाल जननी बाबा सों
जाय न पूजा करिहैं ?
सब पकवान, भात, दधि, ओदन
वाके आगे धरिहैं।
तुम औ भैया गोप - ग्वाल हम
देखेंगे वाहि खात ;
श्रीविठ्ठल गिरिधरन की बानी
दोरु हँस - हँस जात।

यह बाल-चातुर्य का अच्छा उदाहरण है। गोवर्धन को भोजन करने देखने का तो बहानामात्र है। असल में तो लालजी अपने ही मजे की सांच रहे हैं। खूब पकवान छकने को सिक्के।

भी; सुलटी भी उलटी भी^१ । 'यहाँ' की सुगति गाया में भी आत्मा का शुद्ध रूप है, यहाँ की सुगति आत्मा का गाया में यद् (जीव) रूप है^२ । राधान्वामियों को छोड़कर अन्य सब मन्तों

(त्वचा), मन, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, धर्म (मन का विषय), अंग का विज्ञान (आँख से होनेवाला ज्ञान), कान, नाक, जीभ, काना (गाना) के विज्ञान-भीतरी बाहरी भेद से ये ३६ स्त्रोत हैं जिनमें मन बहता है—

यस्य छत्तिसती सोता मना पन्धवना भुना ।

वाहा वहन्ति दुदिष्टि सङ्ख्या रागनिम्बिना ॥ —२४, ६ ।

(जिसके छत्तीस स्त्रोत मन को भली लगनेवाली वस्तुओं में ही लगाने हैं उसके लिये राग निस्त्रुत संकल्प बुरी धारणाओं को बहान करते हैं ।)

सवन्ति सञ्चधि सोता लता उन्निभज तिष्ठति ।

तं च दिस्वा लतं जातं मूलं पंचाय छिद्रथ ॥ —२४, ७ ।

(ये स्त्रोत सब दिशाओं में बहते हैं जिससे तृष्णा-रूप लता अँकुरी रहती है । उत्पन्न हुई उस तृष्णालता को देखकर प्रज्ञा से उसकी जड़ को काटो ।)

१—उलटा सुलटा दौंह दिसा चालै सुरति सुभाय ।

—गरीबदास, “आदि ग्रंथ”, अंग ४९, ५४, पृ० १७३ ।

२—जिसकी सुरति जहाँ रहै, तिसका तहाँ तिसराम ।

भावै माया मोह मैं, भावै आतम राम ॥

—शदू बानी, भाग १, अंग ६, १०७, पृ० १२ ।

विषिया अंजहूँ सुरति सुख आसा । हूँण न देइ हरि चरण निवासा ॥

—कवीर-ग्रंथावली, पृ० ११४, ८२ ।

ध्यान नहीं है कि वे निम्न कोटि के क्षणिक स्वार्थ में पढ़कर उसी आधार को गिरा देना चाहते हैं जिसके ऊपर उनकी अविचल स्थिति है। साहित्य के इतिहास के सारे क्षेत्र में आप को साथ लेकर विचरण करना, आज मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं केवल उस प्रयत्न का निराकरण कर देना चाहता हूँ जो हिन्दुओं और सिखों के बीच में भेद की खाई खनने के लिये लगभग आधी शताब्दी से किया जा रहा है। हिन्दी के जिन सन्त कवियों ने सब भेद भावों को मिटाने के लिए अपने जीवन पर्यन्त अथक परिश्रम किया हो उनके नाम पर भेदभाव का प्रचार करने का प्रयत्न करना साहस का काम है और यही बहुत वर्षों से कुछ लेखक कर रहे हैं।

आधी शताब्दी से पहले की बात है कि भारत-सचिव ने एक जर्मन विद्वान् डा० ट्रम्प से गुरु ग्रन्थ साहब का अनुवाद कराना आरम्भ किया था। उसने उस अनुवाद की भूमिका में लिख दिया कि नानक हर एक बात में सच्चा हिन्दू था। यह एक विलकुल सच्ची बात थी। किन्तु अंगरेज विद्वानों को यह स कुछ कटु मालूम हुआ और उन्होंने ट्रम्प के इस कथन का विरं करना आरम्भ कर दिया। डिक्शनरी आव इस्लाम में मि फ्रेडरिक पिंकट ने नानक को मुसलमान बताया। कारण ? उन्होंने यह बतलाये कि नानक एकेश्वर वादी थे ; सूफियों कपड़े पहनते थे और कई सूफी उनको गुरु तुल्य समझते

ने 'वहाँ' की स्मृति के अर्थ में ही सुरति शब्द का प्रयोग किया है। योग की साधनाओं के द्वारा अथवा अन्य कई अव्यक्त कारणों से कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को कई जन्मों की स्मृति हो आती है। वह भी, चमत्कारी होने पर भी, 'यहाँ' की स्मृति है, 'वहाँ' की नहीं।

मन की वहिर्मुख वृत्ति का कारण 'यहाँ' की प्रत्यभिज्ञा है। 'वहाँ' की सुरति उसे अन्तर्मुख बनाती है। मन के प्रसरणशील स्वभाव को पीछे की ओर मोड़ना ही, सुलटी सुरति को उलटी करना ही,^१ साधना-मार्ग है, प्रभु से सम्मुख रहना है।^२ इसी लिये सन्तों ने स्मरण का विधान किया है। सन्त-मत ही में क्या प्रायः सब साधना-मार्गों में किसी न किसी रूप में स्मरण का विधान किया गया है। मत्संग, दीक्षा-ग्रहण, जप-तप, योग, सब इसी एक उद्देश्य के लिये किये जाते हैं। ये सब अपनी अपनी दिशा से सुरति को अन्यत्र से हटाकर परम तत्त्व में सिमटाते हैं। जब तक सुरति सिमटकर बिना टूटे सूत्र की भाँति आत्मा में एकतान

१—पालो तत्र नाम-कुल्ल करतार । बाँधकर चढ़ो सुरत का तार ।

मीन मत चढ़ गइ उलटी धार, मकरगत पकड़ा अपना तार ॥

—सारवचन, भाग १, पृ० २१३ ।

२—जै तन माँहें मन धरै, मन धरि निर्मल होइ ।

साहिबं सौं सनमुख रहै, तौ फिर बालक होइ ॥

—कबीर-ग्रंथावली, पृ० २९, १२, १

को हिंदुओं ने अलग रखने में न होगा कि उनमें पविष्ट-
मंत्रों पढ़ाने में, जिसमें मिस्टर मेरीलिक अशराम्पु करते थे।
हमों पविष्ट मंत्रों के रहने से सिद्धों के पदार्थ-भाव हिंदुओं को
कटका को दूर करने में समर्थ होंगे। परंतु सिद्धों और हिंदुओं
को एक दूसरे में अलग रखना नानक के उपदेशों को हिंदुओं के
हृदय तक पहुँचाने में रोकने के प्रयत्न के परापर है। नानक
के उपदेश हिंदुओं पर कभी पढ़ा में पूरा प्रभाव डाल सकते
हैं जब कि हिंदु समझें कि वे कहीं के एक संत-गदात्मा के
उपदेश हैं।

और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि नानक वास्तुतः हिन्दू थे।
मिस्टर मेरीलिक पाद्रे जिस वदेश से सिद्धों का अपने आपका
हिन्दू फहना न सह सकें परंतु यह बात निश्चित है कि नानक ने
धर्म को रक्षा के लिए अपनी पागों का उपयोग किया था और
वह उस धर्म की रक्षा के लिए जिसको धर्म के अतिरिक्त कोई
संज्ञा देना अनुचित है किंतु जिसे आजकल लोग हिंदू धर्म कह
कर अभिहित करते हैं। जिस समय नानक उत्पन्न हुए थे उस
समय हिंदुओं में धर्म की अवस्था बहुत कुल्ल होन हो चली थी।
अपने आपको धर्मनिष्ठ समझने वाले लोग उसके बिल्कुल विपरीत
अनार्य कृत्यों को करने लगे थे। मूर्तिपूजा और अवतारवाद के
मूल में उनको जन्म देनेवाली जो रहस्य भावना थी वह लोप
हो गयी थी और हिन्दू पत्थरों और मनुष्यों को साधारण अर्थ

भाव से नहीं लगती, तब तक लक्ष्य-सिद्धि नहीं होती^१ । सत्संग-साधु और गुरु का संग—सुरति का उलटने के लिये अनुकूल परिस्थिति प्रस्तुत करता है । इस वातावरण में नाम-मंत्र प्रदान कर गुरु पुरातन स्मृति के टूटे हुए तार को जोड़ता है । साधुओं की, गुरु की संगति में साधक 'वहाँ' की बातें सुनता है जिससे उसके हृदय में 'वहाँ' के लिये प्रीति उत्पन्न होती है और स्मरण में उसका जी लगता है । इसी लिये किसी-किसी ने^२ 'श्रुति', श्रवण से 'सुरति' की व्युत्पत्ति मानी है । जगत् में भी गुण-श्रवण

१—जत्र लग स्मृति सिमटै नहीं मन निहचल नहिं होइ ।

तत्र लग विव परसै नहीं बड़ी विपति यह मोइ ॥

—दादू बानी, भाग १, पृ० ३१, १६ ।

प्रेम करु तुम नेम हिय मैं सुरति डोरी धुनि ।

दास बुझा चाँन बोनहि आनि तिरवेनि ॥—बुझा, बानी पृ० ८, ६ ।

सुरति सदा स्यावति रहै तिनके मोटे भाग ।

दादू पीये राम रस रहै निरंजन लाग ॥

—दादू बानी, भाग १, अंग ५, ३० पृ० १० ।

कोटि ग्रंथ का अर्थ है सुरति ठिकाने राख ।

—गरीबदास, 'आदिग्रंथ', अंग ५४, १८, पृ० २३८ ।

२—'सरस्वतीभवन स्टडीज', भाग ८ में तारकनाथ सान्याल का लेख

'संश्लेषण विचारणा' ।

पूर्वक अपनी वाणी में स्थान दिया। सिखों के सब मंत्र ॐ से आरम्भ होते हैं। त्रिमूर्ति को उन्होंने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया है—

एका माई जुगत वियाई, तिन चेले परवाण ।

एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान ॥--जपजी
आदि ग्रन्थ, पृ० २

[एक माता (माया) योग्य रूप से प्रसूती हुई उसके तीन चतुर पुत्र हुए। एक संसारी (गृहस्थ = संसार को पैदा करने वाला ब्रह्मा) हुआ। एक भंडारी (भरण-पोषण करने वाला = विष्णु) हुआ और एक दीवाना (नष्ट करनेवाला = महेश) हुआ।]

त्रिमूर्ति को माया का पुत्र कहना, सर्वथा वेदांत सम्मत है। वस्तुतः नानक ने जो कुछ कहा है, वह उच्च से उच्च आर्य-सिद्धांतों के अनुकूल है। वेदों में 'एकं सद्धिप्रा बहुधा वदन्ति' से जो दार्शनिक चिंतन आर्य ऋषियों ने आरंभ किया था, उसका पूर्ण विकास वेदांत में हुआ, और इसी वेदांत का सार नानक ने अपनी वाणी में करके—

ॐ सतिनासु करता पुरुख निरभौ निरवैर अकाल मूरति अजनिसे

को भक्ती का प्रसार किया। जो लोग मिस्टर पिकट की तरह नानक को मुसलमान समझते हैं। वे उसी प्रकार भूल में हैं जैसे वे लोग जो गजा राममोहनराय को ईसाई समझते हैं। परन्तु

मात्र से प्रेम (विरह) उत्पन्न हो जाता है, जैसा नल-दमयन्ती को परस्पर हुआ था । और जस क्षेत्र में दर्शन प्रेम के बिना असम्भव है, उसकी बात ही क्या कहनी है^१ । बिना पहले हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हुए परमात्मा का दर्शन करना हमारे लिये शक्य नहीं । इसी लिये अपने आत्मत्व के उपपादन के लिये स्मरण का विधान है, क्योंकि स्मरण प्रेम ही का दूसरा रूप है ।^२ परमात्मा का स्मरण तो सब करते हैं पर काम पड़ने पर । भगवान् की प्रीति तब सिद्ध हो सकती है जब ऐसा स्मरण नित्य हो^३ । स्मरण अगम से आती हुई स्रजन की धारा को—जहाँ तक व्यक्ति का संबंध है—उलटे अगम में पलटना है । स्मरण की चरम सीमा अजपा जाप है जिसमें साधक का एक क्षण भी परमात्मा के प्रेम के बिना नहीं बीतता । उसकी प्रत्येक साँस स्मरण का प्रतिरूप हो जाती है । उसका साग अस्तित्व परमात्मा की स्मृति-

१—देवै किरका दरद का दूय जोड़ै तार ।

दादू साधै सुरति को सो गुर पीर हमार ॥

—दादू बानी, भाग १, पृ० ६ ।

२—सुमिरन मन की प्रीति है ।—कबीर-वचनावली, पृ० १२, १११ ।

३—‘काम परे हरि सुमिरिए, ऐसा सिमरौ नित्त ।

अमरापुर वासा करहु, हरि गया बहोरै वित्त ॥

—कबीर-ग्रन्थावली, पृ० २५०, २३ ।

इन गाँठों में लोक-हितैषणा का मधुर रस भरा हुआ है, भाई ! इन्हीं से भक्त को अपने उद्धार की आशा होती है। यहाँ तर्क-वितर्क सब 'कुतर्क' कहलाते हैं। सती को जितना दुःख भोगना पड़ा वह सब इसलिये कि जहाँ विश्वास करना चाहिये, वहाँ वह तर्क करने लगी, दिल का काम दिमाक से लेने लगी।

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद।

सोकि देह धरि होइ नर, जाहि न जानत वेद ॥

भला तर्क से यह समस्या हल हो सकती है ? परन्तु पार्वती जन्म में जब उनकी तर्क-बुद्धि मिट गयी और उन्हें अनुभव हो गया कि 'सो फलु भली भॉति हम पावा ॥' तब शिवजी के समझाने से उनके दिल में यह बात बैठते देर न लगी कि—

अगुन - अरूप अलख अज जोई ।

भगत प्रेमबस सगुन सो होई ॥ —तुलसी

इष्टदेव की सिद्धि तर्क से नहीं प्रेम से होती है। इष्टदेव : भावना में चञ्चल मन के आगे भगवान् का वह मञ्जुल मनो रूप रक्खा जाता है जिसे देखकर वह विवश होकर खुद ही कना छोड़ देता है। बाहर से जोर-जबर की जरूरत नहीं पड़ संसार का फिर उसके ऊपर कुछ असर नहीं रह जाता—

मो मन गिरिधर छवि पै अटक्यो ।

ललित त्रिभंग चालपै चलिकै, चिबुक चारु गड़ि ठटक्यो

मय, सुरति-मय हो जाता है^१ । जिहा से राम-नाम कहने से लेकर अजपा-जाप तक सब स्मरण ही है और सुरति की उलटी धार है । अंत में वह अवस्था आती है जिसमें सुष्टु रति निःशेष या निरतिशय रति हो जाती है^२ । सुरति इतनी पूर्ण हो जाती है कि वह स्मृति नहीं रह जाती । परमात्मा के साथ जीवात्मा का संबंध चेतना में स्मृति रूप से नहीं तदात्मरूप से हो जाता है^३ । यह अवस्था 'निरति' कहलाती है^४ । यही वास्तविक ज्ञान की अवस्था

१—सुरति रूप सरीर का पिव के परसें होइ ।

दादू तन मन एक रस सुमिरण कहिए सोइ ॥

—दादू बानी, भाग १ अंग ४, १६३, पृ० ६३ ।

श्रुति भी 'स्मृति' को ब्रह्मोपलब्धि का साधन मानती है । छांदोग्य कहता है कि स्मृति प्राप्त होने पर सब ग्रन्थियाँ छूट जाती हैं—स्मृतिलम्बे सर्व-ग्रन्थीनां विप्रमोक्षः—७, २७, २ ।

अद्वारह अध्याय गीता श्रीकृष्ण के मुख से सुन लेने पर अर्जुन को जो लाभ हुआ वह स्मृति-लाभ ही है जैसा उसने स्वयं अपने मुँह से कहा है—
नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाऽच्युत । १८, ७३ । .

२—जैसे 'सुरति' की एक संभव व्युत्पत्ति 'सुष्ठु रति' है, वैसे ही 'निरति' की निःशेष या निरतिशय रति' भी ।

३—तूँ तूँ करता तूँ हुआ । —कवीर-ग्रन्थावली, पृ० ५, ९ ।

४—सुरति समांशीं निरति मैं निरति रही निरधार ।

सुरति निरति परचा भया तव खूले स्थंभ दुआर ॥ २२ ॥

सुरति समांशीं निरति मैं, अजपा माहँ जाप ।

केस समांशां अलेख मैं, यूँ आपा माहँ आप ॥ २३ ॥

हिन्दी शब्द-संग्रह

(नूतन परिचरित, तृतीय संस्करण)

[सम्पादक—श्री मुकुन्दलाल श्रीवास्ता तथा श्रीराजानन्दन गदाय]

इसमें प्राचीन हिन्दी कवियों द्वारा प्रयुक्त राजभाषा, अचली बुन्देलखण्डी इत्यादि शब्दोंके अतिरिक्त आधुनिक हिन्दी साहित्य में प्रचलित हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी. इत्यादि भाषाओंके शब्दोंका भी संग्रह किया गया है। अप्रचलित शब्दोंका अस्पष्ट करनेके लिए विभिन्न पुस्तकोंका सहारा लिया गया है। विभिन्न ग्रन्थोंसे हजारों उदाहरण दिये गये हैं। इस संस्करण में पाँच हजार शब्द बढ़ा दिये गये हैं।

मूल्य सजिल्द ७।।) मात्र

अजिल्द ७) ”

है जो सच्चे साधक की उत्सर्पिणी प्रार्थना है^३ । उसमें माया का सर्वथा त्याग और आत्मतत्त्व का पूर्ण प्रतिष्ठापन हो जाता है ।^४ काल के चंगुल से छूटकर जीव स्वयं परमात्मा हो जाता है और आध्यात्मिक आनंद में निमग्न होकर नाचने लगता है^५ । यह सुरति की निरति दशा है । यहाँ 'निरति' शब्द नृत्य का परिवर्तित रूप है और ब्रह्मानंद का द्योतक ।

१—तू है तैसी सुरति दे, तू है तैसा खेम ॥

—दादू बानी, भाग १, पृ० ३४, ४४ ।

२—ब्रह्म और माया में, आत्म और अनात्म में, अन्तर करनेवाली निर्णायक शक्ति विवेक कहलाती है । राधास्वामी साहित्य में इसी लिये निरति का अर्थ निर्णय करनेवाली शक्ति लिया गया है—सारवचन, भाग १, पृ० २३७ (आठवीं आवृत्ति) । परमात्मा का वास्तविक ज्ञान निरति में ही होता है, मानो हमें परमात्मा का पता लग गया, खबर मिल गई । इसी लिये डिंगल साहित्य में 'निरति' का अर्थ पता लगना, समाचार मिलना होता है—

राजा, कउ जण पाठवइ ढोलइ निरति न होइ ।

मालवणी मारइ तियउ पूगक पंथ जि कोइ ॥

—ढोला मारु रा दूहा, ९६ दू० ।

३—औरं मार्गों में भी तदात्म-अनुभव में नृत्य भाव माना गया है—

यद्यानन्द समुत्पन्नं नृत्यते मोक्ष-हेतुना । ('द्विकल्प')

—त्रौद्ध गान ओ दोहा कोष, पृ० ३१, अंतिम पंक्ति ।

निम्नलिखित पुस्तकों का नया संस्करण शीघ्र
ही निकलने जा रहा है

साम्राज्यवाद

भूमिका लेखक, पं० जवाहरलाल नेहरू

लेखक—श्री मुकुन्दलाल गोपाळ

संसार की समाज-क्रांति

लेखक—डा० जी० एस० खरे, पी० एच० डी०

मीर कासिम

लेखक—श्री हरिहरनाथ शास्त्री

भूमिका लेखक, बेनीप्रसाद, एम० ए०, डी० एस० सी०,

कुछ निरंजनी सन्तों की वानियाँ

(नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्धृत)

मैं आपका ध्यान हिंदी साहित्य की एक उपधारा की ओर आकृष्ट करता हूँ, जिसे हिन्दी साहित्य की निरंजन-धारा कह सकते हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है, निरंजन-धारा भी सिद्ध, नाथ तथा निर्गुण धाराओं को ही भाँति आध्यात्मिक धारा है।

हरिदास, तुरसीदास और सेवादास—इन तीन निरंजनियों की बहुत सी वानियाँ मेरे पास हैं। खेमजी, कान्हड़दास और मोहनदास की भी कुछ कविताएँ संग्रहों में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त मनोहरदास, निपटनिरंजन तथा भगवानदास का उल्लेख 'शिवसिंह सरोज', ग्रियर्सन के 'माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर', नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-विवरणों तथा 'मिश्रबंधु-विनोद' में मिलता है। पहले तीन व्यक्तियों की विस्तृत वानियों को देखने से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि वे एक ही धारा के अंश हैं और उपर्युक्त शेष व्यक्तियों की जो कुछ कविताएँ मिलती हैं उनसे इस धारणा की पुष्टि हो जाती है।

दादूपंथी राघोदास ने नाभादास के 'भक्तमाल' के ढंग पर अपने भक्तमाल की रचना की, जिसकी समाप्ति वि० सं० १७७० =

यह ओरिएण्टल कांफ्रेंस में अध्यक्ष पद से दिया गया अभिभाषण है। अवतरण में आरंभ का कुछ अंश छोड़ दिया गया है।

कुछ निरंजनी सन्तों की वानियाँ

(नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्धृत)

मैं आपका ध्यान हिंदी साहित्य की एक उपधारा की ओर आकृष्ट करता हूँ, जिसे हिन्दी साहित्य की निरंजन-धारा कह सकते हैं। जैसा नाम से ही पता चलता है, निरंजन-धारा भी सिद्ध, नाथ तथा निर्गुण धाराओं को ही भाँति आध्यात्मिक धारा है।

हरिदाम, तुरसीदास और सेवादास—इन तीन निरंजनियों की बहुत सी वानियाँ मेरे पास हैं। खेमजी, कान्हड़दास और मोहनदास की भी कुछ कविताएँ संग्रहों में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त मनोहरदास, निपटनिरंजन तथा भगवानदास का उल्लेख 'शिवसिंह सरोज', ग्रियर्सन के 'माडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर', नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-विवरणों तथा 'मिश्रबंधु-विनोद' में मिलता है। पहले तीन व्यक्तियों की विस्तृत वानियों को देखने से यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि वे एक ही धारा के अंश हैं और उपर्युक्त शेष व्यक्तियों की जो कुछ कविताएँ मिलती हैं उनसे उम धारणा की पुष्टि हो जाती है।

दादूपंथी गद्योदास ने नाभादास के 'भक्तमाल' के ढंग पर अपने भक्तमाल की रचना की, जिसकी समाप्ति वि० सं० १७७० =

यह संस्करण काँग्रेस में अन्यत्र पद से दिया गया अभिभाषण है।
प्रकाशन में आरंभ का कुछ अंश छोड़ दिया गया है।

१७१३ ई० में हुई। इस में नाभादास के भक्तमाल में छूटे हुए भक्तों का उल्लेख किया गया है। वारह निरंजनी महंतों का कुछ विवरण उसमें दिया हुआ है, जिनमें ऊपर आए हुए हरिदास, तुरसीदास, खेमजी, कान्हड़दास और मोहनदास सम्मिलित हैं। ये सब राजस्थानी हैं।

इनमें समय की दृष्टि से सब से पहला ग्रंथकार हरिदास जान पड़ता है। राघोदास ने हरिदास को प्रागदास का शिष्य बतलाया है, जिसे छोड़ कर बाद को वह गोरखपंथी हो गया। सुन्दरदास ने भी—जो प्रागदास का बड़ा सम्मान करते थे और जिन्हें वे व्यक्तिगत रूप से^१ भली भाँति जानते थे—हरिदास की गणना गोरखनाथ, कंथड़नाथ और कवीर आदि की भाँति बड़े गुरुओं में की है^२। इस से यह जान पड़ता है कि संभवतः हरिदास ने

१—पुरोहित हरिनारायण जी—सुन्दरदास-ग्रंथावली, भूमिका पृ० ७८।

२—“कोउक गोरष कूँ गुरु थापत, कोउक दत्त दिगंबर आदू,
कोउक कंथर कोउक भर्थर, कोइ कवीरा के राखत नादू।
कोउ कहे हरदास हमार जु, यूँ करि ठानत बाद विवादू,
और सुसंत सबै सिर ऊपर सुन्दर के उर है गुरु दादू ॥”

(पीतांबर जी द्वारा सम्पादित सुन्दर-विलास—१-५)

दूसरे स्थान पर सुन्दरदास उनका उल्लेख असत् से आध्यात्मिक युद्ध करने में लगे हुए योद्धा के रूपमें करते हैं—

“अंगद भुवन परस हरदास ज्ञान गह्यो हथियार रे ।”

(पीतांबर जी द्वारा संपादित सुन्दर-विलास, पृ० ७५०)

आध्यात्मिक जिज्ञासु तथा रहस्यवादी उपासक थे । निरंजन-पंथ के लिये तुरसीदास ने वही काम किया जो दादू पंथ के लिये सुन्दरदास ने । राघोदास ने इनकी वाणियों की प्रशंसा उचित ही की है—‘तुरसी जु वाणी नीकी ल्याए हैं ।’

यह भी संभव हो सकता है कि राघो का तात्पर्य यहां रचनाओं से न हो कर तुरसी की आवाज से ही हो । ‘ल्याए हैं’ क्रिया कुछ इसी ओर संकेत करती जान पड़ती है ।

राघो के अनुसार तुरसी को सत्यज्ञान की प्राप्ति हो गई थी और अन्य सब वस्तुओं^१ से उनका मन हट गया था । राघो ही के अनुसार तुरसी के अखाड़े में करणी की शोभा दिखाई देती है ।^२ तुरसी शेरपुर के निवासो थे ।

नागरीप्रचारिणी सभा की खोज में तुरसीदास की वाणी का एक हस्तलिखित प्रति का उल्लेख हुआ है जिसमें ‘इतिहास समुच्चय’ की प्रतिलिपि भी सम्मिलित है । ‘इतिहास समुच्चय’ के अन्त में लिखा है कि उसकी प्रतिलिपि वि० सं० १७४५ (१६८८ ई०) में ऊधोदास के शिष्य लालदास के शिष्य किसी तुरसीदास ने क

१—“तुरसी पायो तत्त आन सीं भयो उदासा”—१४३ ।

“तुरसीदास पायो तत्त नीकी वनि आई है”—१४४ ।

२—“राघो कहै करणी जित शोभित देषौ है दास तुरसी
अपारौ”—१५३ ।

थी^३ । यदि यह प्रति तुरसी ही के हाथकी लिखी है और ऐसी कोई बात है नहीं जिससे उसका तुरसी का लिखा होना अप्रमाणित हो, तो हमें तुरसी का समय मिल जाता है । राघोदास ने इनका उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया के रूप में किया है । और जान पड़ता है कि राघोदास के भक्तमाल के लिखे जाने के समय तक वे काफी बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि उस समय तक वे अपने आध्यात्मिक ज्ञान के कारण प्रसिद्ध हो गए थे । इस से भी विदित हो जाता है कि उनका संवत् १७४५ वि० में महाभारत के एक अंश की प्रतिलिपि करना असंभव नहीं । इस प्रकार ये तुरसी, प्रसिद्ध महात्मा तुलसीदास से छोटे, किन्तु समसामयिक ठहरते हैं ।

मोहनदास, कान्हड़ और खेमजी भी बड़े अच्छे कवि थे और अध्यात्म-मार्ग में उनकी बड़ी पहुँच थी । तीनों महंत थे—मोहनदास देवपुरा के, कान्हड़ चाटसू के और खेमदास शिवहड़ी के ।

३—इति श्री महाभारते इतिहाससमुच्चये तैत्तिरीयस्योऽध्याय ॥३३॥

इति श्री महाभारते सम्पूर्ण समाप्त । संवत् १७४५ वृषे मास कार्तिक सुदी ७ वार सनीवासरे ॥ नगर गन्धार सुथाने सुभमस्तु लिपतं स्वामी जी श्री श्री श्री श्री १०८ ऊघोदास जी को सिष्य स्वामी जी श्री श्री श्री श्री १०८ श्री श्री लालदास जी को सिष्य तुलसीदास बाँचे जिसको राम राम ।

भगवानदास निरंजनानि ने, जो नागा अर्जुनदास के चेले थे, निम्नलिखित ग्रन्थों की रचना की है—

- (१) प्रेम पदार्थ
- (२) अमृतधारा
- (३) भर्तृहर शतक भाषा
- (४) गीता माहात्म्य (१७४० वि०)
- (५) कार्तिक माहात्म्य (१७४२ वि०)
- (६) जैमिनि अश्वमेध (१७५५ वि०) । कोष्ठकों में दिए हुए संवत् स्वयं ग्रन्थों से लिए गए हैं ।

निपट निरंजन का जन्म 'शिवसिंह सरोज' के अनुसार संवत् १६५० वि० (१९३ ई०) में हुआ था । शिवसिंह ने उन्हें तुलसीदास जी की समानता का संत माना है । संभव : इनकी जन्म-तिथि के अनुमान का आधार शिवसिंह के पास के इनके किसी ग्रन्थ का रचनाकाल हो । शिवसिंह के पास इनके 'शांतरस वेदान्त' और 'निरंजन संग्रह' दो ग्रन्थ थे । इनमें से पहला अब तक शिवसिंह के एक वंशधर के पास है, किंतु उनके अंतिम पृष्ठ अब नष्ट हो गए हैं । साहित्य के इतिहासों में निपट निरंजन के नाम से दी गई 'संतसरसी' नामक रचना यथार्थ में 'शांतरस वेदान्त' ही है । यह नाम-परिवर्तन की भूल स्वयं 'शिवसिंह सरोज' में ही (कम से कम जिस रूप में वह छपा है) किमी भाँति आ गई थी (सरोज पृ० ४३८) ।

भ्रूमध्यदृष्टि के सदृश है । इस साधना-पद्धति पर—जिसमें सुरति अर्थात् अन्तर्मुखी वृत्ति, मन तथा श्वासनिःश्वास को, एक साथ लगाना आवश्यक होता है—निरंजनियों ने बार बार जोर दिया है । इसकी अन्तिम अवस्था अजपा जप है, जिसमें श्वास-प्रश्वास के साथ स्वतः सतत नाम-स्मरण होने लगता है ।

निरंजिनी कविता में प्रेम-तत्वका महत्त्व योग-तत्व से किसी भी मात्रा में कम नहीं है । इन्द्रियों का दमन नहीं, वरन् शमन आवश्यक है । और शमन में प्रेम-तत्व ही से सफलता प्राप्त होती है । इस तत्व की अवहेलना करनेवाले साधकों को हरिदास ने खूब फटकारा है^१ । प्रेमातिरेक से बिह्वल होकर जत्र जीव (पत्नी की भाँति) अपनी आत्मा को परमात्मा (अपने पति) के चरणों में निःस्वार्थ भाव से अर्पित कर देता है, तभी (प्रियतम परमात्मा से) महामिलन होता है^२ । इन सब निरंजनी कवियों ने प्रिय के

१—“पांच रापि न पेम पीया दसौं दिशा कूँ जाहिं ।

देपि अचधू अकलि अन्धा अजहूँ चेतै नाहि ॥”

२—“मैं जन बाँधो प्रीति हूँ.....

निकट वसौ न्यारा रहौ एक मन्दिर मांदि माधवे ।

मैं मिलिहैं कै तन तजौं अत्र मोहिं जीवण नाहिं माधवे ॥

प्राण उधारण तुम मिलौ

अबला भनि व्याकुल भई, तुम क्यों रहे रिसाइ माधवे ॥

—हरिदास

विरह से दुःखी प्रिया की भाँति अपने हृदय की व्यथा प्रकट की है^२। तुरसीदास के अनुसार यही प्रेम-भावना प्रत्येक आध्यात्मिक साधना-पथ की प्राण होनी चाहिए। इसके विद्यमान रहने से प्रत्येक मार्ग सच्चा है, किंतु इसके अभाव में हर एक पथ निस्तार है^३।

निरंजनियों ने अपरांक्षानुभूति का वर्णन निर्गुणियों की ही सी भाषा में किया है। सफल साधना-मार्ग के अन्त में साधक को

“नुरति नुशगणि सुन्दरी, बर्यो ब्रह्म भरतार ।

श्रान दिसा चितवै नही, सोधि लियो करतार ॥”

—सेवादास ।

२—“अन्तरि चोट विरह की लगी, नप सिप चोट समाखी ।”

—हरिदास ।

“कोउ वृक्षौ रे बांभना, जोखी कहि कत्र आवैं मेरा राम ।

विरहिन भूरै दरख कूँ, जिय नाहीं विश्राम ॥

व्यूँ चात्रिग घन कूँ रटै पीव पीव करै पुकार ।

यूँ राम मिलन कूँ विरहिनी तगफै ब्रारम्भार ॥,

—तुरसीदास ।

३—“प्रेम भक्ति त्रिन जप तप ध्यान, रुखै लगै सहत विग्यान ।

तुरखी प्रेम भक्ति उर होय, तव सत्रही मत सांचे जोय ॥”

—तुरसी ।

अनन्त प्रकाश पुञ्ज की वाढ़ सी आती दिग्बाई देती है, जो 'जरणा' के द्वारा स्थिरता ग्रहण करने पर शानल, झिलमिल ज्योति के रूप में स्थिर हो जाती है। इस सहजानुभूति के हो जाने पर सभी बाहरी विरोध मिट जाते हैं। स्वयं यह अनुभूति भी उलटी या स्वविरोधी शब्दावली में ही व्यक्त की जा सकती है। हरिदास के कथनानुसार गुरु शिष्य की अन्नज्योति को अनन्त सूर्यों के प्रकाश से मिला देता है^१। सेवादास झिलमिलती ज्योति का दर्शन त्रिकुटी में करते हैं^२। इन्हीं के शब्दों में^३ सहजानुभूति विना घन के चमकने वाली बिजली है, विना हाथ के बजने वाली वीणा है, विना बादलों के होने वाली अखण्ड वर्षा है। और तुरसी के शब्दों में आध्यात्मिक अनुभूति बहरे का ऐसी गुप्त वात सुनना है जिसमें जिह्वा तथा मुँह काम में नहीं आते। वह लँगड़ेका ऐसे पेड़ पर चढ़ने की भाँति है जिसपर पैर वाले नहीं चढ़ सकते। वह अन्धे के प्रकाश को देखने के समान है^४।

१—“अनन्त सूर निकट नूर जोति जोति लावै ।”

२—“नैना माहीं रामजी झिलमिल जोति प्रकास ।

त्रिकुटी छाजा वैठि करि को निरखै निज दास ।”

३—“विन घन चमकै बिजली तहां रहे मठ छाया ;

हरि सरवर तहां धेलिए जहँ विण कर बाजे वीण ॥

विन बादल वर्षा सदा, तहां बारा मास अखंड ।”

४—“बहरा गुभि बानी सुनै सुरता सुनै न कोय ।

तुरसी सो बानी अघट मुख विन उपजै सोय ॥

उपर्युक्त सभी बातों में निर्गुणियों और निरंजनियों में साम्य है। इसीलिये राघवदास ने निरंजनियों को कवीर के से भाव का बतलाया है। किन्तु फिर भी उन्होंने इन्हें कवीर, नानक, दादू आदि निर्गुणी सन्तों में नहीं गिनाया है और उनका एक अलग ही संप्रदाय माना है। इसका कारण यही हो सकता कि निर्गुणियों और निरंजनियों में इतना साम्य होते हुए भी कुछ भेद अवश्य है।

कवीर ने स्थूल पूजा-विधानों का तथा हिन्दुओं की सामाजिक वर्णव्यवस्था का एकदम खंडन किया है। निरंजनियों ने भी मूर्ति-पूजा, अवतारवाद तथा कर्मकांड का परमार्थ दृष्टि से विरोध किया है अथवा, किन्तु अपने समान ज्ञान की उच्च अवस्था तक न पहुँच सकने वाले साधारण श्रेणी के व्यक्तियों के लिये इन बातों की आवश्यकता भी उन्होंने समझी है। इसीलिये हरिदास ने अपने चेलों को मन्दिरों से वैर अथवा प्रीति रखे बिना ही गोविन्द की भक्ति करने का आदेश किया है^१। तुरस मूर्त से अमूर्त की ओर

पग उटि तरवर चढ़ै सपगै चढ्या न जाय ।

तुरसी जोती जगमगै अन्धे कूँ दरसाय ॥”

१—“नहिं देवल स्यूं वैरता, नहिं देवल स्यौं प्रीति ।

किरतम तजि गोविंद भजौ, यह साधौ की रीति ॥”

जाने के लिये 'अमूर्ति' को 'मूर्ति' में देवता वृत्त नहीं समझने और आचार का भी आविर्ग कुछ महत्त्व समझने है। यद्यपि निरंजनी वर्णाश्रम-धर्म को तुरसी के शब्दों में शरीर का ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं, फिर भी ऐसा भी नहीं जान पड़ता कि परंपरा से चली आती हुई वर्णाश्रम-धर्म की इस व्यवस्था से उन्हें वैर है। वे यह अवश्य चाहते हैं कि समाज एक परिवार की भाँति रहे और वर्णभेद ऊँच-नीच के भेद-भाव का आभास न बनाया जाय।

१—“मूर्ति में अमूर्ति वैसे अमल आतमानाम ।

तुरसी भ्रम विसराय के ताही कौ लै नाम ॥”

२—“जाके आचारहु नहीं, नहिं विचार अह लेम ।

उभौ माहिं एक हू नहीं, तौ धृग धृग ताकौ वेम ॥”

३—“तुरसी वरणाश्रम सब काया लौं, सो काया करम को रूप ।

करम रहत जे जन भए, ते निज परम अनूप ॥

जन्म नीच कहिये नहीं, जौ करम उत्तम होय ।

तुरसी नीच करम करै, नीच कहावै सोय ॥”—तुरसी ।

“जन्म ब्रह्मन भए का भयौ करत कृत चडार ।

बहुरि पिंड परै होयगा, सुदु घरहु अवतार ॥

हिंदू तुरक एक कल लाई । राम रहीम दोइ नहिं भाई ॥”

निरंजनी इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण रामानन्द, नामदेव इत्यादि प्राचीन सन्तों के समकक्ष हो जाते हैं। विठोवा के मूर्ति के सम्मुख घुटने टेक कर नामदेव निर्गुण निराकार परमात्मा के भजन गाया करते थे^२। और कहा जाता है कि रामानन्द ने तीर्थों तथा मूर्तियों को जल-पखान मात्र बतलाते हुए भी शालिग्राम की पूजा का विधान किया था। संभवतः यही प्रवृत्ति अन्त में भगवानदास निरंजनी कृत 'कार्तिक माहात्म्य,' 'जैमिनि अश्वमेध' सहस्र पौराणिक ढङ्ग के ग्रंथों में प्रतिफलित हुई।

निरंजन पंथ में प्रेम तथा योग-तत्त्व संभवतः रामानन्द या उन्हीं के सहस्र किसी संत से आए है। ये प्रेम तथा योग-तत्त्व कबीर, रैदास और पीपा इत्यादि रामानन्द के प्रायः सब शिष्यों की बानियों में पाए जाते हैं, इस लिये इनका मूल स्रोत गुरु में ही ढूँढ़ना चाहिये। इस बात का समर्थन रामानन्द कृत कहे जानेवाले 'ज्ञान-तिलक' और 'ज्ञान-लीला' नाम के छोटे ग्रंथों से तथा 'सिद्धांतपटल' से भी होता है, जिसके अनुसार, राघवानन्द ने रामानन्द को जो उपदेश दिये हैं उन में योग का निश्चय रूप

२—फर्कुहर—आउटलाइन आव् दि रेलिजस लिटरेचर इन इंडिया,

से समावेश है^१ । महाराष्ट्री जनश्रुतियों में रामानन्द का मयंघ
ज्ञानदेव के नाथपंथी परिवार से जोड़ा जाता है । अपने को
नाथपंथी बतलाने वाले उद्धव और नयन भी रामानन्द के शिष्य
अनन्तानन्द के द्वारा रामानन्द से अपनी परंपरा आरम्भ करते हैं ।

नाभादास जी ने रामानन्द के चारहों शिष्यों को दशधा भक्ति
का 'आगर' कहा है । किंतु यदि तुरसीदास ने अपनी चाणी में
स्पष्ट रीति से इसकी व्याख्या सी न की होती तो दशधा भक्ति से
क्या अभिप्राय है, हम यह भी न समझ पाते । इस व्याख्या को
संक्षेप में यहाँ पर दे देना अनुचित न होगा ।

इस व्याख्या में तुरसीदास ने सगुणी नवधा भक्ति को
अद्वैत दृष्टि के अनुकूल एक नवीन ही अर्थ दे दिया है ।
श्रवण^२, कीर्तन और स्मरण^३ तो निर्गुणपक्ष में भी सरलता से
से ग्रहण किये जा सकते हैं । इनके अतिरिक्त तुरसी के

१—“शब्दस्वरूपी श्री गुरु राघवानंद जी ने श्री रामानंद जी कूँ सुनाया
भरे भंडार काया बाँदै त्रिकुटी अस्थान जहां बसे—श्री सालिग्राम ।”

—अमरवीज मंत्र १७ ।

२—“सार सार मत छवन सुनि, सुनि राषै रिद माहिं ।

ताही को सुनिवौ सुफल, तुरसी तपति सिराहिं ॥”

३—“तुरसी ब्रह्म भावना यहै, नाँव कहावै सोय ।

यह सुमिरन संतन कह्या, सार भूत संजोय ॥”

होकर संव मार्गों से गोविंद की प्राप्ति हो सकने के विश्वास के साथ भगवान् को मित्र समझने की भावना है और आत्मनिवेदन^१ दैन्य का भाव है। तुरसी का कथन है कि यह नौ प्रकार की भक्ति सगुण नवधा भक्ति से भिन्न है और जीव को प्रवृत्ति-मार्ग की ओर न ले जाकर निवृत्ति-मार्ग की ओर ले जाती है^२। इस नवधा भक्ति की संसिद्धि होने पर उसके उपरान्त सर्वश्रेष्ठ प्रेमा-भक्ति^३ की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार नाभादास जी की दशधा संज्ञा की सार्थकता प्रकट होती है।

जो थोड़ा सा समय मेरे लिये प्रयोजित था उसके भीतर अन्य बातों के साथ मैंने निरंजनी धारा की हिन्दी साहित्य को क्या देन है, इसकी रूप-रेखा मात्र दिखाने का प्रयत्न किया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे संतों के हृदय से निकली हुई सहज, निर्मल भावधारा से हिन्दी साहित्य खूबसंपन्न हुआ है, जिसके फलस्वरूप मध्ययुग में हिन्दी एक प्रकार से उत्तर भारत की आध्या-

१—“तुरसी तन मन आतमा, करहु समरपन राम।

जाकी ताहि दे उरन होहु, छाबिहु सकल सकाम ॥”

२—“एक नौधा निरवरति तन, एक परवरति तन जान।

तामैं अतिकन रूपनी, तारा करहिं बषान ॥”

३—“तुरसी यह साधन भगति, तर लौं सींची सोय।

तिन प्रेमा फल पाइया, प्रेम-भुक्ति फल जोय ॥”

हिंदी कविता में योग-प्रवाह

(नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्धृत)

हिन्दी साहित्य के इतिहास में अभी तक योगियों का आभार पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया है। अब तक योग के जो ग्रंथ प्रकाश में आए हैं वे विशेषकर गोरखनाथजी के लिखे कहे जाते हैं। गोरखनाथजी का समय बड़े विवाद का विषय है। एक ओर डा० शहीदुल्ला उन्हें विक्रम के आठवें शतक में ले जाते हैं तो दूसरी ओर नागरीप्रचारिणी सभा की खोज के सन् १९०२ के विवरण में पंद्रहवें शतक के आरंभ में उनका होना कहा गया है। स्वर्गीय डाक्टर फर्कुहर ने बीच का मार्ग पकड़ा है। उन्होंने उनका समय तेरहवें शतक का मध्य भाग बतलाया है। बाह्य और आभ्यंतर साक्ष्य के आगे ये तीनों मत ठीक नहीं ठहरते।

पहले खोज विवरण में दिए हुए मृत को लीजिए। गोरखनाथ का सबसे पुराना मंदिर अलाउद्दीन ने ढहाया था। कहा जाता है कि यह मंदिर बहुत पुराना था, यहाँ तक कि उसके शिवजी के द्वारा त्रेता युग में बनाए जाने की बात भी कही जाती है। और जो हो, इतना तो निश्चित है कि अलाउद्दीन के समय में इसका संबंध गोरखपंथ से हो गया था। अलाउद्दीन का राजत्वकाल संवत्

१३५३-१३७३ है। इसलिये पंद्रहवें शतक के आरंभ में गोरखनाथ का समय मानना उचित नहीं।

डाक्टर फर्कुहर ने ज्ञानेश्वर के कथन को आधार मानकर अपना मत निर्धारित किया है। ज्ञानेश्वर भी नाथपंथी योगी थे। उन्होंने अपने अमृतानुभव और ज्ञानेश्वरी (गीता की टीका) नामक ग्रंथों में अपनी गुरु-परंपरा दी है। उनके अनुसार उनकी गुरु-परंपरा यह थी—१ आदिनाथ, २ मत्स्येंद्रनाथ, ३ गोरखनाथ, ४ गहनीनाथ, ५ निवृत्तिनाथ और ६ ज्ञानेश्वर। इसके अनुसार गहनीनाथ गोरखनाथ के शिष्य ठहरते हैं। निवृत्तिनाथ के अभंगों से भी यही बात प्रकट होती है। एक अभंग में वे कहते हैं—

आदि नाथ उमा बीज प्रगटलें, मत्स्येंद्रा लाधलें सहज स्थिती।
तेचि प्रेम मुद्रा गोरक्षा दिधली, पूर्ण कृवा कैली गैनीनाथ ॥

इन लोगों ने भी यह बात स्वयं गहनीनाथ के कथन के आधार पर लिखी है। श्रीयुत लक्ष्मण रामचंद्र पांगारकर ने अपने ज्ञानेश्वर चरित्र में गहनीनाथ की लिखी एक हिंदी पुस्तक गहनी प्रताप का उल्लेख किया है जिसमें लिखा है—

गोरख सुत गहनी कहे, नाथ पंथ की वानी।
ग्यानी जानत गुरु पुत होत, सो हि चढे निरवानी ॥

इससे तो संदेह नहीं कि गहनीनाथ निवृत्तिनाथ के गुरु थे और यह भी निश्चित है कि निवृत्तिनाथ का जन्म शक संवत् ११६५ विक्रम अर्थात् संवत् १३३० में हुआ था। महाराष्ट्र में प्रचलित

एक किंवदन्ती के अनुसार गहनीनाथ ने निर्गुत्तिनाथ के पितामह गोविन्दपंत को भी दीक्षा दी थी । एक एक पीढ़ी के लिये २५, २५ वर्ष लें तो मानना चाहिए कि संवत् १२०० के लगभग गहनीनाथ इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि लोग उनके शिष्य होने लग गए थे । गोरग्वनाथ और गहनीनाथ के समय में एक पीढ़ी के उपयुक्त २५ वर्ष का अंतर मानें तो उनका समय संवत् १२५५ निकलता है । लगभग यही समय (ईसवी संवत् १२०० अर्थात् विक्रमी संवत् १२५७) डाक्टर फर्कुहर ने भी गोरखनाथ का माना है ।

परन्तु इस समय को ठीक मानने में एक अड़चन पड़ती है । ग्याह्रवें शतक के आरंभ के लिये हुए बौद्ध तंत्रों में गोरग्वनाथ का उल्लेख मिलता है । अब यदि तेरहवें शतक के मध्य को गोरग्वनाथ का समय मानें तो इतने पहले गोरग्वनाथ के उल्लेख का कोई समाधान नहीं हो सकता । अतएव यह मत भी ठीक नहीं जँचता । जान पड़ता है, कि गहनीनाथ ने केवल अपने पंथ के प्रवर्तक होने के नाते गोरग्वनाथ को गुरु कहा है । गुरु ईश्वर का पर्याय भी होता है और इसमें तो संदेह नहीं कि गोरग्वनाथ उम समय तक ईश्वर माने जाने लगे थे ।

नेपाल की बौद्ध जनश्रुतियों के अनुसार, जो किसी प्रकार उस देश के राजाओं की वंशावली में सम्मिलित कर ली गई है, गोरखनाथ म्छंदरनाथ के दर्शनों की उत्कंठा से राजा नरेंद्रदेव

यह बात तो श्रुति-परंपरा से भी प्रकट है कि नेपाल में गोरख-मछंदर-आगमन शंकराचार्य के आने के बहुत पीछे हुआ । जिस समय वे लोग नेपाल गए थे उस समय वहाँ हिंदू रीति-रिवाजों का बहुत-कुछ प्रचार हो गया था । कहते हैं कि आचार्य वेधुदत्त ने उस जनता को उनका पालन करते रहने का उपदेश दिया था । इससे पता चलता है कि मछंदर और गोरख यदि कोई ऐतिहासिक व्यक्ति थे तो वे शंकर के पीछे हुए, पहले नहीं । हिंदी में गोरखनाथ के नाम से जितने ग्रंथ मिलते हैं वे इस बात की पुष्टि करते हैं । उनके परिशीलन से पता चलता है कि गोरखनाथजी ने अपने योग-प्रधान मत की नींव शंकर अद्वैत-वेदांत पर रखी थी ।

‘अभेद-भेद भेदोले जोगो वदंत गोरप राई ।’

‘आत्मा-परिचै राखो गुरुदेव सुन्दर काया ।’

उपर्युक्त वाक्य उनकी रचनाओं में स्थल स्थल पर आदि से अंत तक बिखरे मिलते हैं । पाश्चात्य विद्वान् मुग्धानल (मेकडॉनल) और कीथ के अनुसार शंकर का जीवन-काल विक्रम संवत् ८४५ से ९०७ तक है; इसलिये गोरखनाथ का समय ९०७ के पीछे का होना चाहिए ।

परंतु साथ ही रचनाओं में नागार्जुन के शून्यवाद और आसंग के विज्ञानवाद के भी कुछ अवशिष्ट चिह्न मिलते हैं, यद्यपि वे अब

केवल ब्रह्मवाद और मायावाद के बाहरी आवरण मात्र रह गए हैं ।

कहीं कहीं तो शून्यवाद का स्पष्ट विरोध भी मिलता है—

वस्ती न सुन्यं सुन्यं न वस्ती अगम अगोचर ऐसा ।

गगन-सिखर में बालका बोलै ताका नाँव धरहुगे कैसा ॥

शून्य का ब्रह्मांड या ब्रह्मरंध्र के लिये भी प्रयोग होने लगा था—

सुन्नि मँडल तहँ नीझर भरिया ।

चंद ।सुरज ले उनमनि धरिया ॥

इससे दो बातें प्रकट होती हैं, एक तो यह कि गोरखनाथ का बौद्ध धर्म के साथ कुछ न कुछ संपर्क था और दूसरी यह कि शंकर मत का इतना प्रचार हो गया था कि उसने स्वयं बौद्ध धर्म में घुसकर उसे पदच्युत कर दिया था । इसमें पर्याप्त समय लगा होगा । कम से कम सौ डेढ़ सौ वर्ष तो तब भी लगे होंगे ।

जनश्रुति है कि मछंदरनाथ (मत्स्येंद्रनाथ) गोरखनाथ के गुरु थे । वे इंद्रिय-सुख में पड़कर कामिनियों के जाल में फँस गए थे । इस अवस्था से गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया । इस जनश्रुति को सभी लाग मानते हैं । इसमें हमें गोरखनाथ के अश्लील तांत्रिकता का विरोध कर उसके स्थान पर ब्रह्मचर्योपेत योग-मार्ग का प्रचार करने के उद्योग का संकेत मिलता है । बौद्ध तांत्रिक संप्रदाय का आरंभ लगभग सातवें शतक में हुआ । तिब्बत, नेपाल और बंगाल में उसका खूब प्रसार हुआ । बंगाल में विक्रमशिला उसका प्रधान केंद्र थी । पाल राजा महीपाल ने नववीं शताब्दी में

विक्रमीशिला के विहार की स्थापना की थी। 'वज्र' उपाधि-
धारी भिक्षु कामुकता को निर्वाण का साधन मानकर दुराचार में
पड़े हुए थे। ग्यारहवें शतक के आरंभ में बौद्धों का तांत्रिक संप्र-
दाय अपने मध्याह्न में था। यहाँ से उमका ह्यम आरंभ हुआ।
जान पड़ता है कि मल्लंदरनाथ इन्हीं तांत्रिकों में से था। जिस
समय नेपाल में मल्लंदरनाथ और गोरखनाथ का आगमन हुआ
उसी समय हिंदू धर्म के प्रसार के उद्देश्य से एक और ब्राह्मण के यहाँ
जाने का उल्लेख मिलता है। यह ब्राह्मण शंकराचार्य का अवतार
माना जाता था। क्या यह ब्राह्मण और गोरखनाथ एक ही व्यक्ति
के साधारण और लोकोत्तर रूप तो नहीं हैं? यह बात कम से कम
असंभव तो नहीं मालूम पड़ती। और जो हो, गोरखनाथ पर
शंकर के अद्वैतवाद का प्रभाव अवश्य पड़ा था। उसने अपने गुरु
को उसका उपदेश दिया और उससे विलासितामय जीवन का
परित्याग कराया। स्थान स्थान पर गोरखनाथ की रचनाओं में
इस बात का उल्लेख है—

चारि पहर आल्यंगन निद्रा, संसार जाइ विपिया वाही ।
उभय हाथौ गोरखनाथ पुकारै, तुम्है भूल महारौ माहा भाई ॥

❀

❀

❀

वामा अंगे सोइवा जम चा भोगिवा, संगेन पिवणा पाणी ।
इम तो अंजरावर होइ मछिंद्र, बोल्यो गोरख वाणी ॥

❀

❀

❀

छाँटे तजौ गुरु, छाँटे तजौ, तजौ लोभ माया ।
आत्मा परचै राखौ गुरुदेव, सुन्दर काया ॥

ॐ

ॐ

ॐ

एतैं कछु कथीला गुरु, सर्वे भैला भोलै ।
सर्वे कमाई खोई गुरु, वाघनी चै पोलै ॥

ॐ

ॐ

ॐ

गोरखनाथ ने अपने गुरु के पन्थ के सुधार का काम भीतर से किया। उसने बाहर से आक्रमण नहीं किया। बल्कि पुराने शब्दों में नई शिक्षा दी। इसलिये उमका नयापन सहसा खटका नहीं। कई बौद्ध तंत्रों में गोरखनाथ और उसके साथी अन्य नाथों की महिमा गाई गई है। नाथों का प्राचीन धर्म से स्पष्ट भेद तभी मालूम हुआ जब मुसलमानों ने नाथों को ईश्वरवादी समझकर उनके साथ छेड़छाड़ न की किंतु बौद्ध-तांत्रिकता का वंगाल से उन्मूल कर दिया। तिब्बत में यह परंपरागत जनश्रुति है कि कनकदानाथ पहले बौद्ध ही थे परन्तु मुसलमानों के वंग विजय करने पर वे मुसलमानों का विरोध न दिखाने के उद्देश्य से ईश्वर (शिव) के उपासक हो गये। तारानाथ ने अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। यह द्वेषमूलक जन-श्रुति भी इसी तथ्य की ओर संकेत करती है। मुसलमानों की वंग-विजय का समय १२५६ से १२६० संवत् है। बौद्धों और नाथों में जो भेद इस समय स्पष्ट हुआ, उसका आरंभ यदि हम २०० वर्ष

भाषा में देशकालानुसार फेरफार हुआ हो। ऊपर दी हुई किंवदंती इसी ओर संकेत करती है। उनकी रचना के ढंग और उनके नाम 'मछंदरनाथ' से ही इस किंवदंती का उद्भव जान पड़ता है।

नेपाल में दो मछंदरनाथ माने जाते हैं। एक ठुलो (बड़ा) और दूसरा सानु (छोटा)। बड़े का मत्स्येंद्रनाथ और छोटे को मीननाथ भी कहते हैं। तिब्बत के इतिहासकार श्रीतारानाथ ने दोनों को भाई माना है; परंतु बंगाल की जनश्रुति दोनों को एक ही मानती है। नेपाल में बड़ा मछंदर और पद्मपाणि बोधिसत्व आर्य अवलोकितेश्वर एक माने जाते हैं। नेपाल की वंशावली १३ में लिखा है कि जब आचार्य बंधुदत्त ने पुरश्चरण मंत्र-प्रयोग और डाकिनी-साहाय्य के द्वारा आर्य अवलोकितेश्वर-मछंदरनाथ का उनके स्थान कापोटल पर्वत से आवाहन किया तब उनकी आत्मा मधुमाखी के रूप में आई थी जो कलश में बंद कर ली गई और फिर एक मूर्ति में प्रतिष्ठित की गई। इससे स्पष्ट है कि बड़ा मछंदर कल्पना मात्र था। मेरा तो विचार है कि छोटे मछंदरनाथ का माहात्म्य बढ़ाने के लिये

* 'हिस्ट्री ऑफ् नेपाल' नाम से मुंशी शिवशंकर द्वारा मूल पर्वतीय से अनुवादित, डा० राइट द्वारा संपादित और केंब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस से सन् १८७७ ई० में प्रकाशित, पृष्ठ १४४।

बौद्धों ने उसी को पहले आर्य अवलोकितेश्वर का रूप माना होगा। परंतु पीछे से गोरखनाथ के प्रभाव में आ जाने के कारण यह 'सानु' माना गया और एक दूसरे मछंदरनाथ की कल्पना हुई जो गोरखनाथ से अधिक महिमामय ठहराया गया। परंतु जनसाधारण ने 'सानु' मछंदर की पूजा न छोड़ी। यह मछंदरनाथ भी कम सिद्ध न था। परंतु यह अपनी सिद्धता का दुरुपयोग करता था। व्यावहारिक योग में यह गोरखनाथ का गुरु था परंतु गोरखनाथ विवेकमय तत्त्वज्ञान में इससे बड़ा-चढ़ा था। जीवन की प्रामाणिक बातें न मछंदरनाथ के विषय की कुछ मालूम हैं न गोरखनाथ के विषय की। परंतु गोरखपंथ और गोरखाली जाति तथा उनका पवित्र तीर्थ गोरख-गुहा—जहाँ गोरखनाथजी के त्रिशूल, कमंडलु और सिंगी सुरक्षित बताए जाते हैं—और उसी के पास गोरखा गाँव तथा गोरखपुर—ये सब आज भी हमें गोरखनाथ का स्मरण दिलाते हैं; और मछंदरनाथ आज भी नेपाल के अधिकांश जनता के इष्टदेव होकर पूजे जाते हैं।

मछंदरनाथ के अतिरिक्त गोरखनाथ के समकालीन योगियों में से इसमें जलंधर कणोरीपाव या हालीपाव, चौरंगीनाथ तथा सिद्ध घोड़ा-चोली की रचनाएँ दी हुई हैं। चौरंगीनाथ और घोड़ा-चोली गोरखनाथ के गुरुभाई थे। जलंधरनाथ मछंदर का गुरुभाई और कानपाव या कणोरी जलंधर का शिष्य। हालीपाव कानपाव ही का दूसरा नाम है। इस नाम

से वह वेश बदलकर रानी मैनावती के यहाँ भंगी होकर रहा था । जो बातें गोरखनाथ और मल्लंदरनाथ के बारे में कही गई हैं वही इनके विषय में भी ठीक हैं । इनकी कविता में भी देशकालानुसार फेरफार हुआ होगा । इनकी रचना के उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं—

जलंधरनाथ—

थोड़ो खाइ तो कल्पै भलपै, घणो खाइ तो रोगी ।
दहूँ पपा की संधि विचारै, ते को बिरला जोगी ।
यह संसार कुबधि का खेत, जब लगि जीवे तब ढगि चेत;
आँख्याँ देखै, कान सुणै, जैसा बाहै तैसा लुणै ॥

घोड़ा चोली—

रावल ते जे चालै राह, उलटी लहरि समावै माँह ।
पंचतत्त का जाणै भेव, ते तो रावल परतिष देव ॥
नषसिष पूरि रहीले पौन, आया दूध-भात तो पाए कौन;
मेर-डंड काठा करि बंधि, वाई षेलै चौसठ संधि ॥

चौरंगीनाथ—

मारिवा तौ मन मीर मारिवा, लूटिवा पवन भँडारं ।
साधवा तौ पंच तत सधिवा, सेइवा तौ निरंजन निराकारं ॥
माली लौ भल माली लौ, सींचै सहज कियारो ।
उनमनि कला एक पहूपन पाई, ले आवागवन निवारी ॥

कणेरीपाव—

सगौ नहीं संसार, चित नहि आवै वैरी ।

चारणी मध उत्पनो, चरपटनाथो महामुनी ।

उत्तिम जोग धारणं, तस्मात् किं ज्ञाति कारणम् ॥

इससे यह भी ध्वनित होता है कि वे राजपूताना के रहने-वाले थे । संभवतः संस्कृत चर्पटमंजरी के लेखक भी यही चरपट हों । इनकी हिंदी कविता भी वैसी ही चलती और प्रांजल है—

किसका चेटा किसकी बहू,

आप सवारथ मिलिया सहू ।

जेता पूला तेती आल,

चरपट कहै सब आल जँजाल ॥

नाथ कहावें सकहिं न नाथि,

चेला पंच चलावें साथि ।

माँगे भिच्छा भरि भरि खाहिं,

नाथ कहावें मरि मरि जाहिं ॥

बाकर कूकर कींगुर हाथि

वाली भोली तरुणी साथि ।

दिन करि भिच्छया रात्यूँ भोग,

चरपट कहै विगोवै जोग ॥

चरपट चीर चक्र मन कंथा,

चित्त चमाऊँ करना;

ऐसी करनी करो रे अवधू,

ज्यूँ बहुरि न होई मरना ॥

बैठे राजा बैठे परजा,

बैठे जंगल की हिरणी ।

हम क्यों बैठें रावल बावल,

मारी नगरी फिरणी ॥

ना घरि नित्य ना पर नित्य रता,

ना घरि धन न जीवन मत्ता ।

ना घरि पूत न भीय कुंआरी,

नाते चरपट नींद पियारी ॥

पहिली कीए लड़का लड़की, अच ही पंथ में बैठा ।
 वूहै चमडै भसम लगाई, वज्रजती हूँ बैठा ॥

❀

❀

❀

पहलै पहरै सच कोई जागै, दूजै पहरै भोगी ।
 तीजै पहरै तसकरि जागै, चौथे पहरै जोगी ॥

देवलजी की कविता का उदाहरण—

देवल भए दिसंतरी, सच जग वेख्या जोइ ।
 नादी वेदी बहु मिलै, भेदी मिलै न कोइ ॥

सिद्ध धूँधलीमल और गरीवनाथ—नैणसी ने अपनी ख्यात में इनका उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि सिद्ध धूँधलीमल का आश्रम धीणोद में था। गरीवनाथ धूँधलीमल का शिष्य था। इसने अपना आश्रम लाखड़ी में जमाया था। उस समय लाखड़ी का राजा घोघाकरन था। गरीवनाथ के शाप से घोघाओं का नाश हुआ और धूँधलीमल के आशीर्वाद से जाड़ोचा भीम लाखड़ी का राजा हुआ। प्रभास पाटन के शिलाखेख से इनका समय संवत् १४४२ ठहरता है। गरीवनाथ इस समय अपने गुरु के संमान ही सिद्धियों का भंडार हो गया था। इससे गुरु और शिष्य की आयु में लगभग ४०—४५ वर्ष का अन्तर मानना चाहिए। १४४२ यदि गरीवनाथ का समय माना जाय तो

१४०० धूँधलीमल का होगा । इन दोनों गुरु चेलों की रचना के नमूने यहाँ दिये जाते हैं—

धूँधलीमल—

आईसजी आवो, वावा आवत जात बहुत जुग दीठा

कछू न चढ़िया हाथं ।

अब का आवणा सूफल फलिया, पाया निरंजन सिध का साथं ॥

आइसजी वैठो, वावा उठा वैठी वैठा, उठि उठि वैठी जग दीठा ।

घरि घरि रावल भिदिया माँगै एक अमीरस मीठा ।

गरीवनाथ—

पाताल की मीडकी अकास जंत्र वावै ।

चंद सुरज मिलै तहाँ तहाँ गंग जमुन गीत गावै ॥

सकल ब्रह्मांड तब उलटा फिरै, तहाँ अधर नाचै डीव ।

सति सति ही भार्पत श्री सिद्ध गरीव ॥

पृथ्वीनाथ—पृथ्वीनाथजी कबीर के पीछे हुए। उन्होंने कबीर का उल्लेख भूतकालिक क्रिया में किया है—

राजा जनक भया तिन क्या कथ्या क्या प्रह्लाद कबीर ।

सो पद काहे न खोजिए जिहि ऊधरै सरीर ॥

कबीर की मृत्यु सर्वसम्मति से वि० १५७५ में हुई। इस आधार पर इनका समय १६०० के आसपास मानने योग्य है। इस संग्रह में पृथ्वीनाथ के १३ शब्द, ३ पद और १०५ श्लोकों का एक 'साधप्रकास जोग' ग्रंथ है।

इनकी रचना के नमूने—

साधू बोहिय अभैपद, दरसन देण्या पार ।
 पृथ्वीनाथ दुलंभ है, उन साधों दीदार ॥
 सींचत ही फल देहि वृद्धहैं तजे न छाया ।
 तिस ठांही साधरम हीं जहँ वाचा सचु पाया ॥
 पहली समझि न पड़ै धका लागै थैं जाणहीं ।
 विगड़ी उपरि सवै ताहि ईश्वर करि मानहीं ॥
 इहै गति संसार पुरिप का मरम न पावहीं ।
 जे हरि समभया होइ तौ ब्रह्मा क्यों बछ चुरावहीं ॥

इस प्रकार हम देखते हैं कि गोरखनाथजी के काल से बराबर बहुत समय तक योग की कविता का प्रवाह हिंदी साहित्य में बहता रहा। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने भक्ति-धारा की दो शाखाओं के दर्शन कराए हैं—एक निर्गुण शाखा और दूसरी सगुण शाखा। निर्गुण शाखा वास्तव में योग का ही परिवर्तित रूप है। भक्ति-धारा का जल पहले योग के ही घाट पर बहा था। गोरखनाथ का हठयोग केवल ईश्वर-प्रणिधान में बाहरी सहायक मात्र है। न कवीर ने ही वास्तव में योग का खंडन किया है और न गोरख ने केवल बाहरी क्रियाओं को प्रधानता दी है। शरीर को व्यर्थ कष्ट देना कभी भी हठयोग का उद्देश्य नहीं है। इसके विपरीत गोरखनाथ का उद्देश है—

हसिवा खेलिवा गाइवा गीत ।
दृढ़ करि रापि अपना चीत ॥

❀

❀

❀

पाए भी मरिए अपखाए भी मरिए ।
गोरख कहै पूता संजमि ही तरिए ॥
इसलिये उन्होंने बौद्धों से मध्य मार्ग का ग्रहण किया है—

मधि निरंतर कीजै वास ।

निहचल मनुआ थर ह्वै सास ॥

तन का योग केवल मन की सहायता के लिये है । विना ईश्वर-प्रणिधान के बाहरी योग केवल निष्फल ही नहीं जायगा, हानि भी पहुँचायेगा—

आसण पयन उपद्रह करै ।

निसिदिन आरंभ पचि पचि मरै ॥

आगे चलकर जब भक्ति की धारा नई भूमि पर नए आकार और नए वेग से बहने लगी तब उसका नाम निर्गुण धारा पड़ा । निर्गुण धारा को तो साहित्य के इतिहास में उचित स्थान मिला है, परंतु योग धारा अब तक इस सौभाग्य से वंचित है । उसके प्रवर्तक गोरखनाथ और उनके अनुयायी अन्य योगी कवि घमत्कारपूर्ण जन-श्रुतियों के ही नायक बने रहे । इसका कारण यही जान पड़ता है कि योग-संबंधी पर्याप्त रचना अब

५ इंसाइक्लोपीडिया आव् रिलिजन ऐंड एथिक्स में ग्रियर्सन, और टेसिटोरी के क्रमशः गोरखनाथ और योगियों पर लेख ।

६ महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री संपादित बौद्ध गान और दोहा ।

७ डा० फर्कुहर रचित आउटलाइन आव् रिलिजस लिटरेचर इन इंडिया ।

कवीर का जीवन-वृत्त

(नागरी प्रचारिणी पत्रिका से उद्धृत)

नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४ की चौथी संख्या में श्रीमान पं० चंद्रवली पांडेय का 'कवीर का जीवन-वृत्त' शीर्षक लेख पढ़कर बड़ा आनंद हुआ। पं० चंद्रवली सद्गुरु विद्वान को कई बातों में अपने से सहमत देख किसे आनंद न होगा। विशेष हर्ष मुझे इस बात का है कि मेरे जिस मत को बड़े बड़े विद्वान् मानने को तैयार नहीं उसके मुझे एक जवर्दस्त समर्थक मिल गए हैं। पांडेयजी भी मानते हैं कि निम्न-लिखित पंक्तियों के आधार पर कवीर का मुसलमान कुल में उत्पन्न होना सिद्ध हो जाता है—

जाके ईद वकरीद गऊ रे वध करहिं, मानियहिं शेख शहीद पीरा ।
जाके वापि ऐसी करी पृतऐसी धरी, तिहुँ रे लोक परसिध कवीरा ॥

कुछ विद्वान्, जिनसे मैंने इस संबंध में परामर्श किया था, मुझसे इस बात में सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि कवीर को मुसलमान का पोष्य पुत्र मात्र मानने में भी ये पंक्तियाँ कोई श्रद्धाचन नहीं डालतीं। पर मेरा उत्तर है कि इन पंक्तियों के रचयिताओं का अभिप्राय है कि भक्ति के लिये ऊँचे कुल में जन्म आवश्यक नहीं है। इससे सिद्ध है कि कवीर मुसलमान के पोष्य

पुत्र नहीं, औरस पुत्र थे। इस मामले में पांडेयजी ने मेरा पक्ष ग्रहण किया है, इसलिये मुझे हर्ष होना स्वाभाविक ही है।

परंतु पांडेयजी के लेख में एक जरा सी गलती रह गई है। उन्होंने इन पंक्तियों को रैदास की बतलाया है, जो आदिग्रन्थ में दी हुई हैं। पर रैदास के वचन का वस्तुतः यह पाठ नहीं है। उसका हवाला भी उनके लेख में गलत है। किन्तु इसका दोष पांडेयजी के मत्थे मढ़ने का अन्याय मैं न करूँगा।

ये पंक्तियाँ थोड़े से पाठ-भेद^१ से सिखों के आदिग्रन्थ में, रैदास के और रजवदास के सर्वांगी में पीपाजी के नाम से दी गई हैं। आदिग्रन्थ में यह पाठ है—

जाकै ईदि वकरीदि कुल गऊ रे वधु,
करहिँ मानीअहिँ सेख सहीद पीरा ।
जाकै वापि वैसी करी पूत ऐसी सरी,
तिहुँ रे लोक परसिध कवीरा ॥

और सर्वांगी में यह—

जाके ईद वकरीद, नित गऊ रे वध
करै मानिए सेख सहीद पीरा ।

चापि वैसी करी पूत ऐसी धरी
नाँव नवखंड परसिध कवीरा ॥

इन दोनों के आधार पर तथा कुछ संगति का ध्यान रखकर मैंने निर्गुण संप्रदाय पर अपने अंग्रेजी निबंध में, जिसे पांडेयजी ने अपना 'वृत्त' लिखने के पहले माँगकर पढ़ लिया था, ऊपर का पाठ निर्धारित किया था। इससे आदिग्रंथ के पाठ में विशेष परिवर्तन यह हुआ कि 'सरी' के स्थान पर 'धरी' हो गया और 'वैसी' के स्थान पर 'ऐसी' तथा गलती से 'सेख सहीद' में 'स' के स्थान पर 'श'। टाइपिस्ट की कृपा और मेरी असावधानी के कारण पाद-टिप्पणी का वह अंश भी छपने से रह गया था जिसमें मैंने पाठांतरों का निर्देश किया था। इसी से पांडेयजी धोखे में आ गए। अन्यथा उनकी सी निपुणता के व्यक्ति से ऐसी गलती होना संभव नहीं था। पाद-टिप्पणी में पांडेयजी ने आदिग्रंथ की जो पृष्ठसंख्या दी है, वह भी गलत है और मेरे टाइपिस्ट की कृपा का फल है। पृष्ठ-संख्या ६९८ होनी चाहिए। मुझे खेद है कि मेरे हिंदी रूपांतर में भी ये गलतियाँ रह गई हैं।

इस लेख में पांडेयजी को एक बहुत महत्त्वपूर्ण सूचना देने का अवसर मिला है। वह सूचना है यह कि गुरु गोरखनाथ ने हिंदू और मुसलमानों की एकता की ओर भी ध्यान दिया था^१। यद्यपि

पांडेयजी ने इसके कोई प्रमाण नहीं दिए हैं, तथापि यह नहीं समझना चाहिए कि यह बात निराधार है। मुझे खेद है कि मैं यथा-समय पांडेयजी को इस बात का प्रमुख प्रमाण न दे सका, क्योंकि मेरे कागज-पत्र उस समय ऐसी गड़बड़ हालत में थे कि उनमें से उन्हें ढूँढ़ निकालना कठिन था, और पांडेयजी अधिक समय तक ठहरना नहीं चाहते थे। प्रमाण नागरीप्रचारिणी पत्रिका में यथा-स्थान छपने के लिये भेज दिए गए हैं। परंतु पाठकों के लाभार्थ यहाँ भी दे दिए जाते हैं। गढ़वाल में प्रचलित झाड़-फूँक के मंत्रों में संतों और सिद्धों के संबंध में जो उल्लेख हैं उनका मैंने संग्रह किया है। पं० चंद्रवली के आग्रह से मैंने इस छोटे से संग्रह को उन्हें भी सुनाया था। इस संग्रह में गोरखनाथजी के संबंध में लिखा है—“हिंदू मुसलमान बालगुदाई दोऊ सहरथ लिये लगाई”^१ जिससे पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ के चेलों में हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। मुसलमानों की जिवह आदि करते देख गोरखनाथ ने किसी काजी से कहा था—

मुहम्मद मुहम्मद न कर काजी मुहम्मद का विपम विचारं ।
 मुहम्मद हाथि करद जे होती लोहे गढ़ी न सारं ॥
 नवदं मारै सबद जिलावै ऐसा महम्मद पीरं ।
 ऐसे भरमि न भूलौ काजी सो बल नहीं सरीरं ॥

खंडन किया है और न गोरखनाथ ने ही केवल बाहरी क्रियाओं को प्रधानता दी है।” यदि उन्होंने इन वाक्यों की ओर ध्यान दिया होता तो उन्हें ‘भक्ति एवं योग के विवाद में न पड़’ कहने की आवश्यकता न होती—चाहे यह कहकर वे स्वयं इस झगड़े में न पड़ना चाहते हों चाहे मुझे उसमें न पड़ने का आदेश देते हों।

विद्वानों की आलोचना से कई लाभ होते हैं। जहाँ पांडेयजी के ‘वृत्त’ से मुझे पता लगा है कि मेरा कौन सा मत पुष्ट है, वहीं मेरे एक मत के ‘अग्रिम खंडन’ द्वारा यह बतलाकर भी वे मेरे धन्यवाद के भाजन हुए हैं कि कहाँ मुझे अधिक विस्तार के साथ लिखने की आवश्यकता है।

कबीर के जन्म-स्थान के संबंध में विवेचन करते हुए पांडेयजी ने लिखा है—“कुछ लोगों की धारणा है कि कबीर का जन्मस्थान काशी नहीं, संभवतः मगहर था।” उनमें से एक मैं भी हूँ। पांडेयजी का संकेत विशेषकर मेरे निबंध की ओर है। मगहर के पक्ष में प्रमाण उन्होंने उसी में के दिए हैं। इस मत का प्रधान प्रमाण तो ‘आदिग्रंथ’ में दिया हुआ कबीर का वह पद है जिसमें उन्होंने कहा है—‘पहले दरसन मगहर पायो पुनि कासी वसे आई’। उम्में स्पष्ट है कि कबीर को भगवद्दर्शन मगहर में हुआ था और उम्में बाद वे काशी में आ वसे थे। इससे यह भी संभव है कि कबीर का जन्म मगहर में हुआ हो। काशी में कबीर का जन्म

हुआ था, इस बात को तो यह पद अवश्य संदेह में डाल देता है। परंतु पाण्डेयजी का मत है कि ऐसा समझना 'सावधानी' से काम न लेना है। क्योंकि मगहर में बैठे बैठे वे 'कासी वसे आई' कैसे कह सकते हैं—'आई' की जगह 'जाई' होना चाहिए था। उनकी समझ में, इस पंक्ति में मगहर और काशी का स्थान बदल गया है। इसका पाठ होना चाहिये—'पहिले दरसन कासी पायो पुनि मगहर वसे आई'। 'प्रकृत पद्य' उनके लिये वह है जिसका अनुवाद मेकालिफ ने इस प्रकार किया है—'I first saw you at Kasi and then came to reside at Magahar' यह पंक्ति मेरी है जिसमें मैंने मेकालिफ का अभिप्राय मात्र दिया था। मेकालिफ के शब्द ये हैं—*I first obtained a sight of Thee in Benares and afterwards I went to live at Magahar.* (Sikh Religion, vol 6. पृ० १३०)

इस संबंध में सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 'गुरु ग्रंथ साहब' के भिन्न भिन्न संस्करणों में पाठ-भेद नहीं हो सकता। उसके पद्यों का मंत्रतुल्य आदर होता है। उसकी लिखाई छपाई में अत्यंत सावधानी रखी जाती है। कोई मात्रा टूट जाय, छूट जाय, बढ़ जाय सो तो शायद संभव हो भी परंतु ऐसी गलती उसमें संभव नहीं जिसमें अक्षरों और अर्थ का इतना उलट-पलट हो जाय और वह भी प्रचलित प्रवाद के विरुद्ध। मैंने तरन-तारन के हिंदी संस्करण के इस पाठ की कुछ गुरुमुखी ग्रंथों से मिलवाया

है। परंतु पाठ हर हालत में एक ही मिला है। इस पाठ में मेकालिफ के अनुवाद के अंतर का कारण दूसरा पाठ नहीं है, बल्कि उनके मस्तिष्क पर अधिकार कर बैठा हुआ प्रचलित प्रवाद है। मैं नहीं कहता कि आदि ग्रंथ के अतिरिक्त और जगह भी इसका ठीक यही पाठ मिलेगा। परंतु वस्तुतः यह पद दूसरी जगह अभी तक मिला नहीं है। अतएव दूसरे पाठ का प्रश्न ही नहीं उठता। मेकालिफ का गलत अनुवाद उसके अस्तित्व को प्रमाणित नहीं कर सकता। उन्होंने आदि ग्रंथ का अनुवाद किय है, और चीजों का नहीं। अगर इस पद का पाठ गलत है तो वह 'आदि ग्रंथ' कार को गलती है। परंतु प्रचलित प्रवाद को छोड़कर कोई बात ऐसी नहीं है जो इस पाठ के विरोध में खड़ी हो।

'आई जाई' का झगड़ा कोई विशेष अड़चन खड़ी नहीं करता। कवीर को काशी छोड़कर आए हुए अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, मन उनका काशी ही में है। काशी के उन्हें अत्यंत प्रिय होने के कारण मगहर से अभी उनके मन का समन्वय न हो पाया था। जितना अधिक वे इस बात का एलान करते हैं कि काशी का मुक्ति-मार्ग में कुछ विशेष महत्त्व नहीं, उतनी ही अधिक दृढ़ता से वह उनके हृदय में बैठी हुई दिखाई देती है। इसी से अनजान में उनके

(१) एक ही हवाला यहाँ देते हैं, देखो राय माहत्र गुलामसिंह एंड संस का पूजावाला बड़ा संस्करण, पृ० ६६६ ।

हंस उवारन सतगुरु जग में आइया ।
 प्रगट भए कासी में दास कहाइया ॥
 बाह्यन औ सन्यासी तो हासी कीन्हिया ।
 कासी से मगहर आये कोई नहिं चीन्हिया ॥
 मगहर गाँव गोरखपुर जग में आइया ।
 हिंदू तुरक प्रमोधि के पंय चलाइया ॥

—शब्दावली, पृ० ३, ४, शब्द ६ ।

जग में उनका आना जीवों के उद्धार के लिये हुआ था और हुआ था गोरखपुर के पास मगहर गाँव में, काशी में तो वे प्रकट हुए थे । उससे पहले उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई थी । उनकी प्रसिद्धि का कारण हुआ स्वामी रामानंद का चेताना (काशी में हम प्रगट भए हैं रामानंद चेताए) अर्थात् उनका कबीर के वास्तव स्वरूप को पहचानना जिससे उन्होंने उन्हें वहिचक वैष्णव-मंडली में सम्मिलित कर लिया और वे कबीरदास कहे जाने लगे । परंतु और ब्राह्मणों तथा संन्यासियों ने उन्हें नहीं पहचाना और उनकी हँसी में तत्पर रहे । इसलिये वे काशी से मगहर चले आए । 'कोई नहिं चीन्हिया' का अभिप्राय यह भी हो सकता है कि वे काशी से मगहर ही क्यों आए, इसका कारण किसी को न मालूम हुआ; मगहर वे इस लिए आए कि वहीं उनका जन्म हुआ था । इस अवसर पर मगहर ही को क्यों उन्होंने पसंद किया इसका

यह काफी अच्छा समाधान है। पांडेयजी ने भी अपने लेख में इस पद का एक अंश उद्धृत किया है परंतु उसके 'रहस्योद्घाटन' की ओर उन्होंने वैसी प्रवृत्ति नहीं दिखाई है जैसी उनके कैंडे के विद्वान् से आशा की जा सकती है।

लगे हाथों पांडेयजी की एक उलझन को सुलझा देना तथा उनकी एक गलती का निराकरण कर देना भी जरूरी जान पड़ता है। परंपरागत जनश्रुति है, अपने शव के लिये हिंदू मुसलमानों में खून-खराबी की संभावना देखकर कबीर की आत्मा ने आकाशवाणी की "लड़ो मत, पहले कफन उठाकर देखो कि तुम लड़ किस चीज के लिये रहे हो"; कफन उठाकर देखा गया तो शव की जगह फूल पाए गए जिनको हिंदू मुसलमान दोनों ने वांट लिया। इस कहानी का उल्लेख कर पांडेयजी ने वावू श्यामसुन्दरदासजी-संपादित कबीर-ग्रंथान्तो की भूमिका में से इसके संबंध का यह अवतरण दिया है—“यह कहानी भी विज्ञापित करने योग्य नहीं है परंतु इसका मूल-भाव अमूल्य है” और इस पर टिप्पणी की है—“हमारी समझ में यह बात नहीं आती कि कबीर की उस (?) आत्मा ने इस प्रकार की आकाशवाणी कर, लड़ो मत, कफन उठाकर देखो, कौन सा अमूल्य भाव भर दिया है।” भाव तो विलकुल स्पष्ट है पर यही समझ में नहीं आता कि पांडेयजी का समझ में वह क्यों नहीं आता। पांडेयजी ने अगर इस प्रसंग को ध्यान से पढ़ा होता और 'पर हिंदू-मुसलिम-पेक्य के

प्रयासी कबीर की आत्मा यह बात कब सहन कर सकती थी' इस कथन पर दृष्टि डाली होती तो पांडेयजी को कहानी के अमूल्य मूल-भाव के समझने में देर न लगती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट है। उनका अभिप्राय है कि यह चमत्कारी कहानी विशेष रूप से यह दिखलाने के लिये गढ़ी गई है कि कबीर की आत्मा ने मृत्यु के बाद भी हिंदू-मुसलिम-विरोध के निराकरण का प्रयत्न नहीं छोड़ा। हिंदू-मुस्लिम ऐक्य की आवश्यकता का अमूल्य मूल्य आज भी अनुभूत हो रहा है।

पृ० ५०२ में पांडेयजी ने 'जिंद' शब्द पर विचार करते हुए लिखा है कि धर्मदास के शब्दावली (वेल्वेडियर प्रेस) के संपादक महोदय ने जिंद का अर्थ 'बंधोगढ़-निवासी बनिये' माना है, जो सर्वथा अमान्य है। परंतु वस्तुतः यह उक्त संपादक महोदय के ऊपर अन्याय है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं माना है। 'बंधोगढ़ के बनिये' तो 'बांधो के बानी' का अर्थ है जो इसी प्रसंग में आया है। परंतु हड़बड़ी के कारण पांडेयजी ने पुस्तक को अच्छी तरह पढ़ा नहीं, नहीं तो उन्हें देख पड़ता कि उक्त संपादक ने 'जिंद' के माने 'जिन' दिये हैं, 'बांधोगढ़ के बनिये' नहीं। 'जिंद' शब्द पर एक छोटा सा निबंध ही लिखा जा सकता है पर उसके लिये मेरे पास इस समय अवसर नहीं है।

पांडेयजी ने डा० त्रिपाठी के इस मत का व्यर्थ ही विरोध-

किया है कि कबीर के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार-कार्य सिकंदर लोदी मरीचे कदूर और अत्याचारी सुलतान के राज्य में संभव नहीं था। पांडेयजी का कथन है कि कबीर ने पहले पहल इस्लाम का विरोध नहीं किया, इसलिये वे चैन से हिंदुओं की श्रुति-स्मृति, अथवा आदि की निंदा करते रहे; किंतु अंत में ज्योंही इस्लाम का विरोध करने लगे त्योंही उन्हें उसका मजा चखना पड़ा और अंत में वे मगहर भाग गए। इसमें पांडेयजी ने स्पष्ट ही यह बात मानी है कि कबीर ने अपने पद्यों की किसी विशेष क्रम से रचना की, जिसे मानने के लिये कोई भी आधार नहीं है। वस्तुतः, जैसा डा० त्रिपाठी कहते हैं, कबीर के ऊपर ऐसी क्रूर दृष्टि किसी सुसलमानी शासक की पड़ी ही नहीं जैसी सिकंदर लोदी के शासनकाल में पड़नी संभव थी। मगहर भी वे किसी मुसलमान शासक के अत्याचार से भागकर नहीं गए। सुलतान के अत्याचार से मगहर ही में उनकी रक्षा कैसे हो सकती थी? वहाँ नवाब विजलीख़ाँ की सरक्षकता भी उनकी चमड़ी को सावित न रख सकती। वह खुद विजलीख़ाँ की चमड़ी को अंधेरे में डाल देती। असल में वे मगहर इसलिये गए कि काशी में उनका रहना हिंदुओं ने दूबर कर दिया था। शाहे-वक्त कोई ऐसा उदार व्यक्ति था जिससे जान पड़ता है कि मुसलमानों को भी कबीर को सजा दिला सकने की आशा न थी, फिर हिंदू उससे क्या आशा रखते। इसलिये उन्होंने मजाक का आसरा

लिया। जहाँ कवीर दिखलाई दिए वहाँ “अरर कवीर” के साथ बुरी बुरी गालियों की झड़ी लगाने लगी। काशी में कवीर की खूब जोर की हँसी हुई थी, इसका उल्लेख कवीर-पंथियों ने कई पदों में किया है। ‘निर्गुण चानी’ नामक एक संग्रह में दो-तीन बार ‘काशी में हाँसी कीन्हीं’ का उल्लेख है। धर्मदास की ‘शब्दावली’ से मगहर के संबंध में जो पद ऊपर उद्धृत किया गया है, उसमें भी स्पष्ट लिखा है—‘ब्राह्मण औ सन्यासी तो हाँसी कीन्हिया’। उक्त संग्रह के दो-एक पदों के अनुसार इस हँसी का अवसर भी कवीर ही ने प्रस्तुत कर दिया था। श्रद्धालुओं की श्रद्धा से तंग आकर वे एक बार वेष्ट्या को बगल में लेकर काशी की गलियों में घूमे थे। परंतु उसका जो घोर परिणाम हुआ उसके लिये वे तैयार नहीं थे। सभ्य लोगों ने सभ्य मजाक किया होगा, असभ्यों ने भद्दा।

यह भी नहीं समझना चाहिए कि कवीर प्रकारांतर से हिंदुओं में इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, इस्लाम का विरोध उन्हें अभीष्ट ही नहीं था। उनकी फटकार हिंदू-मुसलमान दोनों के लिये थी; दोनों के अंधविश्वासों तथा कर्मकांड इत्यादि की उन्होंने समान रूप से निंदा की है। हिंदुओं के प्रति अधिक और मुसलमानों के प्रति कम विरोधात्मक उक्तियों का कारण यह है कि कवीर की दार्शनिक प्रवृत्ति हिंदुओं के सर्वथा मेल में थी, इसलिये वे अधिकतर उन्हीं की संगति में रहा करते थे और स्वाभावतः उन्हीं को

अधिक समझाते फटकारते थे, मुसलमानों से वहम-मुवाहसा करने का उन्हें मौका ही कम मिलता था ।

अतएव निषेधात्मक होने पर भी डाक्टर त्रिपाठी का उक्त मत अत्यंत मूल्यवान् है और कवीर के समय का निश्चित करने में बड़ी सहायता देता है ।

पांडेयजी का अभिमत, कि 'ना-नारद इक जुहले सो' द्वारा 'सैकरा भरई' में "सैकरा" कवीर की शतायु की ओर संकेत करता है, विचारपूर्ण है और "सैकरा भरई" यदि जुलाही पेशे की किसी क्रिया की ही ओर संकेत नहीं करता तो वह कवीर की जीवनी के एक तथ्य के निश्चय में अत्यंत सहायक होगा । हाँ, यह कहना कि—

बारह बरस बालन ग्योयो, बीस बरस कष्ट तप न कियो ।

तीस बरस कै राम सुमिरथो, फिरि पछितान्यो विरध भयो ॥

कवीर-ग्रंथावली, पृ० १०७, २४३; ३०९, १५१ ।

इसमें सामान्य कथन न करके कवीर ने अपने ही बाल्यकाल, यौवन, बुढ़ापे इत्यादि का विस्तार बताया है, अतिमात्र है ।

इतने बड़े महात्मा को मैंने व्यर्थ ही इतना दुःख दिया । परमात्मा इसका मुझे न जाने क्या दण्ड दे । वह कवीर के चरणों पर गिर पड़ा और भेंटरूप में जागीर स्वीकार करने की उनसे प्रार्थना करने लगा । धरती के समान सहिष्णु सन्त ने उसके अपराधों को क्षमा कर दिया परंतु उसकी भेंट स्वीकार नहीं की । जिसका देनेवाला राजा राम है, उसे पृथ्वी के भूपालों के सामने हाथ फैलाने की क्या आवश्यकता ?

संत-समाज में यह प्रवाद अत्यन्त प्रसिद्ध रहा है । प्रियादास जी के समय में भी यह प्रवाद प्रचलित था । भक्तमाल की अपनी टीका में उन्होंने लिखा है—

देख कै प्रभाव फेरि उपज्यौ अभाव द्विज ।
 आयौ वादशाह जू सिकंदर सो नाँव है ॥
 विमुख समूह संग साता हू मिलाइ लई ।
 जाइ कै पुकारै जू दुखायौ सब गाँव है ॥
 लावो रे पकरि वाको, देखौ रे मकर कैसो ।
 अकर मिटाऊँ गाढ़े जाकर तनाव है ॥
 आनि ठाढ़े किये काजी कहत सलाम करौ ।
 जानै न सलाम जामें राम गाढ़े पाव है ॥२७४॥
 बाँधि कै जंजीर गंगा तीर माँझ चोरि दियो ।
 कियो तीर ठाड़ो, कहै यन्त्र मन्त्र आवहीं ॥
 लकरीन मंझ डारि अगिनि प्रजारि दई ।

नई मानों, भई देह कंचन लजावहीं ॥
 विफल उपाइ भये तरु नहिं आइ नये ।
 तव मतवारों हाथी आनि के भुकावहीं ॥
 आवन न दिग औ चिंघारि हारि भाजि जाइ ।
 आइ आप सिंहरूप बैठे शोभा गावहीं ॥२७५॥
 देख्यो वादशाहि भाव कूदि परे गहे पावं ।
 देखि करामाति मात भये सब लोग है ॥
 प्रभु पै वचाइ लीजै हमें न गजव कीजै ।
 लीजै मोई भावै गाँव देश नाना भोग है ॥
 चाहें एक राम जाको जपैं आठौ जाम ।

था कि मन्सूर की तरह वह भी खुदा होने का दावा करता है ।
कबीर ने इन शब्दों में अपना अपराध स्वीकार किया—

हम ही अलख अलाह हैं, कुनुच गोस गुरु पीर ।

गरीबदास मालिक धनी हमरो नाम कबीर ॥

मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ सकल हमारी जात ।

गरीबदास पिंड दान में युगन-युगन संग साथ ॥

स्वभावतया कबीर-पंथी ग्रन्थों में यह कथानक बहुत अति-रक्षित रूप में दिया गया है । निर्भयज्ञान आदि कबीर-पंथी ग्रन्थों के अनुसार सिकंदर को जलन का रोग था । रोग-मुक्ति की आशा से सुलतान कबीर के दर्शनों के लिए आया और उसे तत्काल आरोग्य लाभ हुआ । इससे कबीर का प्रभाव बहुत बढ़ गया जो शेरशाह सूरी तक की को असह्य हुआ । उसने कबीर को मरवा डालना चाहा । शेरशाह सिकंदर यह नहीं करना चाहता था किंतु शेरशाह सूरी से उसकी कुछ चली नहीं । उसकी बड़बुद्धा के डर से और इस विश्वास से भी कि कबीर का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता वह चुप हो रहा । तब शेरशाह सूरी के कहने से कबीर के प्राण लेने के ऊपर लिखे प्रयत्न किये गये । इस अवसर पर अनुराग-सागर आदि ग्रन्थों के अनुसार कबीर ने और भी कई चमत्कार दिखाये । कमालबोध ने तो यवन (ग्रीक) सिकंदर महान् और सुलतान सिकंदर लोदी को एक कर डाला है ।

सिकंदर महान् की एक उपाधि जुलकरनैन है जिसका अनेक

प्रकार से अर्थ किया जाता है। यूनानी नैतिक दो सींगवाला टोप (शिरस्त्राण) पहना करते थे । इसलिए कोई उससे दो सींगवाला अर्थ समझते हैं। कोई उससे जगन् के दोनों कोंनों (पूर्व और पश्चिम) को जीतनेवाला अर्थ लगाते हैं। अन्य लोगों के अनुसार उसका अर्थ बीस वर्ष राज्य करनेवाला अथवा दो सितारोंवाला या भाग्यशाली है। किंतु 'कमालबोध' में इस शब्द की विचित्र निरुक्ति की गयी है। उसके अनुसार इस शब्द का अर्थ है जुलाहा का किया (बनाया) हुआ। कबीर जुलाहे का शिष्य होने के कारण ही सिकंदर महान् का इतना महत्त्व हुआ— भये मुरीद जुलहा के आयी । तबही जुलकरन नाम धराई ॥

—कमालबोध (बोधसागर, पृ० १५११)

कुछ आधुनिक यूरोपियन विद्वानों ने भी कबीर के जीवन के संबंध में इन कथानकों पर विचार किया है। फरासीसी विद्वान् जी. डी. टेस्सी ने अपने हिन्दुस्तानी साहित्य के इतिहास में, विल्सन ने अपने ग्रंथ "रिलिजिस् सेक्ट्स् ऑफ दि हिंदूज़" में वेस्कट ने अपने ग्रंथ "कबीर एन्ड दि कबीर पन्थ" में तथा की ने अपने 'कबीर एन्ड हिज फॉलोअर्स' में इस संबंध में विचार किये हैं। इन सब विद्वानों ने कबीर के समय-निर्णय की कठिनाई म्बीकार किया है, परन्तु अन्त में विल्सन को छोड़ कर सबने प्रायः यही मत स्थिर किया है कि कबीर सिकंदर का समकालीन था। किंतु केवल इन कथानकों के ही आधार पर नहीं। उन्हें

कुछ ऐतिहासिक साक्ष्य भी उसके अनुकूल जान पड़ा है। यद्यपि विल्सन का मत पूर्णतया इसके अनुकूल नहीं जान पड़ता फिर भी उन्होंने इस मत के पक्ष के सब आधारों को बड़ी अच्छी तरह से संक्षेप में दे दिया है।

टेस्सी का हवाला देते हुए विल्सन ने लिखा है—‘प्रियादास की टीका’ में भी यही बात लिखी हुई है। ‘खुलससत-अल-तवारीख’ में भी यही लिखा है और अबुलफज्ज ने तो इस बात का अन्तिम निर्णय कर दिया है कि एकेश्वरवादी कबीर सिकंदर लोदी के शासनकाल में विद्यमान था। (आईन, २, ३८) (जी० डि० टेस्सी—*Histoire de la literature Hindoustani*, पेरिस, १८३९ और १८४७, भाग १ पृ० २७५; भाग २ पृ० ६)। विल्सन ने यह भी लिखा है कि “इससे कबीर-पंथियों में प्रचलित एक कथानक की भी पुष्टि होती है जिसके अनुसार सिकंदर शाह के सामने कबीर ने अपने सिद्धांतों को सत्य प्रमाणित किया था। फरिश्ता के अनुसार इस सिकंदर के शासनकाल में कुछ धार्मिक कलह हुए थे जिनका संबंध संभवतः कबीर अथवा उनके शिष्यों से रहा हो।”†

‘आईने अकबरी’ ऐतिहासिक दृष्टि से बहुमूल्य ग्रन्थ है। परन्तु कबीर के सम्बंध में उसमें भी जो कुछ लिखा है वह किंवदंतियों के आधार पर है। स्वयं आईने अकबरी से पता

† विल्सन पृ० ७२-७३

चलना है कि कबीर के सम्बन्ध में अनुलक्षण की पहुन परंपरागत बातों तक ही थी। फिर भी जिस बात को अनुलक्षण जैसा इतिहास-बुद्धिवाला व्यक्ति लिखने-योग्य समझना उसका केवल परंपरागत होने पर भी हमारी दृष्टि में बहुत मूल्य होता। परन्तु वस्तुतः आईने अकबरी में इसका कहीं उल्लेख नहीं है कि कबीर सिकंदर का समकालीन था। कर्नल जारेट के अनुवाद को देखने से पता चलता है कि पुरी में जगन्नाथजी के मन्दिर का वर्णन करते हुए आईने में इतना ही लिखा है—
 “कुछ लोगों का कहना है कि एकेश्वरवादी (मुए 'हिंद) कबीर यहाँ (कन्न में) विश्राम करता है। उसके कथनों और कार्यों के विषय में आज तक बहुत सी प्रामाणिक परम्पराएँ प्रचलित हैं। उसके ज्ञान और सिद्धान्तों की उदारता के कारण हिंदू और मुसलमान दोनों उसका आदर करते थे। उसके मरने पर ब्राह्मण उसके शव को दग्ध करना चाहते थे और मुसलमान दफनाना।”^१
 इसको पढ़ने से पता चलेगा कि इन ‘प्रामाणिक परम्पराओं’ में कबीर के सिकंदर का समकालीन होना नहीं सम्मिलित है। ग्लैडविन के अनुवाद में इतना और लिखा है—^२ “जब उन्होंने (ब्राह्मणों और मुसलमानों ने) कफन का कपड़ा उठाया तो शव का ही पता न था’ परन्तु यद्यपि जारेट के अनुसार यह कथन

पुस्तक में कहीं नहीं है^४ तथापि इसमें भी कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है कि कबीर सिकंदर का समकालीन था। इस अतिरिक्त कथन से पता चलता है कि या तो कहीं-कहीं आईन में भी लोग नयी बातें जोड़ते गये हैं अथवा जिनकी सहायता से ग्लेडविन ने अपना अनुवाद प्रस्तुत किया है, उन लोगों ने आईन से बाहर की बातें भी अनुवाद में सम्मिलित कर दी हैं। सम्भवतः ऐसी ही कोई प्रति अथवा किसी सहायक का सहयोग टेस्ती आदि विद्वानों को भी प्राप्त हुआ होगा। और जो कुछ हो, इतना निश्चित है कि आईन से कबीर का सिकंदर का समकालीन होना सिद्ध नहीं होता।

खुलसत अल तवारीख को मैंने देखा नहीं है। उसका कोई अनुवाद देखने में नहीं आया। परन्तु वह बहुत बाद का बना हुआ इतिहास-ग्रन्थ है। अतएव उसे आधार बनाकर कबीर के संबंध में किसी असंदिग्ध परिणाम पर नहीं पहुँच सकते।

अब फरिश्ता का साक्ष्य लीजिए जिसके ग्रन्थ में विद्वानों को कबीर और सिकंदर के बीच के झगड़ों का संकेत सा मिलता दिखायी देता है। जिस स्थल का कबीर पर किये गये अत्याचारों से संबंध कहा जाता है, वह यह है—‘सिंहासन पर बैठने से पहले उसका (सिकंदर) एक फकीर या साधु (अंगरेजी अनुवाद का शब्द “होली मैन” अर्थात् पवित्र पुरुष) से झगड़ा हो गया

था। फकीर ने कहा था कि सुलतान को अपनी प्रजा के अधिकारों में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, न उसे उन बातों पर स्तान करने से रोकने का अधिकार है, जिन पर वे युगों से स्तान करते चले आ रहे हैं। शाहजादे ने तलवार खींच ली और बोला 'दुर्जन, क्या तू हिंदू धर्म को अच्छा बतलाता है।' फकीर ने उत्तर दिया, 'कदापि नहीं, पर मैं प्रमाणाँ के आधार पर कहता हूँ कि राजाओं को किसी भी कारण से प्रजा पर अत्याचार नहीं करना चाहिए।' इससे वह शांत हो गया।†

इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, जिससे यह निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि यह फकीर कवीर था। इसे कोई भी अहिंदू फकीर अथवा साधु कह सकता था जिसमें धार्मिक उदारता विद्यमान रही हो। कवीर और उसके शिष्य तथा प्रभावितों में अवश्य ही धार्मिक उदारता थी। धार्मिक उदारता मध्ययुग के सूफ़ी फकीरों की विशेषता भी थी। अतएव जबतक कोई अन्य दृढ़ प्रमाण नहीं मिलता तबतक केवल इसीके आधार पर हम कवीर को सिकंदर का समकालीन नहीं मान सकते। स्वयं विल्सन को इस बात में संदेह है कि इस भगड़े का सम्बन्ध कवीर ही से है। कवीर के शिष्यों से भी इसका सम्बन्ध होना वे सम्भव समझते हैं, जैसा कि उनके उद्धरण में रेखांकित शब्द से पता चलता है।

† जान ब्रिग्स का अनुवाद, हिस्ट्री ऑफ़ दि राइज़ आफ़ दि मोहम्मडन पॉवर, भाग १ पृ० ५८७

एक और स्थल ऐसा है जिसमें फ़रिश्ता ने सिकन्दर की एक कलंदर के साथ की बातचीत का उल्लेख किया है। “एक दिन अपने राज्य-काल के आरम्भ में जब वह (सिकंदर) अपने भाई चारवक के विरुद्ध लड़ने जा रहा था तब उसे एक कलंदर मिला। कलंदर ने कहा “परमात्मा आपको विजय दे” इस पर सिकन्दर ने जवाब दिया—“प्रार्थना करो कि विजय उसे मिले जो अपनी प्रजा की सब से अधिक भलाई करे।”^५ इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह कलंदर कबीर ही था।

अतएव कबीर के सिकन्दर का समकालीन होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। रहीं किवदन्तियाँ। वे ऐतिहासिक प्रमाणों का स्थान ग्रहण नहीं कर सकती। प्रियादासजी आदि के अतिरंजित चमत्कारपूर्ण कथन तत्रतत्र इतिहासरूप में स्वीकार नहीं किये जा सकते जबतक इतिहास-बुद्धि से स्वीकार करने योग्य स्वतंत्र प्रमाण से उनका समर्थन न हो जाय। ऐसे प्रमाण का अब तक तो सर्वथा अभाव ही दिखायी दे रहा है।

कब्रों के कृमि का निषाग

(भाग में १२१)

जाति न पूछो मंग को पूछो उमर का नाम ।
मोल करो मलवार का पड़ा रजन से भयानक ।

स्वयं किसी जीवनमुक्त मंग के लिये अपनी जाति-जाति का कुछ मूल्य नहीं । उसका मंग होना ही हम मान कर मानते हैं कि उसने 'जाति धरन कुल' को दिया है । मुमुक्षु विद्वान् की भी मंग की जाति से उतना मतलब नहीं करना, उसके काम की शीघ्र उसका तत्व-ज्ञान है जिसकी अनुभूति में वह अपने जीवन की सार्थकता मानता है । वह तो स्वयं उस मार्ग पर बढ़ चलता है जिस पर चलने में उसकी भी 'जाति धरन कुल' गो जाय । परन्तु जन-साधारण की ज्ञान-पिपासा प्रत्येक दशा में उन ऊँचाई तक नहीं पहुँची रहती जिसे जिज्ञासा कहते हैं, उनके 'क्यों, क्या और कैसे ?' की पहुँच कुतूहल ही तक होती है, जिसकी परिशान्ति वास्तव्य मात्र से हो जाती है । यही कुतूहल-वृत्ति हम अजिज्ञानियों के हृदय में 'कब्रों कौन थे ? किस समय हुए ?' आदि प्रश्नों का

उत्तर जानने की उत्कट इच्छा उत्पन्न करती है। जिज्ञासु की दृष्टि में वह एक कमजोरी है, परन्तु हमें उसके लिए लज्जित होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि उसी कमजोरी में हमारा बल है। संत-चर्चा में हमें वही प्रवृत्त करती है। जिन परिस्थितियों के कारण संतों को तत्वानुभूति की ओर अग्रसर होना पड़ा है. उनसे हमें अवगत करा कर सत्वोद्रेक के द्वारा वह हमारी मानसी अवस्था को तत्वग्रहण के लिए अधिक अनुकूल बना देती है और कुछ चाहे न भी हो, किसी भी व्यक्ति के जीवन की घटनाएँ उसके विचारों को समझाने के लिए अवतरणिका का काम तो अवश्य ही देती हैं। इसी बुद्धि से मैं आज कवीर के कुलान्वेषण में प्रवृत्त हुआ हूँ।

इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि कवीर मुसलमान कुल में परिपालित हुए थे। परम्परागत जन-श्रुति है कि नीरू जुलाहे और उसकी पत्नी नीमा ने उनका पालन-पोषण किया था। साधारण अवस्था में इसी से यह परिणाम निकाल लिया जा सकता था कि वे मुसलमान कुल में ही पैदा हुए थे। परन्तु इधर कई कथानक ऐसे चल पड़े हैं कि यह बात निर्विवाद नहीं मानी जा सकती। इसलिये पहले इन कथानकों पर विचार करना आवश्यक है। चुनार के पं० भानुप्रताप तिवारी^१ का कथन है कि कवीर की

असल माँ एक हिन्दू विधवा (ब्राह्मणी) थी जो (अन्य लेखकों) के अनुसार अपने पिता के साथ) स्वामी रामानंद के दर्शनों को गयी थी। युवती के प्रणाम करने पर स्वामीजी ने 'पुत्रवती भव' का आशीर्वाद दिया। महाराज रघुराजसिंह के अनुमार यह विधवा ब्राह्मणी स्वामी रामानंद जी की सेवा में रहा करती थी। ध्यानस्थ अवस्था में धोखे से उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। युवती ने व्याकुल हो कर कहा, आप क्या अमङ्गल बात कहते हैं, मैं तो विधवा हूँ, मुझे पुत्र से क्या काम। तब रामानंदजी को भी खेद हुआ। परन्तु वे क्या करते, भवितव्यता तो मुँह से निकल पड़ी थी, वह बिना हुए रह नहीं सकती थी। उन्होंने उसे यही आश्वासन देकर विदा किया कि तुम्हें बचनामी न उठानी पड़ेगी (और बड़ा प्रतापी पुत्र-रत्न लाभ होगा)। पुत्र उत्पन्न होने पर युवती ने लोक-निन्दा के भय से उसे लहर तालाब में डाल दिया,

भक्तमाला राम रसिकावली—महाराज रघुराज सिंह

१ कबीर वचनावली (सं० १९७८), परिचय, पृ० ६-७; 'इन्सा-इक्लोपीडिया ऑव रिलिजन एण्ड एथिक्स', कबीर पर वर्णन का लेख।

२ सम्भवतः नैष्ठिक ब्रह्मचारी होने के कारण स्वामीजी स्त्रियों को नजर भर कर नहीं देखा करते थे, जिससे वेश-भूषा आदि से उनके कौमार्य, विवाहिता अथवा वैधव्य का पता लगा सकें।

जहाँ से नीरू जुलाहे ने जो अपनी स्त्री का गौना लेकर आ रहा था,^३ उसका उद्धार किया।

कवीर-चौरा काशी के महन्तजी ने यह कहानी मुझ से कुछ और ही ढङ्ग से कही। उनका कहना है कि एक विधवा कुमारी फूल चुनने स्वामी रामानन्दजी की फूलवाड़ी में गयी और गोदी में फूल भरने लगी। जब स्वामीजी ने डाँटा तो बोली, फूल नहीं हैं पेट है। स्वामीजी ने कहा 'तथास्तु' और सचमुच उसके पेट रह गया, जिससे कवीर की उत्पत्ति हुई। शेष कथा ऊपर ही के तुल्य है। कवीर की देह फूलों से बनी थी, इसी लिए उनकी मृत्यु के बाद अन्त में फिर फूलों में बदल गयी।

पादरी अहमदशाह ने बगीचे के प्रसाद का श्रेय स्वामी अष्टानन्द को दे डाला जिन्होंने 'कवीर मन्सूर' के अनुसार कवीर के जन्म का वृत्तान्त सब से पहले स्वामी रामानन्द को सुनाया था। 'कवीर चरित्र बोध' के अनुसार भी स्वामी अष्टानन्दजी ने

३ 'कवीर सागर', 'बोध सागर' पृ० १४२९, 'स्वसंवेद बोध' सं० ९, पृ० ६५ (बम्बई, सं० १९६३)। विक्सन ने 'भक्त-माल' की एक ऐसी प्रति का उल्लेख भी किया है जिसमें लिखा है कि कवीर को 'अली जुलाहा ने पाया।' वह अंश जिसमें यह आया है, प्राइस के 'हिन्दी एण्ड हिन्दुस्तानी सेलेक्शन' कलकत्ता, भाग १ पृ० ८४ में संग्रहीत है।

तेज को लहर तालाव में उतरते देखा था और उसका समाचार स्वामी रामानन्द को सुनाया था ।^४

५ अधिक विधवासी भक्त कवीर पंथियों को तो कवीर को दस मास तक माता के गर्भ में रहने की मंगल में डालना भी अनुचित जान पड़ा ! परम पुरुष होने के कारण उनके लिए वे भजन्मा हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें देव दुंदुभि-नाद के बीच सीधे 'सत्य लोक' से लहर तालाव में फूले हुए कमल पर उतार कर कुल का सारा भगड़ा ही मिटा दिया है। घटना की सत्यता के प्रमाण के लिए स्वामी अष्टानन्द के नाम से एक गवाह भी पैदा कर दिया गया, जिस बेचारे के चरित्र पर, जैसा कहा जा चुका है, अहमद शाह को बड़ा संदेह हुआ है।

परन्तु कवीर को हिन्दू विधवा अथवा कुमारी का पुत्र मानने की प्रथा बहुत नवीन है। प्रियादासजी ने भक्त-माल की टीका में, जहाँ कई आश्चर्यजनक असंभव सो घटनाओं का उल्लेख किया है, वहाँ इस बात की ओर संकेत तक नहीं किया। कवीर का मुसलमान होना, उनके बहु-संख्यक हिन्दू अनुयायियों को अपने

४ कवीर-सागर [बोध सागर], पृ० १७९०-१ कवीर चरित्र बोध पृ० ६-७ (श्री वैकटेश्वर बम्बई सं० १९६३), कवीर मंसूर (परमानन्ददास कृत) पृ० १०२ को:—'कवीर एण्ड हिज़ फॉलोवर्स' पृ० २० ।

५ विस्सन — रिलिजस सेक्ट्स ऑव दि हिन्दूज, पृ० ६९; पाद टिप्पणी ।

लिए लज्जा की बात मालूम हुई होगी, इसी से उनके लिए एक हिन्दू माता की सृष्टि करनी पड़ी, उनको मुसलमान के घर में पहुँचाने के लिये कारण प्रस्तुत करने के लिए इस नव सृष्ट माता को विधवा बनाना पड़ा। हिन्दू भावों से ओतप्रोत कबीर की विचार धारा इस कथानक का प्रसार करने में सहायक हुई। कबीर ने हिन्दुओं के अंध-विश्वासों का विरोध किया है सही, परन्तु केवल इसलिए कि वे हिन्दुओं के उच्चतम दार्शनिक विचारों के प्रसार में बाधक थे। कबीर की इसी शास्त्र-सम्मत उच्च हिन्दू भावना के कारण मिस्टर विल्सन उनका मुसलमान होना असंभव समझते हैं। जन-साधारण ने तो कबीर के मस्तिष्क में बहती हुई विचार-धारा का उनकी नसों में बहती हुई रक्त-धारा से आसानी से संबंध जोड़ लिया। मिस्टर विल्सन को तो यहाँ तक संदेह है कि हो न हो कबीर केवल एक कल्पित नाम (अथवा उपनाम या तखल्लुस) था, जिसकी आड़ में किसी हिन्दू स्वतंत्र चिंतक सुधारक ने हिन्दू धर्म की कुप्रथाओं पर आक्रमण कर के उसमें नवीनता लाने का प्रयत्न किया। किसी ने तो उसके लिए 'कबीर', एक हिन्दू नाम तक ढूँढ़ निकाला है, 'कबीर' जिसका विकृत रूप माना गया है। इस नाम के आधार पर कुछ लोगों ने अँगूठे से और कुछ ने हथेली से कबीर की उत्पत्ति मानी है। केवल इसी निरुक्ति से इस नाम को 'काल्पनिक'^१ न समझना

चाहिए। क्योंकि 'कवीर' का वास्तविक अर्थ कर्मण्य है, वह 'वाग्वीर' का विरोधी है। गुरुओं के ऐसे नाम बहुत हुआ करते हैं। परन्तु जब कवीर स्पष्ट ही अरथी का शुद्ध शब्द है और वे मुसलमान कुल में पाले ही गये थे तब इस प्रकार र्थीचातानी कर के संस्कृत से उसकी व्युत्पत्ति करने की आवश्यकता नहीं।

कुछ लोग कवीर को इस जन्म का नहीं पूर्व जन्म का हिन्दू मान कर उनके हिन्दू विचारों को पूर्व जन्म के मंस्कारों से जनिता भी मान सकते हैं।

'पूर्व जन्म हम ब्राह्मण होते बोछे करम तप हीना।

राम देव की सेवा चूका पकरि जुलाहा कीना^२ ॥

और 'कहत कवीर मोहि भगति उमाहा।

कृत करणी जाति भया जुलाहा^३ ॥

में कवीर पूर्व जन्म में अपने ब्राह्मण होने की कल्पना कर अपना परितोष करते से जान पड़ते हैं।^४ परन्तु वस्तुतः कवीर इसमें भक्ति-हीन ब्राह्मणों को यह धमकी भरी चेतावनी दे रहे हैं कि मैं तो इस जन्म से ही जुलाहा हूँ, आगे आवागमन से मुक्त हो जाऊँगा, किन्तु तुम्हें अगले जन्म में जुलाहा बनना पड़ेगा।

'ज्ञान-सागर' में कवीर का पोषक पिता नीरू पूर्व जन्म का

ब्राह्मण बना दिया गया है। इस ग्रन्थ के अनुसार लहर तालाब से घर ले जाकर नीरू जुलाहा ने कवीर को जब पय-पान के बिना ही हृष्ट-पुष्ट होता हुआ देखा तब कारण पूछने के लिए स्वामी रामानन्द के पास पहुँचा। स्वामी जी ने बतलाया—

पूर्व जन्म तैं ब्राह्मण जाती। हरि सेवा कीन्हसि भलि भौंती ॥
कछु तुव सेवा हरि की चूका। ताँ भया जुलाहा को रूपा ॥
प्रीति प्रभु गहि तोरी लीन्हा। ताँ उद्यान^५ में सुत दीन्हा^६ ॥

कवीर के उपर्युक्त वचन से इस उद्धरण का इतना साम्य है कि जान पड़ता है कि उसी को देखकर 'ज्ञान-सागर'-कार को यह कल्पना सूझी होगी। इन कथानकों से आधुनिक प्रेतात्मावादी शायद कुछ परिणाम निकाल सकें तो निकाल सकें, मेरे बूते का यह काम नहीं।

यद्यपि कवीर हिन्दू भावों में निमग्न थे और मुसलमानी धार्मिक व्यवस्था का उनको अधिकचरा ही सा ज्ञान था, फिर भी उनका मुसलमानीपन कभी-कभी सिर उठा-उठा कर अपना परिचय दे ही जाता है। कवीर ने मुसलमानी अंधविश्वासों का

५ इस उद्यान का काशी-कवीर चौरा के महंतजी कथित रामानंदजी के उद्यान से कोई संबंध नहीं है।

६ ज्ञान-सागर, (कवीर सागर या बोध-सागर सं० १ से सं० १९६३)

.खूब विरोध किया है । सुन्नत^१ अजान^२ कुर्बानी^३ हज^४ इत्यादि
को उन्होंने खूब खिली उड़ाई है । कुर्बानी के लिए जीव-वध से वे

१ सकति से नेह पकरि करि सुनति यह न ब्रह्म^१ रे भाई ।
जौरे खुदाइ तुरक मोहिं करता तौ आपै काटि किन जाई ॥
हौं तो तुरक किया करि सुनति औरति सों का कहिए ।
अरध सरीरी नारि न छूटे आधा हिन्दू रहिए ॥

क० ग्रं०, पृ० १०७, ५९

२ मुझा कहाँ पुकारे दूरि राम रहीम रखा भर पूरि ।
यहुतौ अल्लह गंगा बहरा नाहीं देखै खलक दुनो दिल माहीं ॥
वही, पृ० १०७, ६०

३ कुकड़ा मारै बकरी मारै हक-हक करि बोलै ।
सधै जीव साई के प्यारे उबरहुगे किस बोलै ॥

वही पृ० ६२

४ गेय नवरी बाहिरा क्या हज कावै जाइ ।
जिनका दिल स्यायति नहीं, तिनकाँ कहाँ खुदाई ॥

वही पृ० ४३

हज कावै दि दि गया केती बार कबीर ।
मांग मुझ में क्या स्वता मुझाँ न बोलै पीर ॥

बहुत चिढ़ते थे^५ और जिसका दूध पिया जाता है उस गौ माता का मांस-भक्षण तो उनके लिए असह्य था। ऐसा करनेवालों के लिए उन्होंने बहुत कड़ी भाषा का प्रयोग किया है।^६ परन्तु जान पड़ता है कि उनके मुसलमानों संस्कार छिपे नहीं रह सकते, कहीं-कहीं पर जहाँ सिद्धान्त-निर्णय की ओर उनका ध्यान नहीं रहता है, वहाँ वे अवसर पा कर प्रगट हो जाते हैं।

कवीर कहा गरवियो ऊँचे देखि अवास ।

५ यह सत्र झूठी ब्रंदगी, बरियां पच निवाज ।

सांचै मारै झूठ पढ़ि, काजी करे अकाज ॥

वही पृ० ४२, ५ (२२)

६ कवीर चला जाइ था आगँ मिला खुदाइ ।

मीरां मुझसों यों कहा किन फुरमाई गाइ ॥

वही, पृ० ५२, २१

अर्थात् कवीर परंपरागत मार्ग पर चला जा रहा था कि आगे से खुदा मिल गये ।

प्रभु ने मुझसे कहा, “गाय की कुर्बानी की आज्ञा किसने दो है ?”

तुरकी धरम बहुत हम खोजा । बहुत बजागर करैं ये बोधा ॥

गाफिल गरब करैं अधिकाई, स्वारथ अरथि बधैं ये गाई ॥

जा को दूध धाइ करि पीजै, ता माता को बध क्यों कीजै ॥

लहुरै थकैं, दुहि पीया खीरो । ताका अहमक भखैं सरीरो ॥

वही पृ० २३९

कालि परथौ भवै लेटणा ऊपर जामे घास^६ ॥

कवीर सूता का करै उट्टि न रोवै दुक्ख ।

जाका वासा गोर में सो क्यों सोवे सुक्ख^७ ॥

इन बातों को वही कह सकता है जिसके कुल में मुर्दों को दफनाने की प्रथा हो, जलाने की नहीं। इसी प्रकार 'अला एकै नूर उपनाया'; उवरहुगे किस वोले' आदि भी मुसलमानी विचार हैं।

कवीर के एक दो पद ऐसे भी हैं जिनसे यह पता चलता है कि वे मुसलमान माता के पुत्र थे।

नित उठि कोरी गगरी आनै लीपत जीउ गयो ।

ताना-बाना कछू न सूमै हरि रस लपट्यो ॥

हमरे कुल कउने राम कह्यो ।

जव की माला लई निपूते तव ते सुख न भयो ।^८

इससे जान पड़ता है कि नित्य कोरी हाँड़ी में भोजन बनाना, चौका देना, राम भजना आदि बातें कवीर के घर में नयी थीं, जिन्हें कभी चौका न देकर रोज एक ही हाँड़ी में पकानेवाली माता व्यर्थ की तरद्दुद और कुलप्रथा का विरोधी समझती थी।

... कवीर के वचन कहे जाते हैं, जो उनके मुसलमान

होने की सूचना देते हैं। परन्तु केवल इन्हीं से किसी परिणाम पर पहुँच जाना भ्रामक हो सकता है। 'उबरहुगे किस बोलै ?' कयामत की सूचना देता है सही, परन्तु वह मुसलमानों को मुसलमानी विचार-शैली ही से लाजवाब कर देने का प्रयत्न भी हो सकता है।^१ दफनाने की प्रथा से मुसलमान मानने में क्या भय है, इसका उल्लेख आगे किया जायगा। "हमारे कुल कउने राम कछौ ?" वाले पद में स्वयं कबीर की माता की उक्ति देखना भी भ्रामक हो सकता है। वे माता के वचन न होकर माया के वचन भो हो सकते हैं। मायाविष्ट जन राम-भजन नहीं कर सकते, उन्हें स्वच्छ संयत जीवन नहीं सुहाता, जप इत्यादि से वे कोई संबंध नहीं रखते, केवल जीविका-उपार्जन से उनका मतलब रहता है। अगर इस प्रकार के पदों को सहसा पारिवारिक स्थिति के अकाट्य प्रमाण मानलें तो हमारे हास्यास्पद स्थिति में भी पड़ जाने का डर है। और "मुई मेरी भाई हौं खरा सुखासा"^२ में कबीर को अपनी इस मुसलमान माँ के मरने पर उसी प्रकार खुशी मनाते मानना पड़ेगा जिस प्रकार हिन्दू पिता (!) 'बड्ड गोसाईं'^३ को पा जाने पर।^३ परन्तु वस्तुतः यहाँ कबीर अपनी जननी की

मृत्यु पर नहीं, माया के अन्त होने पर और अपने सांसारिक जनक के नहीं, “जगत्-पिता” के दर्शन पाने पर आनन्द मना रहे हैं। यह जन्य-जनक-भाव की उपासना है। अतएव ऐसे प्रमाणों को हमें तभी सार्थक समझना चाहिये जब ये प्रबलतर बाहरी प्रमाणों का समर्थन कर सकें। मुसलमान कुल के समर्थक ऐसे प्रमाणों का भी अभाव नहीं है।

प्रियादासजी के अनुसार जब कवीर को आकाशवाणी के द्वार उपदेश हुआ कि (भई नभ बानी) देह रमानी, करौ गुरु रामानंद, गरें माल धारियै ।” तब कवीर ने कहा था—

“देखें नहीं मुख मेरो मानि कै मलेछ मो कों ।”^४

इसी प्रकार कवीर का शिष्यत्व स्वीकार करने पर जब दक्षिणी पंडित वंधुद्वय तत्वा और जीवा को ब्राह्मणों ने जाति से बाहर कर दिया और उनकी लड़कियों को व्याहने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ तब कवीर ने बिना किसी हिचक के उन्हें उपदेश दिया—

“दोड तुम भाई करौ आपु मैं सगाई”^५

चचेरे भाई वहनों का इस प्रकार विवाह कर देने की सम्मति किसी हिन्दू से नहीं दी जा सकती। हिन्दू-कुल में उत्पन्न होकर

भी, जो धर्मपरिवर्तन के द्वारा मुसलमान हो गया हो, वह ऐसा कह सकता है, परन्तु वह जात हिन्दू नहीं, जो मुसलमानों के बीच पले होने पर भी उनके रंग से इतना कोरा हो जितने कबीर दिखायी देते हैं।

इसके अतिरिक्त प्राचीन काल के साधु भी उनको स्पष्ट शब्दों में मुसलमान ही बतलाते हैं। जो तुकाराम कबीर को उन चार में से मानते हैं - जिनका अनुगमन किया जाना चाहिए (चौवाची तरि धरि सोय रे) वे भी उनको स्पष्ट शब्दों में मुसलमान कहते हैं।^६ कबीर के गुरुभाई पीपा और रैदास भी कबीर को मुसलमान ही बताते हैं। रजबदास के “सर्वज्ञो” (सर्वांगो) में पीपा का एक पद है और सिखों के “आदि ग्रन्थ” में रैदास का, जिनमें प्रायः एक ही शब्दों में कबीर के इन दोनों गुरुभाइयों ने कबीर का यशोगान करते हुए उनके मुसलमान कुलोद्भव होने का उल्लेख किया है। पीपा कहते हैं—

जाकै ईद बकरीद निय गउरर वध करै मानिये सेप सहीद पोराँ ।
वापि बैसी करी पूत ऐसी धरी नाव नवखंड परसिध कबीरा ॥^७

रैदास कहते हैं—

जाकै ईदि बकरीदि कुल गऊरे बधु करहि
मानियहि सेख सहीद पोरा ।

वापि वैसी करी पूत ऐसी सरी
तिहुरे लोक परसिध कवीरा ॥^२

दोनों का उद्देश्य दिखलाना है कि मनुष्य का भला-बुरा होना उसके कुल या जाति पर निर्भर नहीं है, कुलीनता और अभिजात्य का गर्व झूठा है। जिसके कुल में गोब्रध होता था, शेख शहीद और पीर माने जाते थे, जिसके बाप ने इन सब कामों को किया, उसी कवीर ने ऐसा आचरण किया कि तीन लोक नौ खंड में प्रसिद्ध हो गया। अतएव निस्सन्देह कवीर मुसलमान कुल में उत्पन्न हुए थे।

स्वयं कवीर ने अपने मुसलमान होने का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, फिर भी वे अपने को जुलाहा कहते-कहते थकते नहीं हैं—

“जाति जुलाहा मति को धीर हरपि-हरपि गुण रमै कवीर ।”^३

“मेरे राम की अभय पद नगरी कहे कवीर जुलाहा ।”^४

“तू ब्राह्मण मैं कासी का जुलहा, चीहि न मोर गियाना ?”^५

“जाति जुलाहा नाम कवीरा, वनि-वनि फिरौ उदासी ।”^६

‘कहत कवीर मोहि भगत उमाहा’

द्वारा रज्जव को कवीर के सम्बन्ध में जो बातें मालूम हुई होंगी और जो केवल भक्तों की भावना मात्रा की और संकेत न बन करतीं, प्रामाणिक मानी जानी चाहिए। रज्जव का इन पंक्तियों को अपने संग्रह में रखना ही इस बात का सूचक है कि चाहे उनकी न हों, उन्हें वे झूठ नहीं समझते थे।

एक स्थान पर कवीर ने अपने को 'कोरी' भी कहा है—
परहरि काम राम कहि वौरे सुनि सिख बंधू मोरी ।
हरि को नाम अभै पद दाता कहै कवीरा कोरी ॥^१

'कोरी' हिन्दू होते हैं, वही मुसलमान हों तो 'जुलाहे' कहलत हैं। 'कोरी' यहाँ पर केवल पेशे का द्योतक होकर आया है, 'भोग' के साथ तुक का आग्रह उसके प्रयोग का प्रधान कारण है। उ ऐसा बंधन नहीं है. वहाँ उन्होंने 'कोरी' का प्रयोग नहीं के बराबर किया है। फिर भी इतने 'जुलाहों' के बीच में यह एकाध 'को कवीर के जुलाहेपन का पूरा भाष्य है। इससे पता चलता है 'कोरी' ही मुसलमान धर्म में दीक्षित हो जाने पर 'जुलाहे' गये। इससे यह भी पता चलता है कि जुलाहों (कोरियों) जुलाहा हुए अभी इतने अधिक दिन नहीं हुए थे कि 'को

१ क० ग्र०, पृ० २०५. ३४६

कोरी को काहू मरम न जाना । सब जग आन तनायो ताना ।
कहत कवीर कारगह तोरी । सूतै सूत मिलाये कोरी ॥

आदिग्रन्थ १ कग्रं, पृ०

के कोतवाल का पद मिलना इस बात की सूचना देता है कि कभी काशी में योग का बड़ा भारी प्रभाव था। जब स्वयं शिव ही योगिराज हैं, तब उनकी नगरी ही योग के प्रभाव से कैसे बच सकती थी !

गोरखपुर के आस-पास भी निस्सन्देह ही योग मार्ग का खूब प्रचार रहा होगा। गोरखपुर में योगियों का एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। जिन लोगों में से पहले पहल कवीर के अनुयायी हुए और जिन लोगों में उन अनुयायियों ने कवीर के मत के प्रचार की संभावना देखी, उनमें गोरखनाथ का विशेष आदर रहा होगा, नहीं तो उस बात की आवश्यकता हुई कि कवीर गोरखनाथ से कड़े प्रमाणित किये जायँ। बहुत से जोगी तो मुसलमान हो जाने पर भी अब तक जोगी ही बने हुए हैं। मिस्टर कूक के अनुसार संभवतः सन् १८९१ में पश्चिमोत्तर प्रांत और अवध के कुल १,२२,८०० जोगियों में से १,७२,९३३ मुसलमान जोगी थे।^१ गोरखनाथ का आदर सभी प्रकार के जोगियों में होता है। मेरी समझ से कदापि भी किसी प्राचीनतया कोरी किंतु तत्कालीन जुलाहा कुल के थे जो मुसलमान होने के पहले जोगियों का अनुयायी था। उनके कृत से तर्जान आदर से मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया गया था किन्तु अभी परम्परागत धर्म से उसका मानसी संबंध बूटती

नहीं ।^२ योग की जो बातें उनके कुल की मानसी-स्थिति का अभिन्न स्वरूप थीं वे छोड़ी भी कैसे जा सकती थीं । कबीर का यही कुल-परम्परागत मानसी स्वरूप उन्हें इस्लाम के विरोध में उभाड़ा करता था और हिन्दुओं की उच्च दार्शनिक भावनाओं का अभिनन्दन करने के लिए बाध्य करता था । अन्त में जब उन्होंने अपने विचारों का प्रचार आरम्भ किया तब उनकी 'अटपटी' वाणी में उसका स्पष्ट प्रतिरूप दिखायी दिया ।

कबीर के कुल के सम्बन्ध में इस दृष्टि से विचार करने से उनकी विचार-धारा की बहुत-सी बातें जो अब तक समस्या के रूप में प्रकट होती थीं, स्वयं ही हल होकर वास्तविक रूप में दिखायी देने लगेंगी । और, इस प्रकार कबीर का मुसलमान कुल में पालन-पोषण, मुसलमानी विचार-शैली के प्रभाव से प्रायः कोरा रहना, उच्च हिन्दू भावनाओं से श्रोत-प्रोत उनकी विचार-पद्धति, कुल साधारण हिंदू प्रथाओं और धारणाओं का विरोध तथा उनकी योग शब्दावली गर्भित उक्तियाँ सब, का सामंजस्य बिना किसी ऊहापोह के घटित हो जायगा ।

मीरावाई स उनका सम्बन्ध अनुकूलता का है, किन्तु बल्लभानार्य जी का सम्बन्ध कुछ भेदभाव-युक्त जान पड़ता है ।

उनके इस भेद-भाव का पता बल्लभ-संप्रदाय की पुस्तक 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' से चलता है । इस वार्ता-पुस्तक की इकतालीसवीं वार्ता में लिखा है कि एक बार गोविन्द दुवे नामक आचार्य महाप्रभु का एक 'निज सेवक' मीरावाई के घर ठहरा

१ 'राजस्थान में नाम मीराँवाई है । हिंदी में 'मीरा' चल पड़ा है ।

उसके स्थान पर फिर 'मीराँ' करना उचित नहीं जान पड़ता ।

जी के दर्शन करके वह मोरावाड़ी के गाँव आया। वहाँ हरिवंश व्यास आदि कई प्रतिष्ठित वैष्णव ठहरे हुए थे। किसी का आठ आठ किरा का दस, किसी को पंद्रह दिन हो गये थे। कृष्णदास ने आते ही कहा, 'मैं चलता हूँ'। मोरावाड़ी के बहुत रोकने पर भी वह न रुका तब मोरावाड़ी ने श्रीनाथ जी के लिए कई मुठरें भेंट देने की चाहीं। पर कृष्णदास ने लीं नहीं और कहा कि तू आचार्य महाप्रभु की सेवक नहीं होती है इसलिए हम तेरी भेंट हाथ से छुएँगे भी नहीं। यह कह कर वह चला दिया।

ऊपर के उद्धरण से स्पष्ट है कि वल्लभाचार्य जी के अनुयाइयों का उससे कुछ सीमा तक अवश्य ही इस कारण विरोध

१ "सो वे कृष्णदास शूद्र एक चेर द्वारिका गये हुते। सो श्री रणछोड़जी के दर्शन करि के तहां ते चले। सो आपन मोरांवाड़ी के गाँव आयौ, सो वे कृष्णदास मोरांवाड़ी के पर गये, तहां हरिवंश व्यास आदि के विशेष सह वेष्णव हुते। सो काहू को आये आठ दिन काहू को आये दश दिन काहू को आये पंद्रह दिन भये हुते। तिन की विदान भई हुती और कृष्णदास नें तो आवत ही कही जो हूँ तो चरूँगी। तब मोरांवाड़ी ने कही जो बैठो तब कितनेक महौर श्रीनाथ जी का देन लागी। सो कृष्णदास नें न लीनो और कश्यो जो तू श्री आचार्य जी महाप्रभून को नाहीं होत ताते तेरी भेंट हाथ ते छुँवंगो नाहीं। सो ऐसे कहि के कृष्णदास वहां ते उठि चले।"—'८४ वार्ता', पृ० ३४३; डाक्टर श्रीरंद्र वर्मा संकलित 'अष्टछाप', पृ० १९

था कि वह भी उनकी अनुयाइनी नहीं बनी। आरंभिक अवस्था में प्रत्येक संप्रदाय में स्वभावतया प्रचार और प्रदर्शन का भाव अधिक रहता है। वल्लभ-संप्रदाय भी इस बात का अपवाद नहीं था, यह स्वयं कृष्णदास अधिकारी के शब्दों से स्पष्ट है। कृष्णदास जब मीराबाई को भेंट फेर कर चला आया तो एक वैष्णव ने उससे कहा, तुम ने श्रीनाथ जी की भेंट नहीं ली। कृष्णदास ने कहा, भेंट की क्या पड़ी है। मीराबाई के यहाँ जितने भक्त बैठे थे उन सब की नाक नीची कर के भेंट फेरी है। इतने एक जगह कहाँ मिलते। ये भी जानेंगे कि एक समय आचार्य महाप्रभु का सेवक आया था। उसने भी जब भेंट नहीं ली तो उसके गुरु की तो बात ही क्या होगी।^१

जान पड़ता है कि मीराबाई को वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित करने के कुछ प्रयत्न हुए थे। बाद को तो वल्लभ-संप्रदाय को मेवाड़ में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई। '२५२ वार्ता' के अनुसार मीरा की देवरानी अजबकुँवरबाई को विठ्ठलनाथ ने अपनी

१ "तत्र कृष्णदास ने कहा जो भेंट की कहा है परि मीराबाई के यहाँ जितने सेवक बैठे हुते तिन सबकी नाक नीचे करि के भेंट फेरी है। इतने इक ठोरे कहाँ मिलते। यहहू जानेंगे जो एक बेर शूद्र श्री आचार्य जी महाप्रभून को सेवक आयौ हुतो ताने भेंट न लीनी तो तिनके गुरु की कहा बात होयगी।"—'८४ वार्ता', पृ० ३४३; 'अष्टछाप', पृ० १९

शिष्या बना लिया' और श्रीनाथ का मंदिर बन जाने पर औरंगजेब के समय में तो मेवाड़ वल्लभ-संप्रदाय का एक महत्त्वपूर्ण केंद्र ही हो गया। किंतु स्वयं मीरा को दीक्षित करने का कोई प्रयत्न सफल नहीं हुआ। मीराबाई का पुरोहित रामदास भी '८४ वैष्णवकी वार्ता' के अनुसार वल्लभ-संप्रदाय में दीक्षित हो गया था। पर वह तब भी दीक्षित नहीं हुई। एक दिन रामदास मीराबाई के ठाकुर जी के आगे कीर्तन कर रहा था। उसने कीर्तन में आचार्य महाप्रभु का पद गाया। उसके समाप्त होने पर मीराबाई ने कहा, श्री ठाकुर जी का पद गावो। इस पर आचार्य महाप्रभु का अपमान समझ कर रामदास बड़ा क्रुद्ध हुआ और मीराबाई को बुरा-भला कहता हुआ उसके यहाँ से अपना कुटुंब ले कर चला गया। मीराबाई के बुलाने पर भी वह उसके यहाँ न गया। मीराबाई ने घर बैठे ही रामदास को वृत्ति देने की चाही, पर उसने यह कह कर नहीं ली कि आचार्य महाप्रभु पर तेरी 'समत्व' दृष्टि नहीं है, तेरी वृत्ति लेकर हमें क्या करना है? हमारे तो सर्वस्व आचार्य महाप्रभु ही हैं।^२

१ '२५२ वार्ता', पृ० १३०

२ "सो एक दिन मीराबाई के श्री ठाकुर जी कीर्तन करत हुते सो रामदास जी श्री आचार्य जी महाप्रभुन के पद गावत हुते तब मीराबाई बोली जो दूसरे पद श्री ठाकुर जी को गावो तब रामदास जी ने कछो मीराबाई सो जो अरे दारी रांड यह कोन को पद है यह कहा तेरो

ये उद्धरण इतने विस्मयकारक हैं कि सहसा इन पर विश्वास करने का जो नहीं चाहता। इसलिए देखना चाहिए कि 'वार्ता' और उसमें दी हुई 'घटनाएँ' कहाँ तक प्रामाणिक हैं।

'वार्ता' की ऐतिहासिक प्रामाणिकता को जाँचने का कोई विशेष साधन उपलब्ध नहीं है। उसका रचयिता कौन है, इस का भी निश्चित ज्ञान हमें नहीं है। स्वयं 'वार्ता' में कहीं उसके लेखक का नाम नहीं दिया हुआ है। इधर कुछ लोगों का विश्वास चला आता रहा है कि यह चल्लभाचार्य के पौत्र और विठ्ठलनाथ के पुत्र गोकुलनाथ की लिखी हुई है जिनका रचना-काल पंडित रामचंद्र जी शुक्ल के अनुसार सं० १६२५ से १६५० तक माना जा सकता है। (हिंदी-शब्दसागर, भूमिका, पृ० २०९) सं० १९०९-१९११ की नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट में हरिराय

खसम को मूढ़ है जो जा आज ते तेरो मुँहडो कबहूँ न देखूँगी तब तहां ते सब कुटुम्ब को लेके रामदास जी उठि चले तब मोरांवाई ने बहुतेरे कस्यो परि रामदास जी रहे नाहीं...मोरांवाई ने बहुत बुलाये परि वे रामदास जो आये नाहीं तब घर बैठे भेंट पत्राई सोई फेरि दीनी और कस्यो जो रांड तेरो श्री आचार्य जी महाप्रभून ऊपर समत्व नाहीं जो हम को तेरी वृत्ति कहा करनी है। हमारे तौ श्री आचार्य जी महाप्रभू सर्वस्व हैं।"—८४ वार्ता, पृ० २०७-२०८; 'पुष्टि द्वाव' नामक निबंध में भी जो '२५२ वैष्णवन की वार्ता' के अंत में छपा है इस प्रसंग का उल्लेख है।—पृ० ५१९-५२०

के नाम से एक 'चौरासी वैष्णवन की वार्ता' (सं० ११५-वी) का उल्लेख है। आदि-श्रंत के अवतरणों से मालूम पड़ता है कि यह भी थोड़े से भेद से गोकुलनाथ की समझी जानेवाली वार्ता ही है। पर रिपोर्टवाली '८४ वार्ता' के आदि-श्रंत में भी रचयिता का नाम नहीं दिया हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, हरिराय आचार्य जी का शिष्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ तथा पौत्र गोकुलनाथ दोनों का समकालीन था। '२५२ वैष्णवन की वार्ता' में श्री हुई गंगावाई क्षत्राणी की वार्ता से पता चलता है कि गंगावाई की मृत्यु के समय सं० १७३६ में हरिराय विद्यमान था। उस समय यह भेवाड़ में श्रीनाथ के मंदिर का महंत था। इसमें नंदेद नर्ही कि हरिराय तथा गोकुलनाथ ने ब्रजभाषा गद्य में अच्छी टीकाएँ लिखी हैं, जिन की भाषा 'वार्ता' ही के समान सुंदर और मजीब है। परंतु हरिराय के 'भावना', 'संन्यास-निर्णय', 'निरोध लक्षण' और 'शिचा-पत्री' तथा गोकुलनाथ के 'सर्वोत्तम गोत्र टीका' आदि ग्रंथों में लेखकों के नाम स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं, जब कि वार्ताओं में किसी का नाम उस प्रकार नहीं दिया गया है। ऐसा जान पड़ता है कि 'वार्ता' लिखने एक व्यक्ति की लिखी हुई नहीं है। संभवतः बहुत सी वार्ताएँ मृत-काल में स्वयं आचार्य जी के मुख से सुनी गई होंगी। कुछ अन्य लोगों ने अपनी आँसों देगी कही होंगी। फिर वार्ताओं में वार्ताकार स्वयं आधी होंगी। गोकुलनाथ या हरिराय

विलास सारडा और महामहोपाध्याय डाक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, राजस्थान के ये तीनों प्रमुख इतिहासविद् उसे एकमत हो महाराणा साँगा के ज्येष्ठ पुत्र कुमार भोजराज की स्त्री मानते हैं। 'वार्ता' भी समय की दृष्टि से इसको पुष्ट करती है। मीरा के संबंध में अबतक जो कुछ ऐतिहासिक तथ्य उपलब्ध हैं, उनसे इतना निश्चित है कि मेड़ते के राव वीरमदेव के छोटे भाई रतनसिंह की इस पुत्री का जन्म सं० १५५५ के लगभग, विवाह १५७३ के लगभग, वैधव्य १५७५ के लगभग, और निधन १६०३ के लगभग हुआ।^१ इस प्रकार 'वार्ता' में दी हुई ऊपर की घटनाओं के सत्य होने में कोई ऐतिहासिक व्यवधान नहीं है। क्योंकि मीरा और आचार्य जी दोनों समकालीन थे।

'वार्ता' के ऊपर दिए हुए उद्धरणों से मीराबाई के महत्त्व पर बहुत प्रकाश पड़ता है। वह सब संतों का, संप्रदाय-भेद का विचार किए बिना, समान-रूप से आदर करती थी। उसकी बड़ी उदार धार्मिक भावना थी। बल्लभ-संप्रदाय की न होने पर भी उसने उनके मंदिर में भेंट भेजनी चाही। उसके विरोधियों ने भी उसे कटुवचन नहीं कहलाए। वह बड़ी सहिष्णु थी। कृष्णदास ने उसे नोचा दिखाने का प्रयत्न किया, रामदास ने उसे गालियाँ नरु दीं, फिर भी उसे उद्विग्न नहीं कर सके। रामदास को तो बड़ घर बैठे घृत्ति देना तक की तैयार थी। उस

१. भाग्य, 'गणपताने का इतिहास', पृ० ६५०-६५१

के महत्त्व को वल्लभाचार्य जी स्वयं जानते होंगे । किसी सामान्य व्यक्ति को दीक्षा के लिए तैयार न करा सकने पर उनके भक्तों को उतनी खीझ न होती जितनी 'वार्ता' से प्रकट है ।

वल्लभाचार्य जी भी उस काल के बहुत बड़े महात्मा थे । मीरा के साथ उनके भक्तों के वेढंगे व्यवहार में उनका हाथ कदापि नहीं हो सकता, किंतु मीरा से उनका अवश्य ही गहरा तात्त्विक भेद था, जिसने शिष्यों में जाकर दूसरा रूप धारण कर लिया । गोविंद टुवे की वार्ता से पता चलता है कि यह भेद इतना गहरा था कि उस के कारण मीरावाह से अपने अनुयाइयों का संसर्ग भी वल्लभ-संप्रदाय के कुछ आप्तजन अवांछनीय समझते थे ।

मीरावाह ने भी मतभेद को छिपाया नहीं है । उसकी ओर से हमारे सामने दो अर्थ-गर्भित तथ्य हैं । जब कि सूरदास सरीखे महात्मा जो स्वयं दीक्षा देते थे, जिनके स्वयं बहुत से भक्त थे, वल्लभाचार्य जी के सेवक हो गए तब भी मीरा ने उनसे दीक्षा नहीं ली । दूसरे, वल्लभाचार्य जी के पदों को मीरा अपने ठाकुर जी के उपयुक्त नहीं मानती थी । परिणाम इससे यह निकलता

है कि मीरावाई पर पहले ही से कोई गहरा रंग चढ़ा हुआ था जो वल्लभ-संप्रदाय के रंग से कदापि मेल नहीं खाता था। इन प्रकार '८४ वार्ता' के ये उल्लेख मीरा के मत को समझने में प्रकारांतर से हमारी मदद करते हैं।

वल्लभाचार्य जी के पुष्टिमार्ग में कृष्ण-भक्ति ही सार वस्तु है। इसी लिए वल्लभ-संप्रदायी कवियों ने कृष्णावतार की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। 'अष्टछाप' के यशस्वी कवियों की रचनाएँ जिन्होंने पढ़ी हैं, वे इस बात को जानते हैं।^१

इसमें संदेह नहीं कि प्रत्यक्षतः मीरावाई भी कृष्णभक्त है।^१ उसकी वाणी में स्थल-स्थल पर कृष्ण का उल्लेख है। उसका बहुत-सा अंश कृष्ण ही को संबोधित कर कहा गया है। मीरा ने स्वयं कहा है कि 'भोरमुकुटधारी' 'नंदनंदन' ही मेरे पति हैं। 'गिरिधर गोपाल' के अतिरिक्त किसी दूसरे से वह अपना संबंध ही नहीं मानती थी।^१ कृष्ण ही की बाँकी-साँवली छत्रि, टेढ़ी अलकों और त्रिभंगी मूर्ति पर उसकी लुभाई हुई आँखें अटकी रहती थीं।^२

। अपने आप को गोपी कल्पित कर वह भाग्यशालिनी गोपियों के भाग्य पर ईर्ष्या करती है—

श्याम म्हांसूँ ऐंडो डोलै हो ।

औरन सूँ खेलै धमार म्हांसूँ मुखहू ना वोलै हो ॥

म्हारी गलियाँ ना फिरै वाकें आँगन डोलै हो ।

म्हारी अंगुली ना छुवै वा की बहियाँ मोरै हो ॥

म्हारो अंचरा ना छुवै वाको घूँघट खोलै हो ।

मीरा के प्रभु साँवरो रंग रसिया डोलै हो ॥^१

परन्तु यदि गहरे पैठ कर देखा जाय तो जान पड़ेगा कि उसका एतना ध्यान अवतार की ओर नहीं है जितना ब्रह्म की ओर । जिस नंद-नंदन गिरिधर गोपाल के विरह में वह 'अँसुअन की माला^२ पोया करती है, जिसकी वाट जोहते उसकी 'छमासी' रात बीतती है^३, जिसके रूप पर मुग्ध होकर उसे लोक परलोक कुछ नहीं सुहाता^४, जिससे वह अपनी बाँह मुड़वाना और घूँघट

टेढ़ी कटि टेढ़ी करि मुरली टेढ़ी पाग लर लटकै ।

मीरा प्रभु के रूप लुभानी रिरिधर नागर नट के ॥

खुलवाना चाहती है^१, जिसके लिए वह घायल होकर तड़पती फिरती है^२, जिसको वह 'छप्पन भोग' और 'द्वत्तीसों व्यंजन' परसती है^३ जिस 'मिठ-बोला' के लिए विकलता ने उसको 'दिल की घुंडी' खोली है^४ वह पूर्ण ब्रह्म है।^५ उसी निर्गुण का सुरमा वह अपनी आँखों में लगाती है।^६ वह उसे पूर्ण-रूप से अपने अन्दर देखती है।^७ उस निर्गुण ब्रह्म का 'गगन-मंडल'

१ म्हारी अँगुली ना छुवै वाकी वहियां तोरै हो ।

म्हारो अँचरा ना छुवै वाको घूँघट खोलै हो ॥—वही,

पृ० ५३, २

२ घायल फिरूँ तड़पती पीर नहिं जाने कोइ ॥—वही, पृ० ५१-५२

३ छप्पन भोग छत्तीसौं विंजन सनमुख राखो थाल जो ।—वही,

पृ० ५२

४ साजन घर आवो मीठा बोला ।.....

तुम देख्यां विन कल न परत है, कर धर रही कपोला ।

मीरा दासी जनम जनम की, दिल की घुंडी खोला ॥—वही,

पृ० १७, ३२

५ मात पिता तुम को दियो तुम हीं भल जानो हो ।

तुम तजि और भतार को मन में नहिं आनो हो ।

तुम प्रभु पूरन ब्रह्म पूरन पद दीजै हो ।—वही, पृ० ८, १२

६ सुरत सुहागिन नार...निरगुन सुरमो सार ।—वही, पृ० ३१, ७२

७ मेरे पिया मोहिं माहिं वसत हैं, कहूँ न आती जाती ।—वही,

पृ० १०, १६

में निवास है !^१ गगन-मंडल में बिछी हुई सेज पर ही प्रिय को मिलने की उत्कंठा वह अपने मन में रखती है ।^२ सुरति-निरति का वह दीपक बनाती है, जिसमें प्रेम के बाजार में विकने वाला (अर्थात् प्रेम का) तेल भरा रहता है और मनसा (इच्छा) की बत्ती जलती रहती है ।^३ उसका प्रेम-मार्ग उसे ज्ञान की गली में ले जाता है ।^४ उसका मन सुरत की आसमानी सैर में लगा हुआ है ।^५ वह अगम के देस जाना चाहती है, जहाँ

औरों के पिय परदेस बसत हैं, लिख लिख मेजें पाती ।

मेरे पिया हिरदे में बसत हैं गूँज करूं दिन राती ॥—वही,

पृ० २७, ६२

१ गगन-मंडल में सेज पिया की, किस विध मिलणा होय ।—

वही, पृ० ४, ३

२ तेरा कोइ नहीं रोकनहार, भगन होय मीरा चली...।

ऊँची अटरिया लाल किवडिया, निरगुण सेज विछी...।

सेज सुखमणा मीरा सोवै, सुभ है आज धरी ॥—वही, पृ० ११, १८

३ सुरत निरत का दिवला सँजोले, मनसा की कर चाती ।

प्रेम हटी का तेल बना ले जगा करे दिनराती ॥—वानी,

पृ० १०, १६

४ मान अपमान दोउ धर पटके निकली हूँ ज्ञान गली ।—वही,

पृ० ११, १३

५ मीरा मनमानी सुरति सैल असमानी ।—वही, पृ० १९, ४१

प्रेम की वापी में शुद्ध आत्मा हंस क्रोड़ा किया करते हैं।^१ राणा को डाट कर वह कहती है कि मैं आज को नहीं तब को हूँ जब से सृष्टि बनी है।^२ कत्रोर के मार्ग को भाँति उसको भी ऊँची-नीची रपटीली राह है, जिसे वह 'मोना पंथ' (सूक्ष्म ज्ञान-मार्ग) कहती है।^३ निर्गुणियों का अभ्यास मीरा के निम्न-लिखित पद में आ गया है—

नैनन वनज वसाऊँ रो जो मैं साहिव पाऊँ रो ।

इन नैनन मोरा साहव वसता डरती पलक न लाऊँ रो ।

त्रिकुटी महल में बना है मरोखा तहां से भाँकी लगाऊँ रो ॥

सुन्न महल में सुरति जमाऊँ सुख की सेज विछाऊँ रो ।

मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बार बार बलि जाऊँ रो ॥^४

१ चलो अगम के देस काल देखत डरै ।

वहां भरा प्रेम का हौज हंस केलां करै ॥—वही, पृ० १३

२ आज काल की मैं नहिं राणा जद यह ब्रह्मण्ड छायो ।—वही,

पृ० ६७, ३२

३ ऊंची नीची राह रपटीली, पांव नहीं ठहराइ ।

सोच सोच पग धरुं जतन से बार बार डिग जाइ ॥

ऊंचा नीचा महल पिया का हम सेचढ़्या न जाइ ।

पिया दूर पंथ ह्यारा झीणा सुरत झकाला खाइ ॥—वही,

पृ० २५

४ वही, पृ० ३०, ६८ । निर्गुणियों के अभ्यास के लिए देखिए

इसमें त्रिकुटी-ध्यान और भ्रू-मध्य-दृष्टि की ओर स्पष्ट संकेत है। मोरा का ध्येय है 'पूरन पद'।^१ निरंजन का वह ध्यान करती है।^२ अनाहत नाद को सुनाती है^३ और 'आदि अनादि साहव' को पाकर भवसागर से तर जाती है।^४

यह कवीर की निर्गुण-भावना के सर्वथा मेल में है। उसी तात्पर्य के सहित कवीर की प्रायः सारी शब्दावली मोरा में मिलती है। कवीर से यदि मोरा में कोई अन्तर है तो यह कि मोरा को मूर्तियों से चिढ़ नहीं। प्रियादास^५ ने तो उसे अपूर्व

बड़धवाल-निर्गुण स्कूल आव् हिंदी पोयट्री, (इण्डियन बुकशॉप, बनारस), पृ० १३१-१५२

१ तुम प्रभु पूरन ब्रह्म, पूरन पद दीजै हो।—बानो, पृ० ८, १२

२ जा को नाम निरंजन कहिए, ताको ध्यान धरुंगी हो।—वही,

पृ० २४, ५४

३ त्रिन करताल पखावज बाजे अनहद की झंकार रे।—वही,

पृ० ४२, १

४ साहव पाया आदि अनादी नातर भव में जाती।—वही,

पृ० १, १

५ मेरतौ जनम भूमि झूमि हित नैन लगे,

पगे गिरधारीलाल पिताहीं के धाम मैं।

राना कै सगाई भई करी ब्याह सामा नई,

गई मति बूढ़ि वा रँगीले धनश्याम मैं।

मूर्ति-पूजक माना है। उसके अनुसार, पिता के घर में ही उसका गिरिधर लाल की मूर्ति से प्रेम हो गया था। जब विवाहोपरांत पतिगृह जाने लगी तब उसने सब वस्त्राभूषण छोड़ माता-पिता से गिरिधर लाल की मूर्ति माँगी, उसी को अपना पति ममका और और अन्त में उसी में समा गई।' कवीर के साथ

भाँवरें परत मन साँवरे रूप माँझ
ताँवरें सी आवैं चलिबै कां पति ग्राम में ।

पूछैं पिता-माता "पट आभरन लीजियै जू"

लोचन भरत नीर कहा काम दान में ।

—रूपकला-संपादित "श्रीभक्तमाल" (नवलकिशोर प्रेस,

लखनऊ, १९२६), पृ० ७२०

१ देवौ गिरिधरलाल जौ निहाल कियौ चाहौ,

और धन माल सब राखिए उठाय कै ।

बेटी अति प्यारी, प्रीति रंग चढ्यो भारी,

रोय मिली महतारी, कही "लीजिये लदायकै॥"

डोल पधराय दग दग सो लगाय चलीं,

सुख न समाय चाय, प्रानपति पाय कै ।

—वही, पृ० ७२६

सुन विदा होन गई राय राणछोर जू पै

छाँडौ राखौ हीन लीन भई नहीं पाइयै ।

—वही, पृ० ७२८

इस सादृश्य और भेद का कारण यह है कि उसने रामानन्द के शिष्य और कबीर के गुरुभाई रैदास से अथवा उसकी वाणी से आध्यात्मिक प्रेरणा प्राप्त की थी। मीरा के नाम से मिलनेवाली वाणी में कई स्थान पर रैदास उसका गुरु बताया गया है।^१ कबीर के समकालीन और उससे पहले के

१. रैदास संत मिले मोहि सतगुरु दीन्ही सुरत सहदानी ।

वानी, पृ० २०, ४१

गुरु रैदास मिले मोहि पूरे धुर से कलम भिड़ी ।

सतगुरु सैन दई जव आके जोत में जोत रली ।

वही, पृ० ३६, १४

मीरा नै गोविंद मिल्या जी गुरु मिलिया रैदास ।

वही, पृ० ३७, १

रैदास का समय निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। उसे पीपा (लगभग १३५०-१४०० सं०) का समकालीन और रामानन्द का शिष्य मानते हुए इस संबंध में जो कुछ अनुमान लगाया जा सकता है उस से, मेरी सम्मति में, उसका मीराबाई का समसामयिक होना भी घटित नहीं होता। इसलिये संभव है कि मीराबाई ने उसके मुख से शिक्षा ग्रहण न कर उसकी रची 'वाणी' से शिक्षा ग्रहण की हो। गरीबदास (लगभग सं० १७७४-१८३५) ने कबीर को और चरनदास (जन्म लगभग सं० १७६०) ने 'भागवत' के शुकदेव को अपना गुरु माना है। इन असमसामयिक गुरुओं के स्पष्ट उदाहरणों को हम इसी अर्थ में ठीक

कुछ संतों तथा कबीर के अतिरिक्त रामानंद जी के अन्य शिष्यों की यह विशेषता जान पड़नी है कि वे निर्गुण के प्रति अपनी ऊँची से ऊँची अध्यात्म-भावना को मूर्तियों के समक्ष प्रकट करने में कोई प्रत्यक्ष विरोध नहीं मानते थे। नामदेव विठावा की मूर्ति के सामने घुटने टेक कर निर्गुण निराकार को स्तुति करता था।^१ इसी प्रकार रामानंद जी के अन्य शिष्य शालग्राम के प्रति आदर-भावना रखते थे। मीरा में भी यही बात थी। उस पर निर्गुण-भावना का रैदासो रंग चढ़ा हुआ था। उसको सगुण-भावना निर्गुण-भावना का प्रतीक मात्र थी। वह अवतार भावना को विरोधिनी नहीं है परंतु उधर उसका उतना ध्यान नहीं। बल्लभ-संप्रदाय के कवियों की भाँति उसका उद्देश्य कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना नहीं, अपनी अनुभूति का प्रकाशन करना था। वह परब्रह्म-कृष्ण की गोपी थी। कबीर की भाँति वह प्रेम-लक्षणा अर्थात् दशधा भक्ति की माननेवाली थी, जो निर्गुण-मार्गियों की विशेषता है। जो कुछ रैदास ने राम का नाम लेकर कहा है वह मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर। कदाचित् कृष्ण-नाम से प्रेम का कारण यह हो कि वह जन्मी भी कृष्ण-भक्त परिवार

समझ सकते हैं। रैदास और मीराबाई के समय पर विचार एक अलग विषय है।

१. फ़र्क़ुहर, 'आउटलाइन ऑफ़ दि रिलिजस लिटरेचर ऑफ़ इंडिया', पृ० ३००

‘मीराबाई’—नाम

(सरस्वती से उद्धृत)

मीराबाई के व्यक्तित्व के कारण उसका नाम हमारे लिए इतना प्रिय हो गया है कि साधारणतया हमें यह ध्यान भी नहीं आता कि उसमें कोई असाधारणता है और उसके सम्यन्ध में सोच-विचार की भी आवश्यकता है। वरन्तु यदि इस नाम पर थोड़ा भी विचार किया जाव तो पता चलेगा कि यह नाम है बहुत असाधारण।

इस नाम पर विचार करने के पहले यह उल्लेख करना आवश्यक है कि राजस्थान में जहाँ की रहनेवाली मीराबाई थी, नाम का उच्चारण मीराँबाई है। ‘रा’ का यह आनुनासिक उच्चारण व्याकरण की किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आया है अथवा केवल राजस्थानी की उच्चारण-मात्र की एक विशेषता है, निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। राजस्थानी में विभक्तियों के पहले बहुवचन में विकारीरूप बहुधा आँ-कारवाले होते हैं, जैसे “धण संभालै कंचुवो प्री मूछाँ रा बालि” में मूछाँ है। मुझे यह भी बतलाया गया है कि जैसे मीरां का मीरां होता है, वैसे हीरा का हीरां। इस ‘आँ’-कार का चाहे जो कारण हो, ‘मीरा’ और ‘मीरां’ है मूलतः एक ही चीज़। हिन्दी में मीराबाई चलता है,

फिर से मीराँवाई चलाने का प्रयत्न करना उचित नहीं। विभिन्न भाषाओं में एक ही नाम के अलग अलग उच्चारण देखे जाते ही हैं। मीरां से मीरा में जो परिवर्तन हुआ है, वह अपने आप हुआ है, किसी के सज्ञान प्रयत्न से नहीं।

ऊपर मैंने इस नाम की असाधारणता का उल्लेख किया है। यह बात नहीं कि हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग ही न हो। है तो, किन्तु बहुत विरल। अभी तक मुझे बाबू श्यामसुन्दरदास जी के द्वारा सम्पादित 'कबीर-ग्रंथावली' में आई हुई निम्नलिखित तीन साखियों तथा दादू के एक पद में 'मीराँ' शब्द का प्रयोग मिला है—

चौहट्टे चिन्तामणि चढ़ी, हाड़ी मारत हाथि ।

मीरां मुझ सूं मिहर करिइव, मिलौं ना काहू साथि ॥

चिन्तामणि (आत्मा मायाविष्ट होकर जीव के रूप में) खुले बाजार (जगत् में) विकने आई है। इसी से डाकू (यम) उस पर हाथ मार रहा है। हे प्रभू ! मुझ पर दया कर। मैं किसी के साथ मिलना नहीं चाहता (मायोपाधिक जगत् में नहीं आना चाहता, निर्लेप रहना चाहता हूँ जिससे जन्म-मरण के बन्धन से छूट जाऊँ ।)

कबीर चाला जाइ था, अगैँ मिल्या खुदाइ ।

मीरां मुझ सूं यूँ कहा, किन फुरमाई गाइ ॥

कबीर परम्परागत मार्ग पर चला जा रहा था कि आगे खुदा

मिल गया। प्रभु ने मुझसे इस प्रकार कहा—‘गो (-वध) की
 धाहा किसने दी है ?’

हज कावे हूँ हूँ गया, केती बार कवीर ।

मीराँ मुझमें क्या खता, मुखां न बोलै पीर ॥

(कवीर कभी हज्ज करने तो गये नहीं थे। भीतरी भाव को ही वे असली हज्ज मानते थे। इसी लिए उनका कथन है कि मैं न जाने कितनी बार कावे की हज्ज को हो आया हूँ। फिर भी यदि (दुनियावी) पीर मुझसे बोलता नहीं, (मुझे भक्त नहीं मानता) तो हे प्रभु ! इसमें मेरा क्या दोष ? (दोष पीर की बहिर्मुख वृत्ति का है। साखी का उद्देश्य बहिर्मुख कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करना है।)

इन साखियों में, जैसा उनके साथ दिये हुए अर्थों से स्पष्ट है, ‘मीराँ’ का अर्थ प्रभु या ईश्वर जान पड़ता है। इस शब्द के माने मीर भी हो सकते हैं (मीर के सम्बन्ध में आगे चलकर कुछ कहने की आवश्यकता पड़ेगी)। परन्तु वह इनमें खपता नहीं है। दूसरी साखी ‘मीराँ’ का अर्थ ‘हे मीरो !’ मानने में बाधक नहीं, परन्तु उसका अर्थ ईश्वर मानने में भी वह अड़चन हीं डालती। तीसरी में उसका अर्थ ईश्वर लगाना ही अधिक गत है क्योंकि अन्यथा ‘पीर’ के विरुद्ध अपील सामान्य मीर पास ले जाने के कोई माने नहीं। पहली साखी में तो ‘मीराँ’ माने स्पष्ट ही ईश्वर हैं। बिना उसके यह माने लगाये उक्त

साखी का अर्थ ही नहीं बैठ सकता । इसलिए 'मीराँ' के माने हुए 'प्रभु' और 'मीराँवाई' के 'प्रभु-पत्नी', 'परमात्मा की स्त्री' ।
और जो

मेरे तो गिरधर गुपाल, दूसरा न कोई ।

जा के सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई ॥

की तान से परिचित है वह जानता है कि यह कितना सच है ।

दादू के पद में तो मीराँ शब्द का यह प्रभु-परक अर्थ इतना स्पष्ट है कि किसी प्रकार के संदेह के लिए स्थान ही नहीं रह जाता ।

अब प्रश्न यह उठता है कि यह मीराँ शब्द है कैसा ? वह किसी अन्य भाषा का तत्सम या सद्भव है या देशज ? राजस्थान के एक प्रमुख विद्वान् से मैंने जब मीरावाई नाम के सम्बन्ध में पूछा तब उन्होंने कहा कि यह खास राजस्थानी का शब्द है । परन्तु उस दशा में उसका व्युत्पत्ति-सम्मत अर्थ क्या होगा, यह उन्होंने कुछ नहीं बताया । कवीर-वानी के कवीर-ग्रन्थावली के ढंग के अधिकांश हस्तलेख या तो राजस्थान में, या किसी राजस्थानी के लिए या किसी राजस्थानी के द्वारा लिखे मिलते हैं इसलिए यदि मीराँ राजस्थानी का अपना शब्द है तो उसका मूल चाहे

* दर्ई दाना दिलदार मेरे कान्हा...

नेक नजर मेहर 'मीराँ' बंदा मैं तेरा ।

दादू दरवार तेरे खूब साहब मेरा ॥

—म० म० प० गौरीशंकर हीराचंद ओझा

जो हो, यही अधिक संभव है कि जिस अर्थ में उसका प्रयोग कवीर-ग्रन्थावली में हुआ है, राजस्थानी में भी उसका वही अर्थ होगा। राजस्थानी शब्द मानने पर भी उसका मूल कहीं से ढूँढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि स्वयं राजस्थानी बोली में इस नाम के अतिरिक्त कहीं उसका प्रयोग नहीं मिलता जिससे हम उसे राजस्थानी का मूलतः अपना अथवा देशज शब्द मान सकते। किसी शब्द को देशज मानने का भी अर्थ कभी कभी यही होता है कि हम उसका मूल नहीं जानते।

हिन्दू नारी का नाम होने के कारण पहली आशा यही होती है कि इसका मूल भारतीय होगा। परन्तु मीरा या मीराँ को संस्कृत से निकालना बहुत खींचतान से ही सम्भव हो सकता है। संस्कृत-कोशों में एक शब्द 'मीर' आता है, जिससे इसकी व्युत्पत्ति सम्भव हो सकती है। सिद्धांत कौमुदी में फेंकने के अर्थ में (प्रक्षेपणे) डुमिन् धातु से क्रन् प्रत्यय लगा कर इसकी सिद्धि की गई है। थियोडोर और वेन्फी ने इसे 'मी' धातु से निकाला है। मोनियर विलियम्स के और सेंट पीटर्सबर्गवाले तथा अन्य कोशों में सब जगह अर्थ सागर दिया गया है। (प्रभु, ईश्वर) नारायण का निवास सागर है। अतएव सम्भवतः बड़ी तोड़-मरोड़ के बाद मीरा के माने नारायण या ईश्वर लग सके। फिर भी संस्कृत में मीर शब्द का कहीं साहित्य में वास्तविक प्रयोग न मिलने से यही कहना पड़ता है कि इससे शायद ही मीरा बना

हो। कोशों में सिद्धान्त-कौमुदी से यह शब्द लिया गया जान पड़ता है। वहाँ उणादिप्रकरण में उसका उल्लेख हुआ है। यह तो कहा नहीं जा सकता कि यदि कहीं साहित्य में उसका प्रयोग नहीं मिलता तो वह कभी बोल-चाल में भी प्रयुक्त न होता रहा होगा, अन्यथा वह व्याकरण में ही कैसे आता। किन्तु यह शब्द अब इतना अपरिचित हो गया है कि उसे सहसा सुनते ही संस्कृत के विद्वान् भी संस्कृत का मानने को तैयार नहीं होते। ऐसे शब्द से निकले हुए शब्द का प्रयोग हिन्दी में भी केवल कवीर और दादू में मिले, इसकी कम सम्भावना है।

* इस सम्बन्ध में एक बहुत रोचक तथ्य प्रकाश में आया है। लखनऊ-विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष तथा फ्रेञ्च-भाषा के अध्यापक श्रीयुक्त के० ए० एस० आयर ने बताया है कि फ़रासीसी भाषा में मैर (mer) सागर के अर्थ में अब भी प्रयुक्त होता है। भूमध्य सागर के लिए फ़रासीसी पर्याय है Law Mer Meditteranee (the sea Mediterranean)। इटालियन भाषा में भी इससे मिलते-जुलते शब्द का सागर के अर्थ में प्रयुक्त होना कहा जाता है। इससे भी यही पता चलता है कि व्याकरण में निराधार ही इस शब्द का उल्लेख नहीं हुआ है। संस्कृत तथा योरपीय भाषाओं के बहुत-से शब्द एक ही मूल से निकले हुए हैं। संस्कृत के 'मीर' और फ़रासीसी 'मैर' का भी एक ही मूल जान पड़ता है। हो सकता है कि संस्कृत के क्षेत्र में वह बोलचाल ही तक सीमित रह गया हो, साहित्य में न आ पाया

तो क्या यह शब्द विदेशी है ? फ़ारसी में एक शब्द 'मीर' है, जिससे इसकी व्युत्पत्ति सम्भव हो सकती है। फ़ारहंगे अनंद-राज में मीर अमीर या मीरह का संकुचित रूप माना गया है। तेहरान से प्रकाशित एस० हेम के फ़ारसी-अँगरेज़ी-कोष में इसकी निरुक्ति अमीर से की गई है। माने दोनों कोषों में एक-से हैं। मीर शुद्ध वंश के सैयदों के नामों के पहले आदरप्रदर्शन के लिए जोड़ा जाता है और उसके माने सरदार या मालिक के होते हैं। यही अर्थ हिन्दी-शब्दसागर में भी दिया गया है। डा० ताराचन्द के एक लेख में शाह मीरां जी शम्सुल उश्शाक का जिक्र आया है। मैंने उनसे पूछा कि इस नाम में आया हुआ 'मीरां' क्या है। उन्होंने उत्तर में लिखा कि यह मीर का बहुवचन है। यह व्युत्पत्ति कवीर-ग्रंथावली तथा दादू वानी मिलनेवाले प्रयोगों के विरुद्ध भी नहीं जाती। यद्यपि इस्लाम में अल्लाह के सम्बन्ध में 'मीर' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी लाक्षणिक प्रयोग से परमात्मा को मालिक कह सकते हैं, विशेषकर वे जो

हो। आयर महोदय तो यह सम्भव समझते हैं कि इस शब्द का मूल विदेशी है और सम्भवतः यवनों (ग्रीकों) के संसर्ग से यह संस्कृत में गृहीत हुआ है। संस्कृतकोशों का यह 'मीर' चाहे भारतीय हो अथवा विदेशी, उससे 'मीरा' का कोई सम्बन्ध नहीं जान पड़ता।

(यह Mer शब्द लैटिन से आया है और लैटिन से निकली सभी भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। संपादक)

इस्माल के अन्तर्गत नहीं है, जैसे कवीर। जान पड़ता है कि हिन्दी में आदर-प्रदर्शन के उद्देश्य से इस अर्थ में इस शब्द का सीधा बहुवचन रूप ही लिया गया है।

परन्तु सोलहवीं सदी के मध्य की किसी हिन्दू नारी के नाम में किसी फ़ारसी-मूलवाले शब्द का प्रयोग है विचित्र बात। आज भी जब कहीं कहीं पुरुषों में रामदत्तसिंह रामवल्हसिंह में बदल गये हैं, हिन्दू स्त्रियों के नामों में विदेशीपन नहीं आया है। अतएव यह कम सम्भव जान पड़ता है कि मीरावाँई मा-बाप का रंक्खा हुआ नाम हो। मीरावाँई के पीछे तो मीरा नाम का सर्व-प्रिय होना स्वाभाविक है। परिणामतः आजकल कई स्त्रियों के नाम मीरा मिलते हैं। किन्तु सम्भवतः मीरावाँई पहली मीरा थी और सम्भवतः मीरावाँई उसका नाम न हो कर उसकी व्यक्तिगत विशेषता की द्योतक उपाधि (या उपनाम) मात्र थी, जो सम्भवतः साधु-सन्तों के द्वारा उसे मिली हो और जिसके आगे उसका असली नाम विस्मृति के गह्वर में चला गया हो। मीरा की प्रेम-लक्षणा भक्ति प्रसिद्ध है। वह परमात्मा को अपना पति समझती थी और परमात्मा के अतिरिक्त किसी को पुरुष नहीं मानती थी। यह नाम उसकी इसी विशेषता का द्योतक है और सम्भवतः इस बात का भी, कि इस विशेषता का मूल कवीरी विचार-धारा है। जैसा देख चुके हैं, कवीर में ही पहले-पहल हमें यह शब्द मिलता है और सम्भवतः उन्हीं की-सी

विचारधारावाले साधु-मन्तों से मीरा को यह नाम या उपाधि मिली हो। कवीर के द्वारा, जिसे मैं जात-मुसलमान मानता हूँ और जिसका मुसलमान कुल में पालापोसा जाना सब मानते हैं, फ़ारसी मूल से निकले हुए इस शब्द का प्रयोग अस्वाभाविक भी नहीं है। यह प्रसिद्ध है कि रैदास मीरावाई के गुरु थे। मीरा के नाम से मिलनेवाली 'वानी' में तीन स्थलों पर इस बात का उल्लेख है। यह भी प्रसिद्ध है कि रैदास रामानन्द के शिष्य और कवीर के गुरुभाई थे। नाभा जी ने स्वामी रामानन्द के शिष्यों को प्रेमलक्षणा भक्ति का जिसको उन्होंने 'दशधा' कहा है, आगर ('दशधा के आगर') बताया है, यही मीरा की भी विशेषता है।

संत

(कल्याण से उद्धृत)

सबमें बड़े हैं संत, दूसरा नाम है।

तिसरे दस आँतार, तिन्हें परनाम है ॥ —पलटू

संत अध्यात्म-विद्या का व्यवहार-सिद्ध स्वरूप है। अध्यात्म-सादी नक्षत्रचिह्नक जिन महान् सिद्धान्तों का अन्वेषण और निरूपण करते चले आये हैं, उनकी उसे स्वयं अपने में अनुभूति हुई होती है। उनका उमें शास्त्रीय वाचनिक ज्ञान हो न हो, दर्शन अचरम होना है। वह अध्यात्मका व्याख्याता चाहे न हो,

अध्यात्मचेता होता है। वह द्रष्टा है। संत की दिव्य दृष्टि को बाहरी आवरण नहीं रोक सकते, उनमें न उलझकर वह सीधे आभ्यन्तर वास्तविकता पर जा ठहरती है। बाहरी चीजें उसके लिये सब झूठी हैं —

आँखी सेती जो देखिए सो तो आलम फानी है ।

कानों सेती जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है ॥

इस बोलतेको उलटि देखे सोई आरिफ सोइ ज्ञानी है ।

‘यारी’ कहै यह वृष्णि देखा और सवै नादानी है ॥

—यारी

केवल सत् तत्त्व ही नित्य और अव्यय है। वही अनन्त तेजोमय उसकी दृष्टिमें सार वस्तु है जिसके प्रथम दर्शन के अवसरपर चौंधियाया हुआ द्रष्टा उपनिषद् के शब्दों में प्रार्थना करता है —

पूषन्नेकर्षे यम सूर्यं प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह ।

तेजो यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि ।

(ई० उ०)

[हे भरण करनेवाले ! एकचारी संसार के उत्पत्तिकर्ता सूर्य अपनी किरणों को समेटो, जिससे मैं आपके तेजोमय कल्याण-रूप को देख सकूँ ।] परन्तु उस तेजपुञ्जको अपनी ‘दिवि सूर्यसहस्रस्य’ के समान प्रचण्ड किरणें समेटनी नहीं पड़तीं। क्योंकि आत्मतेज की प्रखर किरणें परिचय होने के साथ ही संत

के लिये सौम्यरूप धारण कर लेती हैं, उनमें चकाचौंध नहीं रह जाती, वह परब्रह्म को खुली आँखों से सामने देख सकता है —

जोतिसरूपी आत्मा, घट-घट रही समाय ।

परम तत्त्व मन भावनो, नेक न इत उत जाय ॥

रूप रेख वरनों कहा, कोटि सूर परकास ।

अगम अगोचर रूप है, पावै हरिको दास ॥

इस प्रकार द्रष्टा संत एकमात्र सत्तत्त्व को अपने में और अपने-
को एकमात्र सत्तत्त्व में देखता है । इसीलिये वह संत^१ है ।

सोइ निज संत जिन अंत आपा लियो,

जियो जुग-जुग गगन बुद्धि जागी ।

—संत केशव

आत्मदर्शन से, अनन्त आध्यात्मिक प्रेम के उदय से, मीरा के शब्दों में उसके 'दिल की चुंडी' खुल जाती है । हटते हुए आश्चर्य के साथ उपनिषद् के शब्दों में उसे स्थिरानुभव होता है—

योऽमावमौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥ (ई० उ०)

१. 'संत' शब्द की उत्पत्ति दो प्रकार से सम्भव है । वह 'सत्' का प्रत्यय हो सकता है जिसका हिन्दी में एकवचन में प्रयोग हुआ है, अथवा 'संत' का अन्तर्ग्रह रूप हो सकता है, जैसा पाली भाषा में होता है । पाली उपनिषद् में संत के माने होंगे जो सत् है अथवा जिसे सत् की उपनिषद् का शब्द है, दूसरी में, जिसकी कामनाएँ शांत हो चुकी हैं । दोनों अर्थों में यह शब्द उत्पन्न है ।

उसकी 'सोऽहम्' की अनुभूति कभी टूटती नहीं—

सोहं हंसा लागलि डोरि ।

वह स्वयं परब्रह्म हो जाता है। संत और साहज में कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं। जैसा पलट्टू कहते हैं —

साहज वही फकीर है, जो कोइ पहुँचा होय ।

मुँह से 'सोऽहम्' कहना जितना आसान है, उसकी अनुभूति उतनी ही कठिन है, उसे प्राप्त करना बिना मौत मरने के समान है —

साधो हरिपद कठिन कहानी...

अलह को लहना, अगह को गहना,

अजर को जरना, बिना मौत मरना ॥

— संत दरिया (मारवाड़ी)

संत को सत्त्व आत्मा का दर्शन कठिन साधना के अनन्तर प्राप्त होता है। उसे उलटी चाल चलनी होती है। 'सञ्चर' की प्रक्रिया को 'प्रतिसञ्चर' में बदल कर, स्रजन की तीव्र धारा के विरुद्ध चलकर वह अपने साध्य लक्ष्य पर पहुँचता है। जैसा सिद्ध घोड़ाचोली ने कहा है—वास्तविक योगीन्द्र वह है जो साधनमार्ग में तत्पर हो, स्रजन की बढ़ती हुई लहर को उलटी फेरकर आत्मनिमग्न हो जाता है —

रावल^१ ते जे चालै राह। उलटी लहरि समावै माँह ॥

१. रावल = योगियों का एक भेद ।

रज्जवजी के शब्दों में—

उलटा चले सु औलिया, सूधी गति संसार ।

संत दुनिया से उलटे चलता है । संसार के क्षणिक सुखों में उसके लिये कोई आकर्षण नहीं । जिसे प्यार कर दुनिया मोह के बन्धन में पड़ती है, उससे वह मुँह फेर लेता है । निवृत्ति के मार्ग से उलटे पाँवों चलकर प्रवृत्ति को निरर्थक करता हुआ वह उस मूल सत्य (सत्यमायतनम्—केन०) तक पहुँच जाता है जहाँ से सारी प्रवृत्ति का फैलाव चलता है (यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी—गीता १५.१४) । मुक्ति के लिये उसे मौत का आसरा नहीं देखना पड़ना । मरने के पीछे मिलनेवाली मुक्ति को वह बात नहीं करता, उस पर विश्वास ही नहीं लाता ।

निकट निरंजन लगि रहे । तव हम जीवन मुक्त भये ॥
मर करि मुक्ति जहाँ जग जाइ । तहाँ न मेरा मन पतियाइ ॥
आगेँ जनम लहै श्रौतारा । तहाँ न मानै मना हमारा ॥
तन छूटे गति जो पद होइ । मिरतक जीव मिलै सब कोइ ॥
जीवते जनम सुफल करि जाना । दादू राम मिले मनमाना ॥

—संत दादू

यह तो वृहदारण्यक के शब्दों में यही इसी जीवन में मुक्ति का भक्त ब्रह्मोपभोग करता है—

‘अत्र ब्रह्म समश्नुते’

(वृ० ४।४।७)

ब्रह्म के रूप में आत्मदर्शन से उसके आनन्द का ठिकाना नहीं रहता—

निरखि आपु अघात नहिं यह सकल सुख रस सानिये ।
 पिवहिं अमृत सुरति भरि करि संत विररा जानिये ॥
 कोटि विष्णु अनन्त ब्रह्मा सदा शिव जेहि ध्यावहीं ।
 सोइ मिलो सहज स्वरूप केशव आनन्द मंगल गावहीं ॥

—संत केशवदास

जो पद अगम अगोचर और वाङ्मनसातीत है, जो न दिखायी देता है, न पकड़ में आता है और न बतलाया ही जा सकता है वह उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है—

दिष्ट न, मुष्ट न, अगम है, अति ही करड़ा काम ।

दादू पूरण ब्रह्म में कोइ संत करे विसराम ॥

—दरिया (मारवाड़ी)

संत का यह अन्तराराम उसके मन के उपराम का फल है । आत्मदर्शन से उसकी सब कामनाएँ शान्त और शुद्ध हो जाती हैं । वह पड़रिपुत्रों के शासन से बाहर चला जाता है । संसार के सुख-दुःख से वह परे हो जाता है, मानापमान उसे छू नहीं पाते । हार-जीत उसे क्षुब्ध नहीं कर सकती । जिसपर इन काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर छः शत्रुओं का शासन हो गया वह कितना ही स्वाँग रचे, लंबी हाँके, संत नहीं कहा जा सकता । संत का बाना बनाये हुए किसी पाखण्डी से जो किसी चुभती बातसे आगबबूला हो उठा था, कबीर ने कहा था—

(गीता १८।२१) । निश्चेष्टता तथा निश्चेष्ट रहने का प्रयत्न स्वतः वर्म हैं । अज्ञानी निश्चेष्ट होनेपर भी निष्कर्म या अकर्ता नहीं कहा जा सकता । उसे निकम्मा या आलसी कह सकते हैं, निष्कर्म नहीं । कर्म का फल त्यागा जा सकता है कर्म नहीं । कर्म-फल त्यागी ही त्यागी है (गीता १८।२१) । इसी से गीता ने पूर्ण कर्मिष्ठ और विद्वान् उसे कहा है जो कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है (४।१८) संत यदि तन से भी व्यवहार को उसी तरह छोड़ दे जिस तरह मन से छोड़ देता है, तो अज्ञानियों के मस्तिष्क में उलझन पैदा हो जाय । वे निकम्मे और आलसी होने में ही त्याग समझने लगे । संतजन साधारण-जनों में 'बुद्धिभेद' (गीता ३।२६) नहीं उत्पन्न करना चाहता । वह नहीं चाहता कि वे अपने-अपने काम-धन्धे छोड़ दें । उनके समक्ष उदाहरण रखने के लिये संत स्वयं भी सामान्यतया वैसा ही आचरण करता है जैसा जनसामान्य, किन्तु वह उसमें लीन नहीं होता (गीता ३।२५) जैसा ज्ञानदेव ने ज्ञानेश्वरी टीका में कहा है—

जो अंतरी दृढ़ । परमात्मारूपी गूढ़ ।

बाह्यतरी रुढ़ । लौकीक जैसा ॥

संत का यह स्वरूप केशवदास के इस सवैये में अच्छी तरह से स्पष्ट हुआ है—

निनि वासन वस्तु विचार सदा, मुख साँच हिये करुनाधन है ।

अथ निग्रह, संग्रह, धर्मकथा, निपरिग्रह साधन को गुन है ॥

कह केसौ भीतर जोग जगै, इत बाहर भांगमई तन है ।
मन हाथ भये जिनके तिनके वन ही घर है घर ही वन है ॥

—केशवदास

मारवाड़ी दरिया ने भी कहा है—

बाहर बाना भेष का माहिं राम का राज ।

कह दरिया वे साधवा हैं मेरे सिरताज ॥

समाज की शृंखला को संत तोड़ना नहीं चाहता । समाज में प्रचलित अन्यायों और वुराइयों के विरुद्ध आवाज उठाने में वह चेशक नहीं हिचकता । विशेषकर ऐसे अवसर पर युग की आवश्यकताओं को देखते हुए सामाजिक नियम बेतरह अधूरे और निकम्मे पड़ जाते हैं, उस समय वह समाज के नियमों को आवश्यकता के अनुकूल ढालने में सहायता करता है । किन्तु वह समाज को विशृंखल करना विल्कुल नहीं चाहता । सामयिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ आवश्यकताएँ ऐसी हैं जो सर्वकालीन हैं । उनको परिपूर्ण करनेवाले सामाजिक नियम सदा रहेंगे । ऐसे सनातन नियमों के बिना समाज चल नहीं सकता । युगधर्म का पालन भी संत आवश्यक समझता है । क्योंकि उसकी दृष्टि एकांगी नहीं, सर्वांगीण है । वह अस्तित्व के किसी भी अंग की अवहेलना नहीं करती । वह समाज के सामान्य नियमों का उपहास करनेवाला सरभंगी नहीं । जैसा पलटू कहते हैं—

सरवंगी जो नाम के रहनी सहित विवेक ।
 रहनी सहित विवेक एक करि सबको मानै ।
 खान पियन मैं जुदा नहीं एकै मैं सानै ॥
 लिये रहै मरजाद तजै न नेम अचारा ।
 धर्म सनातन सहित, असुभ-सुभ करै विचारा ॥
 बोलै संवद् अघोर, भजन अद्वैता अंगी ।
 कारज निरमल करै, सोई सरवंगी ॥
 पलटू बाहर कुल धरम, भीतर राखे एक ।
 सरवंगी जो नाम के रहनी सहित विवेक ॥

—पलटू.

संत जिस एकता को दृष्टि में रखता है, वह भीतरो एकता है, बाहरी नहीं। परन्तु बाहरी व्यवहार पर भी इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। ब्रह्म के साथ एकता की अनुभूति संत को प्राणीमात्र के साथ प्रेम करने के लिये प्रेरित करती है। वह सब में परमात्मा का दर्शन करता है। सबको अपने में देखता है और अपने को सब में। सत् के अतिरिक्त वह किसी का अस्तित्व मान नहीं सकता। जो कुछ है वह सत् है, असत् कुछ भी नहीं। असत् भी सत् की ही भूठी भलक है। यही मिथ्या भेद का कारण है जो संत को मुलावे में नहीं डाल सकती। 'सोऽहम्' की अनुभूति उसके हृदय को दया का सागर बना देती है। वह सबकी भलाई करना चाहता है—

संत सरल चित जगत हित ।

(तुलसीदास)

क्योंकि वह सर्वत्र अपनी ही समानता देखता है (आत्मो-
पन्येन सर्वत्र—गीता ६ । ३२) वह सर्वत्र न्याय, दया, दाक्षिण्य,
अहिंसा, सत्य और प्रेम का साम्राज्य देखना चाहता है । वह
चाहता है कि मनुष्यमात्र में प्राणिमात्र के प्रति एकता की भावना
हो । दूसरों से अपने लिये जो व्यवहार कोई चाहता हो, दूसरों
के प्रति स्वयं भी वही व्यवहार करे । दूलनदास के शब्दों में संत
का उपदेश है—

दया धरम हिरदे में राखहु, घर में रहहु उदासी ।

धान के जिव आप करि जानहु, तव मिलि है अविनासी ॥

स्वयं संत इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार का व्यवहार नहीं कर
सकता । उसका सांसारिक जीवन पारमार्थिक अद्वैत की व्याव-
हारिक सिद्धि है । अपनी पूर्ण पारमात्मिकता की अनुभूति से वह
गर्वोद्धत नहीं हो जाता बल्कि उलटे विनयावनत होता है—

साधू जल का एक अँग, बरतै सहज सुभाव ।

ऊँची दिसा न संचरै, निवन जहाँ ढलकाव ॥

वह नम्रता और सर्वभूत दया और प्रेम में ही वास्तविक
आत्मसम्मान देखता है । आत्मानुभूति के साथ गर्व के लिये
जगह ही नहीं है । जब कोई 'दूसरा' है ही नहीं तब किसके
सामने गर्व करे, किसको नीचा दिखावे । जो 'दूसरा' है वह भी

‘मैं’ ही हूँ। अपनी परमानुभूति के अनन्तर संत के जीवित रहने का एकमात्र ध्येय उस अनुभूति को दूसरों तक पहुँचाना है। ‘सोऽहम्’ की अनुभूति को वह ‘तत्त्वमसि’ के सन्देश के रूप में सत्पात्रों के लाभ के लिये प्रचारित करना चाहता है।

जो इस सन्देश को सुनने के पात्र नहीं उनसे वह उसे गुप्त रखे रहता है। जिससे दुर्जन ‘सोऽहम्’ कहने भर से समाज में अनधिकार महत्त्व प्राप्त करने के लोभ में न पड़ें। इसी विचार से यीसूससीह ने भी पर्वत पर उपदेश देते हुए सूत्रों के सम्मुख मोती बखेरना मना किया था। इसीसे संत अपनी पहुँच को सामान्य व्यवहार के भीतर छिपाये रखते हैं।

लोगों का विश्वास है कि अमृत कोई ऐसा पदार्थ है जिसके पान अथवा भोजन से आदमी अमर हो जाता है। जनसाधारण का यह अमृत केवल दिल के बहलाने का अच्छा खयाल है। किन्तु वास्तविक अमृत तो संतों का ज्ञानानुभव है। जिसके प्राप्त होने से व्यक्ति सच्चे अर्थ में अमर हो जाता है।

य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ।

(कठ० २।३।९)

इसीसे बुद्ध ने कहा है—

नव अमृत वारों की बात । अमृत है संतन के साथ ॥

संत सबसे बड़ा दानी है । वह ज्ञानामृत का दान करता है ।

यही, दादू के शब्दों में, ‘दरवार का दत्त है’ जिसको परमात्मा संन के हाथों बाँटना है—

'दादू' दत्त दरवार का को साधू बाँटे आइ ।

तहाँ रामरस पाइये जहँ साधू तहँ जाइ ॥

संत का ज्ञानानुभव एक प्रकार से सरनेवाला है । संत आध्यात्मिकता का सूर्य है जिससे ज्ञान की किरणें समस्त जगत् के ऊपर पड़ती हैं । जिन्होंने अश्रद्धा का आतपत्र नहीं धारण किया है (छाता नहीं ओढ़ा है) वे उनसे संजीवनी शक्ति खींच सकते हैं । उस प्रकाश के सामने अन्धकार ठहर नहीं पाता । सब कलुप नाश हो जाते हैं । कामनाओं का विष दूर होकर वे शुद्ध हो जाती हैं । इसीसे दरिया साहिव का उपदेश है—

बिक्ख छुड़ावैं चाहकर, अमृत देवें हाथ ।

जन दरिया नित कीजिये, उन संतन को साथ ॥

इसीसे सत्संग जगत् के आत्यन्तिक दुःख से त्राण पाने का एकमात्र उपाय है । जैसा बुद्धा कहते हैं—

वैठो जाइ संत सभा में, जहाँ अमरपुर लोग ।

आवागवन कवहुँ नहिं (हूँ है) इहै हमारा जाँग ॥

परन्तु संत की पहचान कठिन है । संत के लक्षण आभ्यन्तर होते हैं बाह्य नहीं । संत के कोई निश्चित बाहरी लक्षण नहीं, कोई बना-बनाया वेश नहीं, कोई बँधा-बँधाया रास्ता नहीं वह बन्धन-हीन मुक्त पुरुष है—

मच्छी पच्छी साध का दरिया मारग नाहिं ।

अपनी इच्छा से चलें हुकुम धनी के माहिं ॥

संत अपनी आभ्यन्तर अनुभूति के कारण संत है। जिसकी पहुँच वहाँ तक नहीं, वह संत को पहचान कैसे सकता है ? संत की पहचान संत ही को हो सकती है। जो कहे कि मैं संत को पहचानता हूँ, उसको तुलसी साहब कुनस (कोर्निश) करते हैं—

जो कोई कहै संत को चीन्हा । 'तुलसी' हाथ कान पर दीन्हा ।

असली संत का साक्षात् बड़े भाग्य से होता है। वह बड़ी तपस्या के वाद मिलता है। भगवान् की दया का संत-दर्शन पहला लक्षण है—

साधु मिले तव ऊपजे हिरदे हरि का हेत ।

'दादू' संगति साधु की कृपा करें तब देत ॥

यह कृपा सच्ची श्रद्धा से होती है। श्रद्धा और लगन से पूर्ण खोज कभी व्यर्थ नहीं जाती। संत को लक्षणों से हम पहचान पावें या न पहचान पावें किन्तु यदि आन्तरिक श्रद्धा है तो सच्चे संत के सम्मुख आते ही दिल गवाही देने लगता है कि हम एक अपूर्व शक्ति के समक्ष हैं। हमारा सारा अस्तित्व बदलने लगता है। पार्थिवता भागने लगती है, भीतर दिव्यता का अनुभव होने लगता है। मानो पारस पत्थर के परस से लोहा सोने में बदल रहा हो। यदि यह अवस्था आ उपस्थित हो तो समझना चाहिये कि हम वस्तुतः संत के सामने हैं। परन्तु जबतक यह बात नहीं होती, तबतक इस निश्चय के लिये हमारे पास कोई आधार नहीं—

पारस परसा जानिये जो पलटै अंग अंग ।
अंग अंग पलटै नहीं तो है झूठा संग ॥

—मारवाड़ी दरिया

परन्तु इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हम में श्रद्धा और लगन के उत्पन्न हुए विना सत्संग का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता । इसलिये सुन्दरदास के शब्दों में—

जौ परब्रह्म मिल्यौ कोउ चाहत तौ नित संतसमागम कीजै ।
अंतर मेदि निरंतर ह्वै करि लै उनकौ अपनी मन दीजै ॥
वै मुप द्वार उचार करै कछु सो अनयास सुधीरस पीजै ।
'सुंदर' सूर प्रकासत है उर और अज्ञान सबै तम छोजै ॥

उद्धारकामी को चाहिये अपने-आपको संत की शरण में छोड़ दे । संत अपनी दया से हमारा अनन्त उपकार कर सकता है । प्राचीन ईसाई मत में संतों (सेंट्स) को भी प्रार्थना की जाती थी कि वे प्रार्थना करनेवाले के उद्धार के लिये परमात्मा से सिफारिश करें । परम संत ईसा की इस शक्ति में समस्त ईसाई धर्म एक मत से विश्वास करता है । बुद्ध, गोरखनाथ, रामानन्द आदि परम संतों ने अनगिनत जीवों का उद्धार किया है । वस्तुतः संत सर्वसमर्थ हैं ; स्वतः परमात्मा हैं—

पलटू घर में राम के और न करता होय ।
राम समीपी संत हैं वे जो करें सो होय ॥

संत औ रामको एक कै जानिये, दूसरा भेद ना तनिक आनै ।

—पलटू

ऐसे परोपकारी 'जंगम तीर्थी' की क्या स्तुति की जाय, धन्य हैं वे लोग जिनके—

एक चाह रही संत रेनु केरी चाहना ।

क्योंकि उन्हीं के हृदयों में यह भावना जागृत होगी—

जौने गैले संतै गैलें, तौनै जैवों हो । —बुल्ला

यही मुक्ति के द्वार तक ले जानेवाला मार्ग है ।

नागार्जुन

(हिन्दुस्तानी से उद्धृत)

नागरी-प्रचारिणी सभा के साहित्य-परिषत् में व्याख्यान^१ देते हुए पाँच वर्ष पूर्व मैंने हिंदी साहित्य के क्षेत्र में वहने वाली योग-धारा के अस्तित्व का दर्शन कराने की चेष्टा की थी, जो हिंदी साहित्य के इतिहासों में स्वीकृत निर्गुणधारा के बहुत पहले से चहती चली आ रही थी और निर्गुणधारा भी जिसका एक विकसित अथवा परिवर्तितरूप मात्र थी । मुझे हर्ष है कि हिंदी के

१ निबंधरूप में यह नागरी-प्रचारिणी पत्रिका, भाग १४, अंक ४ में उप चुका है ।

विद्वानों ने अपने-अपने ढंग से इस विषय में मेरे साथ साहमत्य प्रकट किया है और अब हिंदी साहित्य के इतिहास में योगधारा को निर्विवाद स्थान प्राप्त हो गया है।

इस योगधारा में योग देने वाले कवियों में बहुत प्राचीनों में नागार्जुन का भी नाम आता है। नागार्जुन के नाम से तीन 'सवदियाँ' मुझे प्राप्त हुई हैं जो हिंदी में हैं। त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने भी उनके 'नागार्जुनगीतिका' और 'स्वसिद्धयु-पदेश' नामक दो हिंदी ग्रंथों का उल्लेख किया है, जिनका पता उन्हें भोटिया भाषा के ग्रंथों से लगा है।

परंतु सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि—यह नागार्जुन हैं कौन ? इतिहास के लिए नागार्जुन एक पहेली ही हो गए हैं। द्रौपदी की चौर की तरह उन्हें किंवदंतियों ने ऐसा ढँक लिया है, कि उनके संबंध के तथ्य को खोलना ऐतिहासिकों के लिए असंभव-सा हो रहा है। यहाँ तक कि वे अब तो सामान्य लोक से ऊपर उठ कर विल्कुल अलौकिक हो गए हैं। एक कथानक उन्हें तीन सौ वर्ष की आयु देता है, और एक और ५२९ वर्ष या इससे भी अधिक की।

फिर भी इतिहासज्ञों का कहना है कि इस नाम ने कम से कम तीन व्यक्तियों को ढँक रखा है, जिनके समय में बहुत अंतर है। एक नागार्जुन तो अवश्य ही विक्रमाब्द की दूसरी शताब्दी में हो गए थे, जिनके आदेश से कुषाण नृप कनिष्क प्रथम ने बौद्धों की

चतुर्थ महासंगीति को आमंत्रित किया था। बुद्ध की शिष्य-परंपरा में वह तेरहवाँ अथवा चौदहवाँ व्यक्ति था। लंकावनार मूत्र के अंतिम श्लोकों में उसके नाम का उल्लेख है। नागार्जुन के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथों में कनिष्क, किलिक, वसुमित्र, अश्वघोष तथा धर्मगुप्त आदि राजाओं के नामों का उल्लेख मिलता है।

दूसरे रसेन्द्राचार्य नागार्जुन हैं जो रसायन-शास्त्र (कीमिया) के आचार्य थे। आयुर्वेदशास्त्र की रसेन्द्र (पारद) प्रक्रिया के आचार्य यही माने जाते हैं—नागार्जुन गर्भ जो आयुर्वेद के आचार्य प्रचलित हैं। युञ्जन्वांग ने अपने भारत-यात्रा विवरण में इनका उल्लेख किया है, यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि उन्होंने माध्यमिका-चार्य नागार्जुन को भी इनके साथ मिला दिया है। युञ्जन्वांग ने लिखा है कि राजा यिन्-चिंग ने इनके लिए पो-लो-मो-लो-कि-लि (भ्रमर गिरि) में चट्टानों को काट कर एक गुफा-विहार बनाया था, जिसमें कई मंदिर, बुद्ध की बड़ी-बड़ी स्वर्ण मूर्तियाँ, बड़े-बड़े कमरे आदि थे और जिसमें आने के लिए दो मोल लंबा रास्ता शौलों को काट कर बनवाया गया था। इसके बनाने में जब राजा को अर्थाभाव हो गया तो नागार्जुन ने चट्टानों को सोने में बदल दिया। इससे पता चलता है कि रसायन (भारतीय कीमिया) के आचार्य नागार्जुन युञ्जन्वांग के समय (सातवीं शताब्दी) से पहले हो गए थे। वट्टसि ने युञ्जन्वांग के यात्रा-विवरण में उल्लिखित राजा यिन्-चिंग को आंध्रनरेश शातवाहन बताया है। यह

ठीक भी मालूम पड़ता है क्योंकि बाणभट्ट के अनुसार नागार्जुन शातवाहन का सुहृद् था जिसे उसने पताल के नागराजा से एकावली मुक्तामाला लाकर दी थी। इस माला में सब प्रकार के विषों के प्रभाव को दूर करने की शक्ति थी।^१ कहते हैं कि शातवाहन के नाम सुहृल्लेख नामक एक चिट्ठी लिखी थी, जो चीनी और भोटिया भाषा में अब भी सुरक्षित है।

तीमरे, सिद्ध नागार्जुन हैं। लामा तारानाथ के वर्णन में इनके साथ माध्यमिकाचार्य और रसेन्द्राचार्य दोनों संसृष्ट हो गए हैं। इन्हीं तीनों के सम्मिलित रूप को बोधिसत्त्व नागार्जुन समझना चाहिए।

हिंदी में भी एक और नागार्जुन का नाम आता है। विक्रमाब्द की अठारहवीं शताब्दी में भगवानदास निरंजनी एक महत्त्वपूर्ण कवि हो गए हैं। 'प्रेम-पदार्थ', 'अमृतधारा' (१६८५ सं०), 'भगवद्गोता' का अनुवाद और 'भर्तृहरिशतक' का अनुवाद—ये ग्रंथ इसके नाम से मिलते हैं। इन्होंने अपने गुरु का नाम नागार्जुन लिखा है।

क्या हमारे नागार्जुन इनमें से कोई हैं, अथवा इनसे सर्वथ भिन्न ही हैं ?

पहले नागार्जुन अर्थात् माध्यमिकाचार्य द्वारा प्रचारित विचार-धारा का हिंदी के योगी तथा संत-कवियों के ऊपर काफी प्रभाव

दिखाई देता है। नागार्जुन प्रज्ञावाद अथवा शून्यावाद के सबसे बड़े आचार्य हैं। प्रज्ञावाद के अनुसार योग तर्कसम्मत तथा प्रत्ययज्ञान तथा बाह्यरूप-ज्ञान से ऊपर उठने से प्राप्त होता है। क्योंकि सामान्यतया मनस् जिसे वास्तविक समझता है, उसका परमार्थतः कोई अस्तित्व नहीं। माध्यमिक शास्त्र (नञ्ज्यो सं० ११७९) में नागार्जुन ने बतलाया है कि तत्त्व जैसा है वैसा (तथा) उसका वर्णन करना असंभव है। वह शून्य है। शून्य ही में सब दृश्य पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं और शून्य में ही वे लीन भी हो जाते हैं। इस शून्य-स्वरूप अर्थात् तथाता की अनुभूति होने के ही कारण बुद्ध तथागत समझे जाते हैं। वहीं से वे उत्पन्न हुए हैं इसलिए भी वे तथागत हैं। दृश्यपदार्थ भी शून्य ही हैं। यद्यपि बिना शरीर के व्यावहारिक अस्तित्व नहीं रह सकता फिर भी परमार्थतः तथागत का शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर भी शून्य है। शून्य को न हम सत् कह सकते हैं न असत्। सत् और असत् दोनों भ्रम हैं। इनका आरोप तत्वप्राप्त तथागत पर नहीं हो सकता। तथागत में आत्मभाव नहीं है। आत्मभाव न किसी में जन्म से पहले रहता है और न मरण के बाद। अतएव सापेक्ष व्यावहारिक गुणों के धीरे-धीरे निराकरण से प्रज्ञा प्राप्त होती है।

यद्यपि शंकर के प्रभाव से आत्मनिषेधक इस शून्यवाद ने योगियों और निर्गुणी संतों में आत्मवाद का बाना ग्रहण कर

लिया है, फिर भी परिवर्तित रूप में भी वह अलग पहचाना जाता है। गोरखनाथ ने कहा है—

वस्ती न शून्यं शून्यं न वस्ती अगम अगोचर ऐसा ।

यद्यपि इसमें गोरखनाथ ने अगमत्व के शून्यत्व का निषेध किया है फिर भी इसमें शून्यवाद के शून्यत्व का निषेध नहीं है। क्योंकि यह शून्यत्व केवल असत् का द्योतक है जिसे अनिर्वचनीय शून्यत्व पर आरोपित नहीं कर सकते। और तत्व को अस्ति और अस्तित्व, सत् और असत् के बाहर बतलाना वस्तुतः नागार्जुन की ही शैली का अनुसरण करना है। निर्गुण कवियों पर भी यह प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। कवीर ने कहा है—

सोई पै जानै पीर हमारी जिन्ह सरीर यह व्योरी ।

जन कवीर ठग ठग्यो है वपुरो सुन्न समानी त्योरी ॥

और दादू ने—

सहज सुजि सब ठौर है, सब बट सबही माहिं ।

तहाँ निरंजन रमि रहा कोई गुण व्यापै नाहि ॥

कवीर और दादू के इस सर्वव्यापी शून्य में नागार्जुनीयता विद्यमान है, यह उनके निम्न-लिखित उद्धरणों से सिद्ध होता है। कवीर कहते हैं—

जहाँ नहीं तहाँ कुछ जाणि ।

जहाँ नहीं तहाँ लेहु पछाणि ॥

नाहीं देखि न जइए भागि ।

जहाँ नाहिं तहाँ रहिए लागि ॥

दादू कहते हैं—

नाहीं तहाँ तें सब किया फिर नाहीं तें जाइ ।

दादू नाहीं छोड़ रह्यु माहिष सों ल्यौं लाइ ॥

वस्तुतः नागार्जुन से आती हुई दार्शनिक परंपरा हिंदी में अपने शुद्धरूप में भी दिखाई देती है। लार्ड हेस्टिंग्स के जमाने में हाथरस का राजा दयाराम इस मत का बड़ा पोषक था, उसके लिए बखतावर नामक जोगी ने 'शून्यसार' नामक ग्रंथ लिखा। यद्यपि यह ग्रंथ मेरे देखने में नहीं आया है फिर भी विल्सन ने इसके अवतरणों का जितना अनुवाद अपने ग्रंथ 'रिलिजस सेक्ट्स अन्दि हिंदूज़' में दिया है उतने से स्पष्ट लक्षित हो जाता है कि लेखक नागार्जुन के ही 'सिद्धांतों को अपने ढंग से दुहरा रहा है। इधर-उधर कहीं थोड़ा-सा हलके आत्मवाद का गिलाफ़ उमर पर हो तो हो। यहाँ पर एक अवतरण दिया जाता है—

जो कुछ मैं देखता हूँ वह शून्य है, आस्तिकता और नास्तिकता दोनों भ्रम हैं, मिथ्या हैं। यह पृथ्वी और ब्रह्मांड, इहलोक और परलोक, सूर्य और चंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कूर्म और शेष, गुरु-चेला, व्यक्ति-जाति, मंदिर-देवता, पूजा-अर्चा, भजन-स्मरण सब शून्य हैं। कहना-सुनना, वाद-विवाद सब शून्य हैं। तत्व भी कुछ नहीं है।.....

मैं शून्यता में ध्यान लगाता हूँ पाप-पुण्य कुछ नहीं जानता।”

वस्तुतः शंकर में भी यही बात है। उन्होंने केवल बौद्धों के शून्यवाद और विज्ञानवाद को अनात्मत्याति के स्थान पर आत्म-त्याति का घाना पहना दिया है। इसीलिए शंकर 'पद्मपुराण' में प्रच्छन्न बौद्ध कहे गए हैं।

मैंने एक जगह कहा है कि शून्य को नाथ योगी ब्रह्मरंध्र के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं। नहीं कहा जा सकता कि माध्यमिका-चार्य के जमाने में हठयोग का विस्तार हो गया था या नहीं, पर इतना निश्चय है कि नाथ योगी उन्हें योगी ही मानते रहे होंगे। 'गोरक्षसिद्धांत-संग्रह' में नागार्जुन 'महानाथ' कहे गए हैं— 'नागार्जुनो महानाथः'। कम से कम योगियों की सबसे बड़ी सिद्धि आश्चर्य-जनक रूप से नागार्जुन के साथ संबद्ध है। शून्य के अतिरिक्त ब्रह्मरंध्र का एक दूसरा नाम भ्रमर-गुफा है। नागार्जुन ने शून्य में ध्यान लगा कर प्रज्ञापारमिता की प्राप्ति की ओर संकेत किया था। इस महाशून्य में यदि किसी की पूर्ण स्थिति हो सकती है तो स्वभावतः शून्यवाद के सबसे बड़े आचार्य नागार्जुन की। अतएव शून्य नागार्जुन का वासस्थान हुआ। वाद को जब यह सूक्ष्म तत्व भी काया ही में प्रतिष्ठित कर दिया गया और ब्रह्मरंध्र में लोग ध्यानस्थ होने लगे तो भी नागार्जुन का साहचर्य उससे गया नहीं। और धीरे-धीरे नागार्जुन का स्थूल निवास-स्थान सूक्ष्म ब्रह्मरंध्र का प्रतीक बन गया और भ्रमरगुफा अथवा भ्रमर-गुहा कहा जाने लगा। यह वही भ्रमरगुहा है जिसे युञ्जव्यांग

के अनुसार राजा यिन्-चिंग (शातवाहन) ने पो-लो-मो-लो-कि-लि में बनवाया था। पो-लो-मो-लो-कि-लि भ्रमर-गिरि है जो आज-कल की रीवा रियासत में स्थित है। इस बात का पता प्रसिद्ध पुरातत्त्ववेत्ता श्री राखालदास बनर्जी को रीवा नगर से बीस मील दक्खिन की ओर चंद्रेह नामक स्थान के ९७३ ईसवी के एक शिलालेख से लगा था।^१ यह भ्रमरगिरि ब्रह्मगिरि भी कहलाता है जो ब्रह्मरंध्र और भ्रमरगुहा के पर्यायवाचित्व का परिणाम है। यद्यपि मेरी समझ से शातवाहन का सुहृद् दूसरा नागार्जुन था तथापि जनसमुदाय दोनों नागार्जुनों में भेद नहीं मानता रहा है। इसलिए एक की बातें दूसरे पर आसानी से आरोपित होती रहीं हैं।

इन सब बातों के होते हुए भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्रस्तुत नागार्जुन वही थे। विक्रम की पहली-दूसरी शताब्दी में हिंदी का वह रूप नहीं हो सकता जो इन पद्यों में दिखाई देता है।

विक्रम की तीसरी-चौथी शताब्दी वाले रसेंद्राचार्य भी ये नागार्जुन नहीं हो सकते। यह बात नहीं कि रसेंद्राचार्य का योगियों और संतों के ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं है। योगियों में जड़ों-वृटियों के प्रयोग, धातुओं को बदलना, मारना तथा पारस पत्थर आदि आदि बातों के मल रसेंद्राचार्य ही जान सकते हैं।

परंतु उस समय भी हिंदी इस विकसित रूप में न रही होगी। फिर हमारे नागार्जुन की जो 'सवदियों' मिलती हैं उनमें ऐसी कोई बात नहीं, जिससे उन्हें रसेंद्राचार्य को कह सकें।

भगवानदास निरंजनी के गुरु नागार्जुन वे नहीं हैं, यह भी निश्चय रूप से कहा जा सकता है। क्योंकि जैसा आगे चल कर पता चलेगा लामा तारानाथ ने अपने बौद्ध-धर्म के इतिहास में उनका जिक्र किया है। तारानाथ १५वीं शताब्दी में उत्पन्न हुआ था जब कि भगवानदास विक्रम की अठारहवीं शताब्दी में हुए हैं। यह बात ही दूररी है कि भगवानदास ने अपने पंथ के बड़े आचार्य अथवा प्रवर्तक के नाते गुरु माना हां, वस्तुतः दीक्षा देने वाले गुरु के नाते नहीं।

अब रहे सिद्धाचार्य नागार्जुन। मेरी समझ से यही इन सवदियों के लेखक हैं। स्वयं इन सवदियों में भी नागार्जुन ने अपने सिद्ध होने का संकेत किया है—'सिद्ध संकेत नागार्जुन कहे।' परंतु इसका एक दृढ़ प्रमाण यह भी है कि अलग-अलग सरणियों से विचार करने से दोनों का एक ही समय ठहरता है। त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन जी ने भोट देश के सस्क्य विहार के पाँच प्रधान गुरुओं (११४८-१२३६ वि०) की ग्रंथावली सस्क्य-व्कं-नुम तथा कौर्डियर की सूची के आधार पर चौरासी सिद्धों की एक उपयोगी तालिका बनाई है। इसके अनुसार

नागार्जुन सरह के शिष्य ठहरते हैं और सरह धर्मपाल के समकालीन । डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य भी नागार्जुन को सरह का शिष्य मानते हैं ।^१ सरह के शिष्य नागार्जुन को हम धर्मपाल (८२६-८६६ वि०) के पुत्र देवपाल (८६६-९०६ वि०) का समकालीन मान सकते हैं ।

अलवेरुनी जब सं० १०८७ वि० में भारत आया था, तब उसने नागार्जुन की ख्याति सुनी थी, जो उससे एक शताब्दी पहले हो गया था । यद्यपि जनश्रुति ने अलवेरुनी को रसेन्द्राचार्य का यह समय बताया था तथापि यथार्थतः यह सिद्धाचार्य नागार्जुन के समय की ही अंतिम सीमा हो सकती है । अलवेरुनी के अनुसार नागार्जुन के समय की अंतिम सीमा ९८७ वि० के लगभग ठहरती है । पर जनश्रुति से प्राप्त समय को विल्कुल ऐतिहासिक तथ्य मानना ठीक नहीं है । मेरी समझ से नागार्जुन का अंतिम समय ९०६ और ९८७ वि० के बीच मानना चाहिए ।

अब इन सबदियों के लेखक के समय की ओर दृष्टिपात कीजिए । ये सबदियाँ जिन संग्रहों में प्राप्त हुई हैं उनमें २० से ऊपर योगियों की पद्य-रचनाएँ संग्रहीत हैं । उनमें से चर्पट और कण्ठरी ने नागार्जुन का उल्लेख किया है, जिससे उसका उनके समय में होना पाया जाता है । कण्ठरी ने लिखा है—

पूछे कणेरी नागा अरजन ।

प्यंड छाड़ि प्राण कहाँ समाई ॥

चर्पट की उक्ति है—

टीका टामा टमकली, बोले मधुरी वाणी ।

चरपट कहै सुनो हौ नागा अरजन सौरां की सहनाणी ॥

चर्पट की उक्ति का अर्थ है—‘खूब तिलक-फटाका बेंदी दिए रहते हैं और मीठी वाणी बोलते हैं, हे नागार्जुन ये चोरों के लक्षण हैं ।’

कणेरी स्वयं सिद्ध नागार्जुन के शिष्य हैं । परंतु उनके समय के स्वतंत्र विवेचन का कोई साधन उपलब्ध नहीं है । हाँ, चर्पट के समय का है ।

चर्पट का उल्लेख चंद्रा रियासत की राज-वंशावली में आता है । भोटिया ग्रंथों के आधार पर बनी हुई सांस्कृत्यायन जी की तालिका में भी चर्पट चंद्रा देश का निवासी बतलाया गया है । ग्रुव टोव में भी चर्पटी का चंपक देश के किसी राजा से संबंध बतलाया गया है । इससे वंशावली का कथन पुष्ट हो जाता है । चंद्रा की राजवंशावली के अनुसार चंपाराज्य और चंपापुरी की स्थापना के साथ चर्पट का वनिष्ट संबंध है । वह राजा साहिल्लदेव का समकालीन था । साहिल्लदेव के कोई संतति नहीं । इसलिए वह अपनी सहधर्मिणी के साथ हिमालय के दक्षिण पार्श्व में तप करने के लिए चला गया । चौरासो सिद्ध प्रसन्न

वि० के बीच मानी जानी चाहिए। हमारी सबदियों के रचयिता का ९४४ वि० में उपस्थित होना इस धारणा को पुष्ट करता है कि ये दो न होकर एक ही व्यक्ति हैं।

सिद्धों का नाथ-पंथ में लिया जाना कोई आश्चर्य की बात भी नहीं। नागार्जुन ही एक ऐसे सिद्ध नहीं जो नाथ-पंथ में स्वीकृत किए गए हों। जलंधर, चर्पट, मत्स्येन्द्र, चौरंगी, गोरक्ष आदि कई और भी सिद्ध उसमें गृहीत हुए हैं। 'गोरक्षसिद्धांतसंग्रह' के अनुसार पंथप्रवर्तक चारह माने गए हैं—

नागार्जुनो जडभरतो हरिश्चंद्रस्तृतीयकः

मत्स्यनाथो भीमनाथो चर्पटस्तथा ।

अवद्यश्चैव वैराग्यः कथाधारी जलंधरः

मार्गप्रवर्तका ह्येते तदृष्यमल्यार्जुनः ॥

इनमें पहले तीन—नागार्जुन, जडभरत और हरिश्चंद्र तो मार्गाधिक जैसे हो गए थे। शेष में से चर्पट, कंधड़ (कथाधारी) जलंधर और वैराग्य (कणेरी) सिद्धों में गिने जाते हैं। परंतु विशेष विचारणीय यहाँ पर मल्यार्जुन है।

योगपंथों में बहुधा यह देखा जाता है कि नवीन सिद्ध प्राचीन सिद्धों के अवतार माने जाते हैं, और उनके नाम भी तदनुसार रखे जाते हैं। शालानाथ बालयनी थे। इसलिए वे लक्ष्मण भी बने जाते हैं। ब्रह्मनाथ और हनुमान एक ही व्यक्ति के नाम हैं। इसी प्रकार भर्गुद्वि और विचारनाथ तथा वैराग्यनाथ और कणेरी

पाव भी । संभवतः पीछे के दोनों नागार्जुन अपने जीवन-काल में अपने से पहले के नागार्जुन के अवतार समझे जाते रहे हों जिससे उनका एक बोधिसत्व नागार्जुन में मिल जाना तथा कई सौ वर्षों की आयु का प्रख्यात होना संभव हुआ हो ।

नामों में साम्य तथा गोलमाल का एक और कारण भी है । कभी-कभी ये नाम साधना-मार्ग में तै की हुई अलग-अलग मंजिलों के द्योतक भी होते हैं । जिससे एक ही व्यक्ति अलग-अलग समय में अलग-अलग नामों से विख्यात हो जाता है । और इस प्रकार एक ही व्यक्ति के कई नाम हो जाते हैं । टुचो को नेपाल-काठमांडु के राणा श्री केशर शमशेर जंग के पुस्तकालय में एक हस्तलेख मिला है जिसमें किसी दामोदर का उल्लेख है, जो साधना करते-करते अद्वय वज्र हो गया था । नागार्जुन नाम भी कुछ-कुछ उपाधि-परक ही मालूम देता है । 'शिखासमुच्चय' में लिखा है 'कल्याणमित्रेषु शूर संज्ञा' । हरिभद्र ने और भी लिखा है—

त्रैविद्यादित्त्व विशिष्ट धर्माधिगमयोगान्महाप्रधान भावेन महानागः क्लेशसंग्रामविजयित्वान्महानाग ।^१

महाप्रज्ञापारमिता^२ शास्त्र में नागार्जुन ने भी महानाग का

१—बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल, भाग २६, पृ० १४८

२ टैशो-संस्करण, भाग २५, पृ० ८१; बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का जर्नल, भाग २६, पृ० १४८

खड़े हैं। शिवजी शरीर पर व्यालों को लिपटाए रहते हैं। यह उनकी इंद्रियजितता का ही लक्षण है। नागार्जुन दक्षिण के रहने वाले थे, जहाँ सर्पों और गजों दोनों का बाहुल्य है। ऊपर 'गोरक्ष-सिद्धांत-संग्रह' से नागों के पथ-प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं, उनमें एक मलयाजुन का भी नाम आता है जो महानाथ नागार्जुन के अतिरिक्त हैं—'तद्वच्च मलयाजुनः'। यह मलयाजुन ही हमारे सिद्ध नागार्जुन हैं। यह मलय शब्द उनके दाक्षिणात्य होने का संकेत है। चीनी भाषा में नागार्जुन को लुंगशी (नाग-वृक्ष, चंदन, मलय) भी कहते हैं।^१ चंदन के साथ सर्पों का विशेष संबंध है। कालिदास ने दक्षिण में ऐसे चंदन वृक्षों का होना कहा है, जिनमें सर्पों के लिपटे रहने से गहरे-गहरे निशान हो गए थे। दिग्विजय करती हुई रघु की सेना के हाथियों के कंठ-बंधन भी उन गहरे चिन्हों पर बाँध दिए गए थे जिससे वे ऊपर-नीचे नहीं खिसक सकते थे—

भोगिवेष्टनमार्गेषु चन्दनानां समर्पितम् ।

नाम्नसत्करिणां त्रैवं त्रिपदीच्छेदिनामपि ॥^२

यद्यपि दक्षिण में हाथी भी अधिक होते हैं (विजयनगर के नरेशों की उपाधि ही इसीलिए गजपति होती थी) फिर भी चंदन के वृक्षों के साथ हाथियों का कोई विशेष संबंध नहीं जान

१ बट्टर्स, 'ऑन युअञ्चवांग', भाग २, पृ० २०३

२ 'रघुवंश', सर्ग ४ श्लोक ४८

पड़ता। अतएव नाग से विशेष कर सर्प ही अर्थ टहरता है। अतएव नागार्जुन नाम ही इंद्रियों को वश में करने का द्योतक है। साँपों को वश में करना जिसका बाहरी प्रतीक माना गया जान पड़ता है। यह एक अर्थ गर्भ-तथ्य है कि सिद्ध नागार्जुन के शिष्य कण्ठेरी को ही बहुधा सँपेरे अपना आदिगुरु मानते हैं। सँपेरे बहुधा मुद्राधारी नाथ ही हुआ करते हैं।^१ यहाँ तक कि वरमा के सँपेरे भी साँप को वश में करने के पहले नाथों की वंदना करते हैं। हो सकता है कि अपने शिष्यों को नागार्जुन इंद्रियों को वश में करने के उपाय के बाहरी प्रतीक-स्वरूप साँपों को वश करने का प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाते रहे हों जिसको अब उनके अनुयायियों ने पेशा बना लिया है। इसी प्रकार गोरखनाथों भी गोरखधंधा अथवा गोरखजंजाल दिखाते फिरते हैं, जो माया की उलझन का प्रतीक है जिसे सुलझा कर मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। नागार्जुन नाम के चीनी अनुवादों में से दो इसी ओर संकेत करते हैं। नागार्जुन को चीनी भाषा में लुंग-मींग अर्थात् नाग-वीर और लुंग-शेंग अर्थात् नागविजयी कहते हैं।^२ नागार्जुन में 'अर्जुन' शब्द अर्जुन के वीरत्व अथवा विजयित्व के कारण ही आया है। नागार्जुन शब्द के भोटिया अनुवाद, क्लुस ग्रन्थ के माने हैं नागों को पूर्ण करने वाला। इंद्रियाँ साधक के लिए

परिपूर्णे नभी हो सकती हैं जब बाह्य विषयों से हट कर वे अंतर्मुख हो जायें ।

सर्पों के संबंध में तो शानवाहन के सुहृन् नागार्जुन को भी कुछ सिद्धि प्राप्त थी । 'हर्षचरित' सप्तमाच्छ्वास में वाणभट्ट ने लिखा है कि रत्नानल में जाकर वह नाग राजा से एक मणिमाला लाया था जिसके प्रभाव से सब प्रकार के विष नष्ट हो जाते थे ।

गोरक्षादि नाथाचार्यों के साथ जनसमाज के हृदय में हठयोग का अटूट संबंध जुड़ गया है । यद्यपि नागार्जुन को साधारणतया जनसमाज हठयोग से संबद्ध नहीं करता फिर भी उसका नाम (मलयार्जुन से अभिप्राय है) 'गोरक्ष-सिद्धांत-संग्रह' ने योगपंथ प्रवर्तकों में यों ही नहीं लिया है । नागार्जुन को बहुत लंबी आयु का उल्लेख हो ही चुका है । किसी-किसी ने तो उन्हें छः सौ वर्षों के लगभग आयु दे डाली है । कहा जाता है कि नाक से पानी खींचना आदि क्रियाओं से उन्होंने इतनी लंबी आयु प्राप्त की थी ।^१ इससे पता चलता है कि हठयोग के नेती, धोती आदि पट्कर्म उन्हें ज्ञात थे ।

सिद्ध नागार्जुन दक्षिण के रहनेवाले थे । दुर्ची को काठमांडू में प्राप्त ग्रन्थ-खंडों में उनका स्थान करहाटक बतलाया गया

१ नन्-ई-ची-किनी, अध्याय ८; तककुमु, पृ० ३४; वट्टर्स, 'आन युअञ्चांग', भाग २, पृ० २०३

किंतु भ्रम प्रश्न यह है कि नागार्जुन के नाम में मिलनेवाली ये सप्तदश्यां इतनी पुरानी हैं या नहीं जितने सिद्ध नागार्जुन । दसवीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दो का इतना विकसित होना विद्वानों को एकाएक स्वीकृति-योग्य न जान पड़ेगा । परन्तु तथ्य यह है कि फूँक-फूँक कर क्रम-क्रमेण विद्वानों ने अति सावधानों के कारण देश-भाषाओं को घट्टन अर्थात् मान मान लिया है । अन्वया इन् सप्तदश्यां को नागार्जुन-कृत मानने में हिन्दक का कोई कारण नहीं । तेरहवीं शताब्दी में रचित विद्यापति की पदावली में जिन भाषा का प्रयोग हुआ है, उसका आजकल को मैथिली से विशेष अन्तर नहीं जान पड़ता । इस और की मान-आठ शताब्दियों में जब उसमें कोई विशेष अन्तर नहीं आया तो कहा जा सकता है कि इन और की तीन चार सप्तदश्यां में भी कोई इतना भारी परिवर्तन न हुआ होगा । मैथिली ही नहीं समस्त देश-भाषाएँ दसवीं शताब्दी से भी पुरानी हैं । विक्रमाब्द ८२५ में किसी दक्षिण्य चिन्हांशातनाचार्य ने अपनी 'कुसुम-माला-कथा' में इन भाषाओं के दर्शन कराए हैं । अषष्ठ-श की भूमिका में ये अंश उद्धृत किये गये हैं । मीना-प्राजार में भिन्न-भिन्न देश से आये हुए वणिक् अपनी-अपनी भाषाओं में ब्राह्मणों को निमंत्रित कर रहे हैं । मध्यदेश से आए हुए वनिये से 'तेरे-मेरे आश्रो' कहलाया गया है ।—'तेरे-मेरे आउंति जम्पिरे मज्जदेशेय ।' संस्कृत में इसका रूपान्तर किया गया है—'तेये मेरे आश्रो इति'

सिद्ध नाथों ने प्रचार की दृष्टि से अपने सिद्धान्तों को संचित किया ।

मुझे चार संग्रहों में ये सचदियाँ मिली हैं, जिन में से एक जयपुर का है, दो जोधपुर के हैं, और एक बीकानेर का । इनमें से किसी में भी समय नहीं दिया हुआ है । परंतु इतना निश्चय है कि अकबर के समय में योगेश्वरी वाणी निश्चय रूप से लिपिबद्ध हो गई थी । अकबर के समकालीन दादू के शिष्य रज्जव ने संतवाणी का 'सरवंगी' नामक एक संग्रह ग्रंथ बनाया था । उसमें इन वाणियों के भी उद्धरण दिए गये हैं । नहीं कहा जा सकता कि अकबर के समय से पहले ये केवल स्मृति में ही संचित थीं अथवा लिपि रूप में बद्ध हो गई थीं ।

नागार्जुन की सचदियाँ यहाँ दी जाती हैं—

दारु धँ दाप उतपनी, दाप कधी नहिं जाई ।

दाप दारु परचा भया, तव दाप भँ दारु समाई ॥ १ ॥

पुरव उतपत पछिम निरंतरि ।

उतपति परलै काया अभि अंतरि ॥

प्यंड छाड़ि प्राण भरपूर रहै ।

ऐसा सिध संकेत नाग अरजन कहै ॥ २ ॥


आपा मेटीला सतगुर पोजीला, ना करिवा जोग जुगत का हेला ।

गुरु मुपि भोरि जब पैचीला, तव सहज जोति का मेला ॥३॥

दारु-लकड़ो, वृक्ष अर्थात् शरीर ही से सु-स्वादु अमृतफणु द्राक्षा अर्थात् साक्षात् ब्रह्मानुभूति उत्पन्न होती है। किन्तु जब दारु (शरीर) में द्राक्षा (ब्रह्म) का परिचय प्राप्त हो जाता है तब द्राक्षा (ब्रह्म) में ही दारु (शरीर) समा जाता है।

उत्पत्ति का द्वार पूर्व दिशा (प्राण) है, निरंतर (नित्यता) प्राप्त करने का मार्ग पश्चिम (सुषुम्न) में। इस प्रकार उत्पत्ति और प्रलय (आवागमन का नाश) दोनों इसी शरीर में हैं। शरीर को छोड़कर यदि प्राण सुषुम्न में समाया रहे तो वह पूर्ण हो सकता है। नागार्जुन यह सिद्ध-संकेत (सांकेतिक भाषा में सिद्धि का मार्ग) बताता है।

मैंने आपा (अहंकार) को मिटा कर सद्गुरु की खोज को। गुरु के सामने जब मैंने भिक्षा के लिए भोली खोली तो सहज-व्योति का प्रकाश प्राप्त हो गया। योग-युक्ति की अवहेलना नहीं करनी चाहिए।



वस्तुतः उत्तराखण्ड का यह प्रदेश सद्यः तपोभूमि है। प्राचीन काल में तपस्या के द्वारा यहीं बड़े-बड़े तपस्वियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। श्रद्धावक ऋषि यहीं विदेहावस्था का प्राप्त हुए। व्यासाधर्म (व्यासगुफा), वसिष्ठाधर्म (दिशाय) परशुरामाधर्म, बालखिल्याधर्म इस घात का प्रचुर साक्ष्य देते हैं कि यह प्राचीन ऋषियों की तपोभूमि है।

मध्य-युग के सबसे बड़े महात्मा गोरखनाथ ने भी यहीं अपनी सिद्धि प्राप्त की। "रख्वाली"—(शरीर-रक्षा के) मंत्रों से पता चलता है कि उन्होंने अपना घोर तपस्या 'धील्या उद्वारो' (धवल गुहा) नामक गुफा में की थी। यह स्थान दक्षिण गढ़वाल में अत्यन्त निर्जन और बौद्ध स्थान में है। यहीं वीर राजा काली हरपाल को उसकी माता ने बाल्यावस्था में बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए पाला था। इस स्थान का इस प्रकार गढ़वाल के इतिहास में ही नहीं संतों के इतिहास में भी बड़ा महत्त्व है। स्वयं गोरखनाथ ने तप के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का बड़ा महत्त्व माना है।

१ उत्तर दिशा में धौली भागीरथी का स्नान छ हे वैणी, हे माता, बदरी केदार की यात्रा छ.....हे माता धउला उद्वारी गुफ गोरखनाथ को बासो छ हे वैणी।

दक्षिणी जोगी रंगा चंगा, पुरबी जोगी बादी ।
पछिमी जोगी वाला भोला, सिध जोगी उत्तराधी ॥

—सवनी

गढ़वाल के मंत्र-साहित्य में गुरु गोरखनाथ का बड़ा प्राधान्य रहा है। जान पड़ता है कि किसी समय में नाथों का भी यहाँ बड़ा प्राधान्य था। अभी भी गढ़वाल में गोरखपंथी नाथ बहुत हैं। ओले, अति वर्षण आदि ईतियों के निवारण के लिए जिन डलियों को 'डडवार' (वार्षिक वृत्ति) प्रत्येक गढ़वाली घर से मिलता है, वे नाथ ही हैं। दक्षिण गढ़वाल में बहुत नाथ रहते हैं। श्रीनगर में भी नाथों का एक अलग मुहल्ला है। गढ़वाल में गोरखपंथियों का सबसे बड़ा स्थान देवलगढ़ में सत्यनाथ का मंदिर है। मूलतः देवलगढ़ देवी का पवित्र स्थान है। त्रिगर्त (काँगड़ा) के देवल नाम के एक प्राचीन राजा ने इस स्थान पर गौरा देवी का मंदिर स्थापित किया था ऐसा परंपरागत प्रवाद है। देवल राजा ही के नाम से इस स्थान का नाम देवलगढ़ पड़ा है। देवी का यह मंदिर अब तक देवलगढ़ में विद्यमान है और गौरजा^१ देवी के मंदिर के नाम से प्रख्यात है। गढ़वाल के पँवार राज्य-वंश का स्थापित किया हुआ राज-राजेश्वरी का मंदिर भी यहाँ है, परंतु संतमत की दृष्टि से सत्यनाथ का मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके पीछे एक ऐतिहासिक परंपरा है जो

१ गोरजा 'गौरा' और 'गिरिजा' का प्रमादजन्य मिश्रण है।

एक बड़े ऐतिहासिक तथ्य की ओर संकेत करती है। कहा जाता है कि राजा अजयपाल को भैरवनाथ ने सत्यनाथ योगी के रूप में यहीं दर्शन दिये और उन्हें कंधे पर चढ़ा कर अपना आकार चढ़ाते हुए कहा कि जहाँ तक तुम्हारी दृष्टि जाती है, वहाँ तक तुम्हारा राज्य फैल जायगा। सत्यनाथ ने अपना आकार इतना बढ़ाया कि महाराजा अजयपाल डर गया और उसने सत्यनाथ से प्रार्थना की कि अब अपना आकार न बढ़ाइए। राजा की दृष्टि हिमालय से लेकर शिवालिक (सपाद लक्ष) पर्वत-श्रेणी तक पहुँची और वहाँ तक उसका राज्य फैल गया।

किसी समय उत्तर-भारत में नाथों का खूब बोलवाला रहा है। वे केवल निरीह साधु ही नहीं रहे हैं नवीन राज्यों की स्थापना करनेवाले और राज-शक्ति का परिचालन करनेवाले भी रहे हैं। इसमें तो संदेह नहीं कि गोरखा राजा का नाम गोरखनाथ के नाम से पड़ा है। गोरख राज्य अपने आपको केवल दीवान मानते हैं, गद्दी का वास्तविक स्वामी तो गोरखनाथ माना जाता है। जान पड़ता है कि शोशोदियों की जो शाखा १४ वीं शताब्दी के लगभग गोरख और पीछे नेपाल राज्य में अधिष्ठित हुई, उसको वहाँ लाने के कारण गोरखनाथी ही थे। जोधपुर में १७ वीं १८ वीं शताब्दी में नाथ लोगों के ही हाथ में प्रायः सारे राज्य की वागडोर रही है। गढ़वाल में पँवार-वंश को गहरी नींव देने में भी जान पड़ता है कि नाथों का कुछ साहाय्य

रहा है, यह ऊपर के परंपरागत जनवाद से स्पष्ट है और कई प्रकार से इसकी पुष्टि होती है। गढ़वाल के गाँव-गाँव में सिद्धों के स्थानों का होना इस बात का सूचक है कि गोरक्ष आदि सिद्धों का यहाँ बड़ा मान था। सिद्धों ने गढ़वाल में ग्राम-देवताओं का स्थान ग्रहण कर लिया है और भैरव तथा देवी के साथ-साथ उनको भी पूजा होती है। वल्कि भैरव और देवी की तो कभी-कभी याद आती है, सिद्धि का स्मरण पद-पद पर किया जाता है। गढ़वाल के मंत्र-साहित्य में गोरखनाथ, सत्यनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गरीवनाथ, कबीरनाथ आदि सिद्धों की आर्णों पड़ती हैं।

जान पड़ता है कि देवलगढ़ में सत्यनाथ के मन्दिर की स्थापना संवत् १६८३ में आषाढ़ १८ गते को हुई। उससे पहले वह केवल गुफा मात्र रही होगी। मंदिर-रूप में बन जाने पर पहले पीर हंसनाथजी थे जिनका नाम मंदिर में संवत् के साथ लिखा हुआ है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति प्रभातनाथ ने सम्भवतः उसी समय एक बड़ा भारी भंडारा भी किया था। इसका भी उल्लेख शिला-लेख में है।

यह भी सम्भव है कि मंदिर की स्थापना हंसनाथजी ने बहुत प्राचीन काल में की हो और प्रभातनाथजी ने संवत् १६८३ में मंदिर की केवल मरम्मत और भंडारा किया हो^१। स्वर्गीय वजोर

१ इस संवत् में अपने लेख देवलगढ़ पर अन्यत्र विशेष रूप से लिख रहा हूँ।

पंच दुर्योधनजी स्तूपों का मत है कि राजा अजयपाल ने राज-
राजेश्वरी और मत्स्यनाथ दोनों मंदिरों की स्थापना संवत् १५१२
के लगभग की जब राजधानी पाँदपुर से हटा कर देवलगढ़ में
स्थापित हुई ।

यह अजयपाल राजा पक्षी हैं जिन्होंने गढ़वाल में बहुत कुछ
शान्ति स्थापित की । इनके समय का पना हुआ देवलिया पाथा
(पाथ भर कर अन्न नापने का एक परिमाण शून्या पाथा 'देवतीय
प्रत्य') अब तक गढ़वाल में प्रचलित है । इसके प्रचार संबंधी
शिलालेख भी अब तक देवलगढ़ में विद्यमान है ।

जान पड़ता है कि नाथों का जो मान अजयपाल ने किया उसके
कारण स्वयं वे भी मातृमाथों की श्रेणी में आ गये हैं । नाथों या
सिद्धों में केवल अजयपाल भरधरी और गोपीचन्द ही पंजे हैं
जिनके नाम के आगे नाथ या पाव ('पाद्'-'पा' भी यही है)
नहीं आये हैं । इससे पता चलता है की गोपीचन्द और भरधरी
के समान सिद्ध अजयपाल भी राजा था ।

कबीर का संत-मत से घनिष्ठ संबंध है । वह भी गढ़वाल में
सिद्ध माना जाता है । कहीं-कहीं पर उसको कबीरनाथ भी कहा
है । गढ़वाल में कबीर के मत का भी प्रचार हुआ था । गढ़वाल
के डोम जो नरंकार (निराकार) को पूजा चढ़ाया करते हैं, वस्तुतः
कबीर के ही अनुयायी हैं । नरंकार की पूजा में कबीर की 'जागर'^१

१ किसी माध्यम में देवता या मृत व्यक्ति की भावना को जागरित
करनेवाले कथानक ।

संसार में जितना क्रिया-कलाप है, वह उन्ही मूल मनः शक्ति या प्रवृत्ति के नाना विध मथन से ही उत्पन्न हुआ है—

आदि शक्ति मन मथ्यो क्रिये ब्रह्मा श्री हरिहर ।
 भई सावित्री आफ लक्ष्मी गिरजा वपुधर ।
 मिथुन सों जग रची सकल ही सृष्टि बनाई ।
 तदिन की मरजाद आजलों चलि आई है ॥
 मनमथ को परश्रय जग मनमथ पंथो हैं सभी ।
 ज्ञानी ज्ञानवान बने कामदेव कहते कवी ।
 ब्रह्मा नै मन मथ्यो वेद शुभ सास्त्र उचारे ॥
 हरि नै मन मथ्यो भेक दस जगमहिं धारे ।
 शिव जोगी मन मथ्यो सव्द अनहद सुन्यो तहं ॥
 कमल सहस दल लष्यो तेज का पुंज महा जहं ।
 राव रंक जब मन मथै सकल काज तवहीं सरै ॥
 मोलाराम विचार कही मनमथि कविता करै ।
 राजा मन कौं मथै राज को नीति चलावै ॥
 मंत्री मन कौं मथै प्रजा कौं सुव्रम वसावै ।
 परजा मन कौं मथै पतिव्रत मन महि धारै ॥
 चाकर मन कौं मथै जग महिं शत्रु सिधारै ।
 सतजुग त्रेता द्वापर सौं चलि आया पंथ इह ॥
 मोलाराम विचार कहि मवहा कौं शुभ सत इह ।

शब्दन नै मन मथ्यो साम्ब पट पनं उचारे ॥
 छत्रिन नै मन मथ्यो गड हूज धिरता पारे ।
 धैस्यहि नै मन मथ्यो चणुज वेहवार पलायो ।
 नट्टहि नै मन मथ्यो टटल करि दूरय फगायो ।
 मनमथ पंथी हँ मभां चार वणं जुग चार सौं ॥
 मोलाराम धिनार फहो रहन सभी आचार सौं ।
 शब्दचारि मन मथ्यो ब्रम्ह मधंघ्र लपायी ॥
 जोगी नै मन मथ्यो वायु प्रगांष्ट चद्रायी ।
 जंगम हू मन मथ्यो जगत फी छादि आसा ॥
 निजानो मन मथ्यो कर्म फीनो मप नामा ।
 मन मथि के दरवेस मद्र दरसन तन भै पाइयो ॥
 मोलाराम कहि ने बड़ा मन मथ सुगम घनाइयो ।
 मन मथि के शुभ चित्र चित्रकारी नित करही ॥
 मनमथ रज जड़ाव स्वर्ण जड़िया शुभ जरही ।
 मन मथि के पद ललित छंद कवि जव उचारत ।
 मनमथि के पग मंद चोर घर मधि धारत ।
 मनमथि नादी नादहि रागरंग सध उचारै ॥
 मनमथ का सा पंथ सकल काज जातौ सरै ।

इस प्रकार मोलाराम के अनुसार आध्यात्मिक साधना
 धर्मनीति, समाजनीति, राजनीति, साहित्य, संगीत, कला वाणिज्य-
 व्यवसाय सब क्षेत्रों में एक ही मूल प्रवृत्ति नाना रूपों में काम

मनमथ पंथो होय अपनो मन समन्तार्थी ।
 ठीग-ठीग नो नेह एक ही ठीग में लावो ॥
 जिन बाबा हरि किये नया शिष्य हीं घर दीन्यां ।
 रापे फोट नेमीस पद गाको हम लोन्वीं ॥
 यही हरि फलेस नयभय-प्राता निज भक्तन ही ।
 फरे संत प्रनिपाल निज मोलाराम विचार फही ॥

मन के नाथ जोर जहर ने दाम नहीं चलता । उसे द्यान
 एक स्थान पर निगटाना असम्भव है । इसीलिए मनको सम-
 क्ताने का उपदेश है ।

फाहू नो बकवाद नहीं हम फरें फराधे ।
 मनमथ पंथो होय अपनो मन समन्तार्थी ॥
 फाहा वाद भी न्याद जो हम फाहू नो वादें ।
 जे सज्जन कुलधन्ना संत नो मन को साधें ॥
 मोलाराम विचार फही सुनो पंच प्रवीन तुम ।
 भये भक्त जगमाहिं जे सब दामन के दाम हम ॥

जितने योग के साधन हैं, सब का अंशेय मन को समन्त-
 बुक्ता पर एक ठिकाने लाना है । जप, तप, पठ, चक्र-वेध नादानु-
 संधान, ज्योति दर्शन सब का मनमथ पंथ में मोलाराम के अनु-
 सार उचित स्थान है । यहाँ पर इतना स्थान नहीं कि मोलाराम
 के इस सम्बन्ध के पूरे उद्धरण दें । परन्तु इतना तो स्पष्ट हो गया
 है कि मोलाराम का यह मनमथ पंथ मनस्तत्व और दर्शन के

येति निज नाम खेवा खियायि
भवाब्धि की बड पार लागला ॥

—योग-प्रेमावली

यहाँ पर साधना के अतिरिक्त 'जागला' और 'लागला'

आदि में उनकी भाषा का पहाड़ीपन ध्यान देने योग्य है।

गढ़वाल में संत-साहित्य का मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं। तिलीक्षा और वैराग्य का पाठ पढ़ने युग-युगान्तर से साधक लोग इस तपोभूमि में आते रहे हैं। ब्रह्म विद्या का तो इसे घर होना चाहिये। मैंने जो कुछ यहाँ लिखा है, वह तो लेशमात्र है जो मुझे आसानी से प्राप्त हो गया। गढ़वाल ही नहीं समस्त पर्वतीय देशों में अध्यात्म विद्या के ही नहीं किसी प्रकार के साहित्य का भी अभी तक अच्छी तरह से अन्वेषण नहीं हुआ है। उन्मेषशील युवक समाज से आशा की जाती है कि वह उत्साह-पूर्वक इस काम को अपने हाथ में लेगा। हमारे वयोवृद्ध उन्हें साहित्य के कल्याण-मार्ग पर सत्प्रेरणा दें और श्रीमंत उनकी कठिन साधना से प्राप्त सामग्री को प्रकाश में लाने के साधन सुलभ करें जिससे एक परिश्रम का साफल्य उत्तरोत्तर और परिश्रमों तथा प्रयत्नों की प्रेरणा करता रहे।

कणेरी पाव

(अशोक से उद्धृत)

कणेरी पाव हिंदी के आदि युग के उन संदेश-दाताओं में से हैं जिन्होंने जनता के मर्म को छू पाने के लिए जनभाषा को अपनाना अनिवार्य समझा। उनकी गिनती चौरासी सिद्धों में होती है। अपनी अमर सिद्धियों की रहस्यमय निधि को स्वायत्त करने का सर्वजनीन खुला निमंत्रण उन्होंने हिंदी के ही द्वारा दिया था। उनकी हिंदी रचनाओं का संस्कृत अनुवाद भी मिलता है, जिसके आदि में लोकेश्वर नाथ-रूप में उनकी वंदना की गई है। वंदना के श्लोक यहाँ दिए जाते हैं—

वंदे नाथं परं ब्रह्मं सिद्धानां सिद्धिदं स्वयं ।

निर्मलं लोकनाथेशं कणेरीं मुक्ति कारणं ॥ १ ॥

श्रीमंतं नाथसर्वेशं रमणं गुरुरूपिणं ।

निर्विकारमहं जाने कणेरीं द्वंद्वकार्मुकं ॥ २ ॥

ककारात् सर्वकर्तेति, एकाराद्गणवर्जितः ।

रकाराज्ज्योतिरमणः श्री कणेरी श्रियेऽस्तुनः ॥ ३ ॥

भगवान की नाथ-रूप में भावना नाथ-पंथ की विशेषता है; परंतु उसका आरंभ बौद्ध तंत्रों में ही हो गया था। उसे बोधि सत्त्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का पहचान से बाहर हो गया-

हुआ रूप समझना चाहिए। प्रज्ञोपायविनिश्चय सिद्धि में समस्त त्रैधातुक विश्व का कर्त्ता वज्रनाथ कहा गया है—

संभोगार्थमिदं सर्वं त्रैधातुकमशेषतः

निर्मितं वज्रनाथेन साधकानाम् हिताय च । (पृ० २३, श्लोक ३१)

राणा श्री केशर शमशेरजंगमहादुर (काठमांडु) के पुस्तकालय में श्री गुडसेप टुची का एक हस्तलेख मिला है जिसके आरंभ में मंजुवज्र के वाद नाथ की वंदना की गई है— मञ्जु वज्र प्रणाम्यादौ नाथ-पादमनंतरम्'क्ष । इसमें वज्रनाथ में का वज्र तो लोकेश्वर का द्योतक होकर मञ्जु धज्र हो गया है और नाथ केवल गुरु का बोधक रह गया है। गुरु को नाथ कहने का रहस्य यह है कि वह सशरीर वज्रनाथ है। परंतु आगे चलकर नाथ केवल गुरु न रहे बल्कि साक्षात् वज्रनाथ के आसन पर जा विराजे, और असली वज्रनाथ मञ्जुवज्र त्याग दिए गए। लामा और नाथ दोनों एक ही भाव के द्योतक समझे जाने चाहिए। वज्रयान ने तिब्बती परिस्थितियों में लामा संप्रदाय को और दक्षिण पश्चिम भारतीय परिस्थितियों में नाथ संप्रदाय को जन्म दिया। कणेरी नाथ-संप्रदाय के रहे हों या न रहे हों, वे नाथ (गुरु) अवश्य थे। नवनाथों में उनकी गिनती नहीं है, पर आजकल के नाथ-संप्रदायवाले उन्हें नाथपंथी ही बतलाते हैं। नवनाथों का नाथ-संप्रदाय बौद्ध धर्म के घेरे से बिल्कुल अलग हो गया था।

वज्रनाथी भी यद्यपि विशुद्ध बौद्ध नहीं थे तथापि नाम-मात्र के लिए वे अभी उसी घेरे में थे । यही कारण है कि बहुत से सिद्ध ऐसे मिलते हैं जिन्हें विचार-धारा के अनुसार नाथपंथी समझना चाहिए परंतु जो नाम-मात्र के संबंध के कारण वज्रयानी भी समझे जाते हैं । इन्हीं में से कणेरी भी एक हैं ।

कणेरी पाव कर्णरीपाद का विगड़ा रूप है और असली नाम न होकर व्यक्तिगत विशेषता का द्योतक अप-नाम है । कोई-कोई कणेरी को काण से भी निकालते हैं । कणेरी का असली नाम आर्यदेव था । नाथ रूप में वे वैरागीनाथ कहलाते हैं । वज्रयानी ग्रंथों में भी उनका यह नाम मिलता है † । गोरक्षसिद्धान्त-संग्रह में वैराग्यनाथ पंथ प्रवर्तकों में गिने गए हैं ।—अवद्यश्चैव वैराग्य कंथाधारी जलंधरक मार्ग प्रवर्ता ह्येते तद्वच्च मलयार्जुनः । (पृ० १९) नाथों में तेरह पंथ हैं । इनमें से एक सँपेरों का है । नाथपंथी परंपरा में कहीं कहीं सँपेरों का पंथ आधा ही गिना जाता है, क्योंकि सँपेरों ने योगमार्ग को छोड़ कर आजीविका के ही प्रधानता दे डाली है । इसलिए तेरह के स्थान पर साढ़े बारा पंथ भी माने जाते हैं । कणेरी आजकल के इसी आधे पंथ आदि गुरु थे । महामहोपाध्याय हरप्रसादशास्त्री ने 'बौद्धगा और द्रोहाकोप' की भूमिका में लिखा है कि गोरखनाथ का वं (वज्रयानी) नाम रमणवज्र था । यही बात उन्होंने नगेंद्रन

सेन की 'मौडर्न बुधिज्म' के पूर्व वचन में भी लिखी है। परंतु लामा तारानाथ ने गोरखनाथ का वज्रयानी नाम अनंगवज्र वतलाया है। ऊपर की वंदना से तो यही भान होता है कि रमणवज्र भी कणोरी पात्र का ही एक नाम है। उसमें 'ज्योति-रमणः' कहकर इस वज्रयानी नाम की नाथपंथी व्याख्या की गई है। अन्य सिद्धाचार्यों के भी इसी प्रकार तीन-तीन चार-चार नाम मिलते हैं। यह भी देखने में आता है कि साधना को अलग-अलग मंजिलों में करने पर नये-नये नाम पड़ जाते हैं। टुची के उपर्युक्त हस्तलेख में किसी दामोदर का उल्लेख है जो साधना करते करते अद्वय वज्र हो गया (अद्वयवज्रनोऽभवत्) रमणवज्र और वैराग्यनाथ साधना पथ में तै की हुई मंजिलों के द्योतक भी हो सकते हैं।

चीनी और तिब्बती परंपराओं में कणोरी का संबंध नागार्जुन से माना जाता है। चीन में नागार्जुन की दो परंपराएँ मिलती हैं। एक के अनुसार कणोरी नागार्जुन के शिष्य और राहुल के गुरु थे (नागार्जुन-कणोरी-राहुल) तथा दूसरी के अनुसार वे राहुल के गुरु न होकर शिष्य थे और राहुलनागार्जुन के शिष्य (नागार्जुन-राहुल-कणोरी) तिब्बती लामा तारानाथ के अनुसार कणोरी (आर्यदेव) नागार्जुन के शिष्य थे, पर नागार्जुन राहुलभद्र के (राहुलभद्र-नागार्जुन-कणोरी) ॥ कणोरी की एक हिंदी रचना

मिलना इन योग पंथों में कोई नई बात नहीं है। नवीन सिद्धाचार्य प्राचीन सिद्धाचार्यों के अवतार माने जाते थे, और उन्हीं पुराने नामों से अभिहित किए जाते थे। सिद्धों के इतिहास में बहुत कुछ गड़बड़ाध्याय इसी नामैक्य ने मचा रखा है। परंतु इस प्रकार का नामैक्य एक ही काल के लोगों में नहीं पाया जा सकता, उसमें काल का कुछ अंतर अवश्य होना चाहिए। नाथ पंथ में ग्रहीत होना ही इस बात का सूचक है कि यदि ये दो कणेरी हैं तो इनके बीच में समय का कोई विशेष अंतर नहीं। अतएव यह विकल्प ग्राह्य नहीं है। 'मच्छिद्र पूता' वाली कविता चार हस्तलेखों में से एक ही में मिलती है, जब कि 'नागारजंदवाली' चारों हस्त लेखों में। त्रिपिटकाचार्य राहुल सांकृत्यायन ने तिब्बत के सस्क्य विहार के पाँच प्रधान गुरुओं (१०९१ ई० से १२७९) की ग्रंथावली स-स्क्य-न्क-बुम् तथा कौडियर की सूची के आधार पर चौरासी सिद्धों की एक बड़ी उपयोगी तालिका बनाकर 'गंगा' के पुरातत्त्वांक में छपाई है जिसमें यथा संभव देश-जाति-काल आदि की भी सूचना दे दी गई है। इस तालिका के अनुसार भी कणेरी नागार्जुन के ही शिष्य ठहरते हैं। इन सब साक्ष्यों का ध्यान रखते हुए कणेरी को नागार्जुन का शिष्य मानना उचित है। यह भी संभवता की सीमा से बाहर नहीं है कि कणेरी पहले नागार्जुन के शिष्य रहे हों और बाद को मत्स्येन्द्र के शिष्य हो गये हों।

कणोरी के समय का तो सीधा उल्लेख कहीं नहीं मिलता परंतु इनके गुरु नागार्जुन के संबन्ध से इनका समय भी स्थि किया जा सकता है। नागार्जुन कई हो गए हैं। सबसे पह नागार्जुन माध्यमिक आचार्य थे, दूसरे रसेन्द्राचार्य जिन् नागार्जुन-गर्भ भी कहते हैं और तीसरे वज्रयान के आचार्य इसमें संदेह नहीं कि वज्रयान के आचार्य नागार्जुन ही कणे के गुरु थे। कणोरी (आर्यदेव) को काणदेव (आर्यदेव) के साथ नहीं गड़बड़ाना चाहिए जो पुराने नागार्जुन के शिष्य थे। सांक्रत्यायनजी की तालिका में यह नागार्जुन सरह का शिष्य बतलाया गया है, और सरहपा पालराजा धर्मपाल का सम-सामयिक। इस हिसाब से हम सरह के शिष्य नागार्जुन को धर्मपाल के पुत्र देवपाल (८६६-९०६) का समकालीन मान सकते हैं। अलवेरुनी जब सं० १०८७ में भारत आया था तब उसने नागार्जुन की ख्याति सुनी थी, जो उससे एक शताब्दी पहले हो गया था। यद्यपि जनश्रुति ने अलवेरुनी को यह रसेन्द्राचार्य का समय बताया था तथापि यथार्थतः यह वज्रयानी नागार्जुन के समय की ही अंतिम सीमा हो सकती है। अलवेरुनी के अनुसार नागार्जुन का अंतिम काल ९८७ सं० के लगभग ठहरता है, पर जनश्रुति से प्राप्त समय को विल्कुल सही मानना भी ज्यादती है। अतएव नागार्जुन के समय का अंत ९०६ और ९८७ सं० के बीच मानना चाहिए। यही या इसके आस-

मंसार में कगोरी का न कोई नगा है, न कोई उसे चित्त में बैरी ही जान पड़ता है; इसलिए यह निर्भय और निःशंक होकर रूप से हंसता है।

हंस्यो कगोरी हरिष भी येकलहो आरण १।

जुरा विछोही जो मरगु^२, मरण विछोया मन ॥२॥

कगोरी अरण्य में शक्रेना ही ह्योतिरेक से हंसता है, क्योंकि उमने बुढ़ापे से मौत और मौत से मन को अलग कर दिया है।

(उसे जरा मरण का भय नहीं मनाता)

अकल कगोरी सकलें घंढ^३,

दिन परचें जोग विचारें छंढ^४।

दिन परचें जोग न होयो रावल,

भुस^५ कूट्यां कयो निकसै^६ चावल ॥३॥

कगोरी निष्कल, निराकार, निर्विकल्प स्वरूप है, जो साकार, सविकल्प, सकल है वह सब बंधन का कारण है। बिना आत्मानुभूति के योगाभ्यास व्यर्थ का धंधा मात्र है। बिना आत्मानुभूति के योग नहीं होता; भूसा कूटने से कभी चावल निकल सकता है ?

१ ख, ग—येक कलहो आराणि । ग—एकलहो आराणि ।

२ घ—जनमिर्थ । ३ घ—सकल बंधि । ख, ग—बंध । ४ ख, ग—

बपाणि [धंध] । घ—प्रपाणि अंध । ५ क—शुस (बाल के ऊपर के तार

जेये येने इीस) । ६ क—आधि ।

मनवा मेरा बीज-विजोवै, पवना बाढ़ि बलाई^१ ।

चेतनि^२ रावल पहरे बैठा भिरघा पेत न^३ पाई ॥ ४ ॥

मेरा मन बीज बोता है, पवन खेत में बाड़ लगाता है और हे रावल, चेतन (आत्मा) पहरे पर बैठा रहता है कि मृग (पड़पु) खेत न खा जायँ ।

जागो पसुवा जे मति हीणा ज्यांह न पाया भेव^४ ।

काल विकालहि^५ टांकर मारै सोवै^६ कणेरी देवं ॥५॥

जिन्होंने (योग का) भेद (रहस्य) नहीं पाया वे मूर्ख पशु जागते रहें । कणेरी देव तो काल और द्वैत-रूप काल अथवा सुकाल और दुरकाल को ठोकर से मार सो रहे हैं ।

चौसै^७ चन्दा रात्यों^८ सूर । गिगनि^९ मंडल में बाजहि तूर ।

सति सति का सबद^{१०} कणेरी कहै । परम हंस थिर काहे नर है ॥६॥

दिन में चंद्रमा और रात में सूर्य का योग होने से (मूलाधार स्थित अमृतशोषक सूर्य का सहस्रार स्थित सुधावर्षक चंद्रमा में लय हो जाने से) गगन मंडल में (त्रिकुटी की साधना कर लेने पर) तुरी (अनाहत नाद) बजती है । कणेरी सत्य का निर्देशक

शब्द कहता है । परमात्म (तुम उसे स्वयंभारण्य कर) स्थित क्यों नहीं हो जाते ?

क्यों ? मैं उगै कदा मैं आधये कदा मैं रैनि विहारै ।

पूछै कंगोरी नागा भरजुनं खंड छारिं प्राण कदां नमार्है ॥७॥

कदा आत्मा उदित होना है, कदां अग्नि, कदां वह रात्रि (संसार में जीवन-काल) व्यतीत करता है । कंगोरी पूछता है, हे नागाजुन ! शरीर को छोड़ने पर प्राण कदां समा जाता है ?

महजँ भयना महजँ गयना । महजँ-सहजँ षट् पयना ।

महजँ-महजँ फीरै थाई । महजँ-महजँ चिर कायो ॥ ८ ॥

आना-जाना महज रूप से होता रहता है । पवन भी सहज रूप से चलता रहता है । महज रूप से वायु को फिरावे । महज रूप से ही काया चिरस्थायिनी हो जायगी ।

पद [राग गुट]

आछै आछै महिरे मंडलि कोई सुरा,

नागा मनवा नै ममशाधैरेलो ।

देयना नै दाणवा येणे मनवे व्याणा,

मनवा नै कोई ल्यावे रेलो ॥टेका॥

जोति देखि-देखि पदे रे पतंगा, नादे लीन कुरंगा रेलो ।

यहि रम लुच्छि मैगल माती, स्वादि पुरिप तैं भौरा रेलो ॥

१ न—मैं पय नं० ७ ओर ८ नहीं हैं । २ क—नागा भरजुँह ।

३ य. न—छोड़ि ।

बड़ी एकै मनऊ नथ गोधिलौ, बड़ी एकै विषिया रातो रेलो ।
 यंद्रो बाँधे जोगी जतीन होइबा, जव लग मनउ न बाँधे रेलो ॥
 पांहण पांये गाठेरड़ा लोहड़ा, तेउ कालै रस खाधा रेलो ।
 समदह लहरयां पार पाइए, मनवानी लहरयां पार न पाइए रेलो ॥
 आदि नाथ नाती मछिंद्रनाथ पूता जती कणेरी इम बोल्या रेलो ।

महिमंडल में है कोई ऐसा शूर जो मन के मारे को समझा
 सके ? देवता और दानव सब मनही का विहित है, कोई मन को
 बश में ले आ सकता है ? ज्योति पर पतंग गिर पड़ता है और
 संगीत पर हरिण । इसी रस के लोभ से मदगलित गज की तरह
 मत्त होकर पुरुष स्वाद के अर्थ भौंरा (फूल-फूल पर चकर लगाने-
 वाला) बना हुआ है । बड़ी भर के लिए तो मन भी नाथ में
 गुम्क जाता है, लेकिन फिर एक बड़ी में वह विषयों में रत हो
 जाता है । जब तक मन को नहीं बाँधते तबतक खाली इंद्रियों
 को बाँधने से कोई यती नहीं हो सकता । इंद्रियों के
 पाँवों पर पत्थर अथवा लोहा क्यों न गठ डाला जाय तौ भी
 मन काल के लिए इंद्रिय-रस खाता रहेगा । समुद्र की लहरों का
 पार लग जाता है, मन की लहरों का पार नहीं मिलता, आदि
 नाथ का पौत्र शिष्य और मछिंद्रनाथ का पुत्र शिष्य यती कणेरी
 इस प्रकार कहता है ।

गंगावाट

(१५५ वें पृष्ठ)

गंगावाट परम भक्त नारी-कथियों में हैं । यह माधुर्य और आलोक की गंगा हैं । यह इन तरल प्रकाश-केंद्रों में से हैं, जिनकी किरणों नमस्तात्र तद्ग्यों को भी आलोक से प्लावित कर सकती हैं । इनके हृदय की पायनी किरणें उनके काव्य से फूट पड़ती हैं ।

संभवतः जमुना के साथ-साथ इन्हीं गंगा के लिये गोस्वामी द्विपदरिचंशजी के शिष्य ध्रुवदासजी ने अपनी 'भक्त-नामावली' में कहा है—

गंगा, जमुना निरनि भी परम भागवत जानि ;
निनकी चानी मुनन ही धर्में भक्ति दर आनिः ।

० ध्रुवदासजी की उल्लिखित गंगा की भारतेंदु हरिश्चन्द्र ने 'विष्णव-सर्वस्व' में गोस्वामी द्विपदरिचंशजी की शिष्या माना है । बाबू राधाकृष्णदास ने भक्तनामावली की टिप्पणी में तथा हिंदी-साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मिश्रचंपुओं ने भी अपने विनोद में यही माना है (सं० १७) । परंतु यह भी संभव है कि ध्रुवदास की उल्लिखित गंगा और वार्ता की गंगावाट दोनों एक ही । क्योंकि ध्रुवदासजी ने केवल

यद्यपि इतिहास के माप से गंगाबाई के और हमारे बीच में समय की बहुत बड़ी खाई है, फिर भी भाव-स्वरूप में उनके कल्याणकारी दर्शन आज भी सुलभ हैं। यह आश्चर्य की ही नहीं, दुर्भाग्य की भी बात है कि वह अब तक अज्ञात-सी ही हैं।

गंगाबाई के जीवन के संबंध में प्रामाणिक बातें अधिक नहीं मिलतीं। उनके संबंध में 'दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता' और 'श्रीनाथजी का प्राकट्य' से जो कुछ पता चलता है, वह अलौकिक और अत्यंत चमत्कार-पूर्ण है। उसकी लोकोत्तरता से मनुष्य को चकित रह जाना पड़ता है।

गंगाबाई का जन्म अलौकिक रीति से हुआ था। उनकी जन्म-कथा कुछ-कुछ ईसा मसीह के जन्म के कथानक से मिलती है। वार्ता में लिखा है कि गंगाबाई की माता गोसाईं विठ्ठलनाथजी की सेविका थी, और महावन में रहती थी। वह उनकी

हितहरिवंशजी के ही शिष्यों का उल्लेख नहीं किया है, और गंगा के संबंध में उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं कही, जो उनके हितहरिवंश की शिष्या होने की ओर संकेत करे। गंगाबाई ध्रुवदासजी की सम-कार्याय थीं। उनका समय वार्ता के अनुसार सं० १६२८ से १७३६ तक है, और ध्रुवदासजी के सं० १६८१ और १६८६ के रचे ग्रन्थ मिलते हैं। संभवतः गंगा की अथवा गंगाबाई की कविता ध्रुवदासजी के मृत्यु के कुछ दिनों में सुनी हो—“तुनकी बानी सुनत ही बहं भक्ति कर आनि।”

आपके भक्ति करनी थी। उनके समय पर हमारा मन आपकी माया में लीन था। दिन-रात में आपके हृदय में गोसाईंजी के प्रति काम-भावना उदित हो गई। परंतु उनकी इच्छा का पूर्ण होना आसंभव था, क्योंकि गोसाईंजी इंद्रदेविय में। परन्तु जो काम-हृदय में देवता भी उनके लिए न हो सकता था। गोसाईंजी को जब हमारे हृदय की अवस्था का पता लगा, तब उन्होंने पारम सत्य पर हमका मोहल में आना मंजूर कर दिया, परंतु हमको प्रसादित नहीं। यह हमेशा हमी के ध्यान में लीन रहती। एक दिन स्वप्न में हमें गोसाईंजी के दर्शन हुए, और गर्भ-विषय हो गई। हमसे जो संबंध हुई, वही गोसाईंजी थी।

जब गोसाईंजी माता परलोक सिंघार गई, तब, पण्डित होने पर, यह भी गोसाईंजी को संविदा हो गई, और महापति से आवर गोपालपुर में रहने लगी। गोसाईंजी इस समय भक्त बहून हुए ही मण थे। गोसाईंजी के प्रति उनका पारमस्वभाव था। उनके उपासकवारी उनका मुखा के समान आदर-सम्मान करते थे।

गोसाईंजी स्वभाव ही से भक्ता थी। यह मन्त्र भगवान के ध्यान और भजन में मग्न रहती। यहाँ तक कि भगवान की सोनाएँ उन्हें अपने लीपन में ही अनुभूत होने लगी। यह सर्व्वत्र भावना-उत्पत्ति में विचरती रहती। गोवर्धननाथजी उनके साथ दैत्यों, देवतों और नाना प्रकार से उन्हें अपनी लीला का दर्शन

कराते हुए परम सुख पाते थे । जिस-जिस लीलानुभूति की धारा उनके हृदय में उमड़ती, वह स्थिर होकर परमोज्ज्वल नक्षत्र के समान जगमगाते काव्य-खंड में परिणत हो जाती, और वह उसे श्रीनाथजी के चरणों में अर्पण कर आती । अपने इष्टदेव के सामने वह वे सुध होकर अपने पदों को गती । इन पदों की संख्या एक सहस्र से ऊपर पहुँची । जिनकी अनन्य भक्ति के कारण उनके हृदय से भाव-धारा निःसृत होती थी, उन्हीं के चरण पखारने के काम में वह आवे, भाव-जगत् की घटनाओं की यह स्वाभाविक परिपूर्णता थी । इससे गंगावाई को भगवान् के प्रेम की परिपूर्णता अथवा पुष्टि प्राप्त हुई, जिसका प्रमाण श्रीनाथजी ने पर्याप्त रूप से दिया ।

एक बार मुसलमानों के निरंतर आक्रमणों के कारण गोवर्धन में भगवद्भजन और पूजार्चन में बाधा पड़ने लगी । इसलिये श्रीनाथजी की मूर्ति को हिंदुत्व के रक्षक मेदपाटाधिप के राज्य में ले जाने का निश्चय किया गया । मेवाड़ जाते समय मार्ग में श्रीनाथजी मचल गए । उनकी गाड़ी रुक गई, आगे बढ़ने का नाम न लेती थी । कितने ही प्रयत्न किए गए, किंतु गाड़ी टस से मस न हुई । साथ में चलनेवाला गोसाइयों का समुदाय किंकर्तव्य-विमूढ़ हो गया । अंत में यही सोचा गया कि वृद्धा गंगावाई कुछ कर सकें, तो कर सकें ; उन्हीं से प्रार्थना की जाय । गोसाई-वालकों ने बुआजी से निवेदन किया—“ठाकुर खोजि गयो है,

चलत्यो नायें ।” बुआजी ने श्रीनाथजी को समझाया-बुभाया, और गाड़ी चलने लगी ।

वार्ता के अनुसार गंगावाई क्षत्राणी थीं । उन्होंने संवत् सोलह सौ अट्ठाईस में अवतार लिया, और एक सौ आठ वर्ष तक भूतल पर रहीं । इनके भगवल्लीला में प्राप्त होने की कथा भी अत्यंत अलौकिक है । उस समय बुआजी मेवाड़ में थीं । श्रीनाथजी को जब उन्हें लीला में ले लेने की इच्छा हुई, तब उन्होंने हरिराय से कहा कि गंगावाई को वस्त्राभरणों से खूब सजाकर रात को जगमोहन में बैठा देना । ऐसा ही किया गया प्रातःकाल होने पर देखा गया कि बुआजी का कहीं पता न था । रात को श्रीनाथजी ने उन्हें जगमोहन से सदेह लीला में ले लिया था ।

गंगावाई का काव्य उनके जीवन के ही समान भावुक है । पहले कहा जा चुका है कि भाव-लोक में भगवल्लीलाओं का उन्हें साक्षात्कार हुआ था । यह भगवदनुग्रह था, जिसकी छाप उनकी कविता में स्पष्ट है । इसीलिये गंगावाई संभवतः अपने को अपने काव्य की कवयित्री नहीं मानती थीं । अपनी छाप की जगह वह भगवदनुग्रह की आंतरिक छाप के प्रतीक-स्वरूप 'विट्ठल गिरिधरन' की छाप रक्खा करती थीं । इससे सूचित होता है कि वह स्वयं गिरिवरधारी को अपने काव्य का रचयिता मानती थीं । भगवल्लीला के अतिरिक्त उन्होंने और कुछ नहीं लिखा । उन्हें अनुभूति ही और किसी वस्तु की नहीं हुई थी । लीलामय की

लीला के अतिरिक्त और कोई वास्तविकता संभवतः उनके लिये संसार में नहीं थी। उन्हीं में मग्न रहना उनके जीवन का सुख था।

कृष्ण और राधिका की बाल-लीला से उनके हृदय में नंद-रानी और वृषभानु-रानी के हृदय का वात्सल्य तथा ब्रजवासी ग्वाल-बालों का हर्षोत्साह एक साथ उमड़ पड़ता है। बालक श्रीकृष्ण गो-चारण के लिये जा रहे हैं। गायों को वह नाम ले-लेकर पुकारते हैं, बछड़े हूँकते-हूँकते दौड़े आते हैं। बलराम ग्वाल-बालों के साथ शोर-गुल मचाते, ताली बजाते, हँसते चले जा रहे हैं। इसका गंगाबाई ने कैसा उल्लास-पूर्ण वर्णन किया है—

टेर-टेर बोलत नंदनंदन गाय
 बुलाई धूमरि धौरी ;
 बछरा छोरि दिए खरिक्न तें,
 हूँक-हूँक आवत सब दौरी ।
 मारत कूक सुवल - श्रीदामा
 भाजत ग्वाल-लाल के साथ ;
 बिलसत, हँसत, देत कर तारी,
 तुम लालन जानत सब घात ।
 माथे मुकुट, काछ पीतांबर,
 औ राजत उर पर बनमाल ;

गोपियों के साथ हृदन की रत्न-पूर्ण छेड़-नाद का भी चर्चोंने
धरा सरन वर्जन किया है—

सोहन माँगत गोरस - दान ;
फनक-लकुट पर लसन सुभग अति,
फहि न जात पिय घान ।
अति कमनोय फनक-तन सुंदरि
इति परसत पिय पान ;
श्रीविट्ठल गिरिधरन रमिकवर
माँगत, मृदु मुसकान ।

छाँड़ो-छाँड़ो लंगर सौंघरे, हमारी घाट ।

जिनि फोरो डोरो मेरो गागरि, भरन देउ इहि घाट ।
जिनि पकरो भगरो मेरो अंचरा देखि विचारो ठौर ;
तुम होरी के राते-गाते बोलत और - की - और ।
लेहूँ लेरि निवेरि सवन पेँ करिहौँ न फाहूँ फी फानि ;
श्रीविट्ठल गिरिधरन लाल तुम जीते हों मुसकानि ।

देख्यो तुम स्याम घटा धिर आई ।

नेक लाल, छाँड़ो मेरो अँचरा. हम अपने घर जाई ।
नन्दे-नन्दे वूँदन वरसन लागे, भीजे पीत पिछोरी ;
औ भीजे मेरी सुरंग चूनरी, हौँ आई मति - भोरी ।
देख्यो घलदाऊ भैया ठाढ़े मारग माऊँ ;
श्रीविट्ठल गिरिधरन सब जानत धातन ही भइ साऊँ ।

लाल की सोभा कहत न आवै ।

संध्या - समै खरिक मैं ठाढ़े अपनी गाय दुहावै ।
 लाल पाग सिर ऊपर सोहै, मोर - चंद छवि पावै ॥
 मोसों कह्यो सुन जा तू बातें, छत ना बूँद चुचावै ॥
 लटकत चलत जब ही घर युवतिन बोल सुनावै ;
 श्रीविट्ठल गिरिधर लाल छवि जसुमति के जिय भावै ।

कृष्ण मौका चूकनेवालों में नहीं हैं । गोरसदान माँगते समय—वर्षा में, वाट में, घाट में—जहाँ कहीं उन्हें अवसर मिलता है, वह छेड़-छाड़ किए बिना रहते नहीं । और, होली के अवसर की तो बात ही क्या कहनी है । गोपियाँ भी उनके विश्व-विमोहन रूप की माधुरी पर मुग्ध हैं । उनके सामने वे विवश हो जाती हैं, क्योंकि उनका मन तो पहले ही उनके हाथ से चला गया है—

ग्वालिनि, दान हमारो दीजे ।

अनि मन मुदित होय ब्रज-सुंदरि

कहत “लाल ! हँसि लीजे ;

दीजे मन मेरो अब प्यारे,

निरखि - निरखि मुख जीजे ।”

* धूँदों के न गिरते रहने तक । छत = अछत, अस्ति से । वर्षा-
 मस के अन्तर्गत का पद है ।

अति रस गलित होति वह भामिनि—

“मनमाने सो कीजे ।”

चाल न सकति, अति ठठकि रहति,

रूप - रासि अब पीजे ;

श्रोत्रिद्वल गिरिधरन लाल सों

नवल - नवल रस भोजे ।

सारावाई के शब्दों में उन्होंने सोच रक्खा है—

“होनी होय, सो होय ।

छोड़ द्यो कुल की कानी, क्या करिहै कोई ।”

कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की इयत्ता नहीं । पल-भर का भी बिछोह उनके लिये असह्य हो जाता है । कृष्ण केवल गो-चारण के लिये बन गए हुए हैं । संध्या-समय गायों के साथ लौट आवेंगे । फिर भी गोपियों इतने ही में चिरह-व्याकुल हो जाती हैं । वर्षा-ऋतु तो अग्नि में आहुति का काम करती है—

देख री, घन तो ओल्हर आयो ।

गरजत - वरसत है चहुँदिसि तें,

दामिनि तेज दिखायो ।

कोकिल कूक पढ़े चहुँ दिसि तें,

पपैया बोल सुनायो ;

मन भीज्यो, तन काँपन लाग्यो,

चिरहिन बिरह जगायो ।

की गुरुता के आगे कृष्ण भी हलके-से लगने लगते हैं । और यदि उद्धव का उद्धत ज्ञान गोपियों के प्रति कृष्ण की भावना के उद्घाटन का कारण न बनता, तो हम संभवतः कृष्ण के प्रति अन्याय कर बैठते । परंतु हम जानते हैं, गोपियों का धिरद्वजितना गंभीर है, उसका आलंबन भी उतना ही महान् है । कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यदि गोपियों का कोई अवलंबन रहा होगा, तो अपने प्रति कृष्ण के प्रेम में उनका विश्वास । वस्तुतः जिमने सुर-नर-मुनियों को भी दुर्लभ सामीप्य-सुख उन्हें दिया हो, वह उन्हें और वे उसे भूल सकती हैं ?

इस महासुख की पराकाष्ठा रास-लीला में दिखाई देती है । गगात्राई ने रास-लीला का उत्कृष्ट वर्णन किया है—

विहागरो

वन में रास रच्यो बनवारी ;

यमुना-पुलिन मल्लिका फूली, सरद रैन उजियारी ।
 मंडन बीच स्याम घन सुन्दर राजत गोप-कुमारी ;
 प्रकटत कला अनेक रूप तिहि अवसर लाल विहारी ।
 सीस मुकुट, कुंडल की मलकन, अलक वनी घुँघरारी ;
 कंबु-कंठ, ग्रीवा की डोलन, छीन लंक, अलकै कारी ।
 धाय-धाय झपटत उर लपटत उरप-तिरप गति न्यारी ;
 नृतत हँसत मयूर-मंडली लागत सोभा भारी ।

वेणु-नाद-धुनि सुनि सुर-नर-मुनि तन की दसा बिसारी ;
श्रीविठ्ठल गिरिधरन लाल की वांनिक पर बलिहारी ।

रास-रात्रि के शरच्चंद्र की दुग्धोज्ज्वल आभा उनके शब्द-शब्द से फूटी पड़ती है । रास-रस की अप्रतिहत चौछार से जगत् सिक्त हो जाता है । उसके व्यापक प्रभाव से कोई वस्तु बची नहीं रहती । पशु-पक्षियों से लेकर सुर-नर-मुनि तक उस माधुर्य में डुबकी लगाकर, अपनी सुध-बुध खोकर न्योछावर हो जाते हैं ।

सूरदास ने भी रास का बड़ा विलक्षण प्रभाव चित्रित किया है, जिसकी ओर अपने आप ध्यान चला जाता है—

रास-रस मुरली ही ते जान्यो ;
 स्याम-अधर पर वैठि नाद कियो, मारग चंद्र हिरान्यो ।
 धरनि जीव जल-थल के मोहे, नभमंडल सुर थाके ;
 तृन द्रुम सलिल पवन गति भूले, स्रवन सव्व पन्यो जाके ।
 बच्यो नहीं पाताल-रसातल कितिक उदय लौं भान ;
 नारद सारद सिव यह भासत कछु तन रह्यो न सयान ।
 यह अपार रस-रास उपायो, सुन्यो न दे यो नैन ;
 नारायन धुनि सुनि ललचाने स्याम-अधर सुनि वैन ।
 कहत रमा सों सुनि री प्यारी, विहरत हैं बन स्याम ;
 सूर कहाँ हमको वैसो सुख, जो विलसति ब्रज-वाम ।
 लक्ष्मीनारायण भी जिस सुख के लिये लालायित रहते हैं-

उसे गोपियों को देकर अब कृष्ण के पास रह क्या गया था, जिसे देकर वह गोपियों को उससे अधिक सुख दे सकते। इस महासुख की खुमारी में कितने ही जीवन आसानी से बिताए जा सकते हैं।

गंगावाई की कविता पर अष्टछाप के कवियों का प्रभाव स्पष्ट है। नंददास को छोड़कर अष्टछाप ही के क्या, बल्लभ-संप्रदाय के प्रायः सभी कवियों की एक ही सी काव्य-शैली है। उन सबमें सूरदास की कविता का अधिक प्रचार हुआ है, इसलिये गंगावाई के संबंध में उन्हें ही और लोगों का ध्यान जायगा। यद्यपि अंगरेजी-कहावत के अनुसार तुलनाएँ सदा अप्रिय हुआ करती हैं, फिर भी नवीन कवियों के महत्त्व-निर्णय के लिये उनके ढर्रे के प्रख्यात कवियों की बगल में उन्हें खड़ा करना ही पड़ता है। लीला-काव्य के लिये सूर आदर्श हैं। इसमें संदेह नहीं कि सूरदास और गंगावाई की काव्य-शैली में बहुत साम्य है। विषय की एकता से भाव और रीति की समता का होना स्वाभाविक है। किंतु भाव-साम्य के उदाहरणों से लेख का फलेवर बढ़ाना मुझे अभीष्ट नहीं। सूरदास के चुने-चुने पदों का समकक्ष साहित्य-जगत् में ढूँढ़े मिलना कठिन है। गंगावाई भी सूर की चँचाई तक नहीं पहुँच सकती। परंतु गंगावाई का काव्य उच्चतम श्रेणी का न होने पर भी साधु-काव्य है। ऊपर से दूसरी श्रेणी के कवियों में से अग्रगण्यों के साथ उनका स्थान है। उनकी भाषा

हिन्दुत्व का उन्नायक नानक

जब लंदन में भारत की प्रत्येक जाति के नामधारी प्रतिनिधि अपनी अपनी जाति को अन्य जातियों से बिल्कुल अलग स्थिति पर खोर दे रहे हैं और इस भेद-भाव को एक चिरंतन तथ्य बना डालने की चिन्ता में हैं, उस समय इस तथ्य को प्रकट करने में बड़ा आनन्द होता है कि हमारे साहित्य की प्रगति सदा से सब जातियों और सब धर्मों के एकीकरण की प्रकिया की ओर संकेत करती आरही है । हमारे साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हिंदू और मुसलमान तथा हिन्दू-मुसलमान और ईसाई समय समय पर एक ही विचार धारा में बहे हैं । निर्गुण-पंथ में हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर धार्मिक कट्टरता और जातीय विद्वेष के प्रतिकूल घोर युद्ध किया था । जब ईसाई धर्म ने भी भारत में प्रवेश कर लिया तो धामी पंथ के प्रवर्तक प्राणनाथ ने हिंदू और मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों को भी प्रेम के सूत्र में बाँधने का प्रयत्न किया था । वस्तुतः आज जो लोग भारत के सिर पर सवार होकर समाज-विध्वंसक भेद-भावों की फांसी से उसका गला घोट देना चाहते हैं, वे देश और साहित्य दोनों के इतिहास को भूल रहे हैं । उन्हें इस बात का

* लाला भगवानदीन विद्यालय के वार्षिकोत्सव में पठित ।

परन्तु मिस्टर पिंकट इस बात को भूलते हैं कि सन्तों में मूल वस्तु उनके विचार हैं, उनके परिधान नहीं; वस्त्रों को वे कुछ भी प्रधानता नहीं देते। धर्म भेद की अवास्तविकता को जानने वाले साधुओं का, चाहे वे किसी जाति व धर्म के क्यों न हों, अन्य धर्मावलम्बी सन्तों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन करना कोई असाधारण बात नहीं है। एकेश्वरवादो होने के कारण भी नानक मुसलमान नहीं कहे जा सकते। और इस बात को तो सात समुद्र पार स्पेन निवासी मुसलमान विद्वान काजी साइद (मृत्यु १०७० ई०) भी स्वीकार करते हैं कि हिन्दुओं का "ईश्वरीयज्ञान ईश्वर की एकता के सिद्धांत से पवित्र है" †।

मिस्टर पिंकट के ही समान मिस्टर मैक्स आर्थर मेकौलिफ ने भी इस बात को पसंद नहीं किया कि सिख लोग अपने को हिन्दू समझें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि गुरु ग्रन्थ साहब का अंगरेजी में अनुवाद करके मिस्टर मेकालिफ ने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया है। परन्तु जब हम देखते हैं कि उनके प्रयत्न के मूल में प्रधान भावना हिन्दू और सिखों में भेद भाव बनाये रखने की है, तब उनके कार्य का उतना मूल्य नहीं रह जाता जितना कि अन्यथा होता। इस भावना से वे यहां तक प्रभावित हुए हैं कि इस अनुवाद की प्रस्तावना में उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया है कि सिखनवयुवक अपने आपको:

हिंदू कहने लगे हैं। क्यों उनको यह बात बुरी लगती थी, यह बतलाने के लिये बिना अपनी ओर से टिप्पणी जोड़े हुए मैं उन्हीं के कुछ वाक्य ज्यों के त्यों यहाँ पर उद्धृत कर देता हूँ :—

“A movement to declare the Sikhs Hindus in direct opposition to the teachings of the Gurus is widespread and of long duration. I have only quite recently met in Lahore youngmen claiming to be descendants of the Gurus who told me that they were Hindus and that they could not read the characters in which the sacred books of the Sikhs were written. Whether the object of their tutors and advisors was or was not to make them disloyal, such youths are ignorant of the Sikh religion and of its prophecies in favour of the English and contract exclusive social customs and prejudices to the extent of calling us Malechhas or persons of impure desires and inspiring disgust for the customs and habits of Christians.”

सिखों के अपने आपको हिंदू समझने से उनकी राजभक्ति कैसे संदेह में पड़ जाती है, यह बात मिस्टर मेकौलिफ की सी ही मनोवृत्ति वाला आदमी समझ सकता है। पर इसमें संदेह नहीं कि ईसाइयों के खान पान अथवा आचार-व्यवहार के प्रति यदि हिंदुओं में सचमुच कोई अरुचि है तो उसका निराकरण सिखों

में देवता या ईश्वर समझने लगे थे। इस्लाम ने अभी अभी फिर से, नानक के ही जीवनकाल में विदेशी आक्रमणकारी का स्थान ग्रहण किया था। वावर हिंदुस्थान पर चढ़ाई कर रहा था। देश में न धार्मिक जीवन अच्छा था और न राजनैतिक। उन्हें यह बात बहुत बुरी लगी। उन्हें यह देख कर बड़ा खेद हुआ कि—

सासतु वेद न माने कोई । आपो आपै पूजा होई ॥
 तुरुक मंत्र कनि हृदैं समाई । लोक मुहावहि छाँड़ी खाई ॥
 चौका देके सुच्चा होई । ऐसा हिन्दू वेखहु कोई ॥

—आदि ग्रन्थ (तरन तारन संस्करण) पृ० ३१८

[शास्त्र और वेद कोई नहीं मानता, सब अपनी अपनी पूजा कराते हैं। तुरुकों (मुसलमानों) का मत उनके कानों और हृदय में समा रहा है। लोगों की चुगली करके उन्हें पकड़ाते हैं और उसीसे अपना गुजारा चलाते हैं। और चौका देकर पवित्र होने का दंभ करते हैं। देखो, यह हिन्दुओं की दशा है।

एक हिन्दू चुंगी वाले से उन्होंने कहा था—

गऊ विरामण का कर लावहु, गोवर तरणु न जाई ।
 धोती टीका तै जप माली धानु मलेच्छा खाई ॥
 अंतरि पूजा, पढ़हिं कतेवा संजमि तुरुकां भाई ।
 छेटिले पखंडा, नामि लइए जाहि तरंदा ॥

—आदि ग्रन्थ, पृ० २५५

[गो-प्राणण का तुन कर लेते हो। गोपर तुम्हें नहीं तार सक्तता। घोती-टीका लगाचे रहते हो किंतु अन्न खाते हो ग्लेच्छ्यों का। हे भाई तुम भीतर तो पूजा-पाठ करते हो किन्तु तुरुकों के सामने कुरान पढ़ते हो। ऐसा पाखंड छोड़ दो. भगवान का नाम लो जिससे तुम्हारा तरण होगा।]

यद्यपि वस्तुतः देखा जाय तो किसी भी महान् आत्मा का हम संकुचित अर्थ में एक जाति या धर्म का नहीं बतला सकते। वे तो समस्त संसार के कल्याण के लिए संसार में आते हैं। गुरु नानक भी ऐसे ही महात्मा थे। परन्तु महात्मा लोग भी सांसारिक वास्तविकताओं के लिए आँखें बन्द नहीं कर सकते। आजकल सिख धर्म ने चाहे जो रूप ग्रहण कर लिया हो, परन्तु इसमें संदेह नहीं कि नानक धर्म के शत्रु होकर नहीं उसके रन्नायक और सुधारक होकर अवतरित हुए थे। सुधार के वे ही प्रयत्न संगत और स्तुत्य कहे जा सकते हैं जो भीतर भीतर से सुधार के लिये अपसर हों। बिल्कुल विध्वंस की नीति को लेकर चलना समाज के लिए कभी भी कल्याणकारी नहीं होता, इस बात को नानक जानते थे। इसीलिए उन्होंने हिन्दू धर्म के सुधार की चेष्टा की, उसके नाश की नहीं। उन्होंने मूर्ति-पूजा, अवतार-वाद और जाति-पाँति का खंडन किया परन्तु कभी किसी को हिन्दू धर्म छोड़ने को नहीं कहा; और न स्वतः ही कभी हिन्दू धर्म को छोड़ा। हिन्दुओं के प्रणव मंत्र ॐ को उन्होंने आदर

वास्तव में न राजा राममोहनराय ईसाई थे और न नानक मुसलमान । जिस प्रकार आधुनिक युग में स्वामी दयानंद और राजा राममोहनराय ने धर्म की चादरी प्रभावों से रक्षा की, उनी प्रकार नानक ने भी मध्ययुग में की थी । गुरु नानक यह नहीं चाहते थे कि लोग एक प्रपंच से हट कर दूसरे प्रपंच में जा पड़े । आध्यात्मिक प्रेरणा के बिना प्रत्येक धर्म प्रपंच और पाखंड है । जो बातें हिन्दू धर्म को सार्वभौम धर्म के स्थान से नीचे गिरा कर उससे उसके अनुयायियों की श्रद्धा को हटा रही थीं, उनके विरुद्ध नानक ने घोर युद्ध किया और एक बार फिर शुद्ध धर्म का प्रचार हुआ । वह सार्वभौम धर्म नानक जिसके प्रतिनिधि हैं, किसी धर्म का विरोधी नहीं क्योंकि सभी धर्मों को उसके अंतर्गत स्थान है, वह धर्म धर्म के भेद को नहीं मानता । इस्लाम से यदि कहीं उनका विरोध प्रकट होता है तो वह इसलिये नहीं कि वे उस धर्म के विरोधी थे, बल्कि इसलिए कि इस्लाम के नाम पर आक्रमणकारी इस भूमि को पददलित कर रहे थे । आध्यात्मिक प्रवृत्ति का साधु नानक इस बात से बड़ा दुःखी हुआ । इसीलिये उन्हें खून के सोहिले गाने पड़े । अपने शिष्य लालसिंह को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा था—

खून के सोहिले गावीअहि नानक रतु का कुंगू पाइ वे लालो ।

आदि ग्रन्थ पृ० ३८९.

* सोहिले सिखों में शोक के अक्षर पर गाये जाते हैं ।

[इस रक्त-पात के लिये नानक शोक के गीत गाता है हे लाले प्रेम के आधार को प्राप्त कर ।]

देश की गिरी दशा देखकर वे तिलमिला उठते थे । अत्याचार को न सह सकनेवाला उनका रक्त जब उनकी नसों में जोश खा रहा था, तब ऐसे ही समय में उन्होंने एक बार भविष्यवाणी की थी—

काया कपट्टु टुक टुक होसी हिंदुस्तान समालसि बोला ।
आचनि अठनरै जानि सतानवै होरुभी उठसि मरदका चेला ॥
मच की वाणी नानक आखै, सचु सुणाइसि सच की बेला ॥

आदि ग्रन्थ पृ० ३८९.

[चाहे काया रूपा वस्त्र टुकड़े टुकड़े हो जायँ फिर भी समय प्रायगत् जब हिन्दुस्तान अपना बोल सँभालेगा । (फिर कोई मन दिने हैं जो समझ में नहीं आते) और भी मर्द के वच्चे पैदा होंगे । नानक सत्य की वाणी बोलता है, सत्य की बेला में यह मर ही मृताना है ।]

लेकर दुनियाँ के आगे भारत को इतना लज्जित न करते। आज जो 'बाहू गुरु की फतह' सुनकर किसी भी हिंदी साहित्य-प्रेमी को उमंग से उत्फुल्ल हो जाना चाहिए वह केवल इसलिए नहीं कि वे एक पंथ के प्रवर्तक थे बल्कि इसलिए कि उन्होंने कट्टरता और संकीर्णता के विरुद्ध अपनी वाणी को अन्तुद कर देश में सहिष्णुता और एकता का मार्ग प्रस्तुत किया था। परंतु वह एकता जिसे उन्होंने लक्ष्य में रखा था वह एकता नहीं थी जो दो पक्षों में से एक का नाश करके प्राप्त होती है बल्कि वह एकता थी जो सब पक्षों के पूर्ण विकास या जाने पर स्वतः प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार नानक ने हिन्दुत्व में से कट्टरता और अंध-विश्वासों को उन्मूलित करने का प्रयत्न किया था उसी प्रकार यदि समस्त धर्मों के संत महात्मागण अपने अपने धर्मों से उन्हें उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करें तो सभी धर्मों को वह रूप प्राप्त हो जाय जो किसी सार्वभौम धर्म का होना चाहिए और धर्मभेद से उठे हुए सब झगड़े-बखेड़े सहज ही नाश हो जायें।

उपदेश उन्होंने 'अखरावट' में प्रकट रूप से किया है उसी को उन्होंने 'पद्मावत' में एक रोचक और हृदयग्राही रूप में अन्योक्ति द्वारा कहने का प्रयत्न किया है। अपने इस उद्देश्य को उन्होंने छिपाया नहीं है। विनयशील जायसी ने—जिनकी विनयशीलता के कारण प्रत्येक व्यक्ति का मस्तक उनके सामने आदर से झुक जाता है—पंडितों के मुँह से इस प्रकार अपनी कहानी को अन्योक्ति कहला दिया है—

मैं एहि अरथ पंडितन्ह बूझा ।

कहा कि हम किलु और न सूझा ।

चौदह भुवन जे तर उपराहीं ।

ते सब मानुष के घट माहीं ॥

तन छितउर मन राजा कीन्हा ।

हिय सिंघल बुधि पदमिनि चीन्हा ॥

गुरु सुआ जेइ पंथ दिखावा ।

बिनु गुरु जगत को गिरगुन पावा ॥

नागमती यह दुनिया धंधा ।

बाँचा सोइ न एहि चित वंधा ॥

राघवदूत सोइ सैतानू ।

माया अलाउदीन सुलतानू ॥

प्रेमकथा एहि भौंति विचारहु ।

बूझि लेहु जो बूझै पारहु ॥

छूटने लगता है। उदाहरण के लिये इस उक्ति को लीजिए—
मिलतहु महे जनु अहौ निरारे । तुमसौं अहै अँदेस पियारे ।
मैं जानेउ तुम्ह मोही माहीं । देखौं ताकि तौ हौ सब पाहीं ॥
का रानी, का चेरी कोई । जा कहँ मया करहु भल सोई ॥ “
तुम्ह सौं कोइ न जीता, हारे वररुचि भोज ।
पहिले आपु जो खोवै, करै तुम्हार सो खोज ॥

वशीभूत नहीं होता। बलात्कार से केवल इतना ही ही मकाना है कि मन की प्रेरणा से इन्द्रियों जा काम करना चाहती हैं, उनको करने से हम उन्हें रोक दें। परन्तु हमसे आगे बढ़कर अगर हम यह भी चाहें कि मन ही विषयों की ओर न दौड़े तो अवश्य विफल-मनोरथ होंगे। असल में अध्यात्म जबरदस्ती का सौदा नहीं है। भौतिक आवश्यकताओं को विलकुल कुचल ही डालने से अध्यात्म-सिद्धि नहीं हो जाती। ज्ञानमार्ग को दुस्वहता का मूल कारण यही जबरदस्ती, यही बलात्कार है। इस कठिनता को सरलता में बदल देनेवाला मार्ग उपासना का मार्ग है।

उपासना के मूल सिद्धान्त को आजकल के मनोवैज्ञानिकों की भाषा में सविलमेशन अथवा भूमिका-परिवर्तन कह सकते हैं। मन कदापि निष्क्रिय नहीं रह सकता। वह हमेशा किसी-न-किसी उधेड़-बुन में लगा रहता है। उसको प्रवर्तन शक्ति कभी मौन नहीं बैठी रह सकती। अगर उसे देवता बनने का अवकाश न मिला तो वह दानव बन जा सकता है। अङ्गरेजी कहावत के अनुसार ठाला मन शैतान का कारखाना है। मन हमको परमात्मा की ओर से बहुत बढ़ो देन है। उसमें अनन्त शक्ति निहित है। प्रश्न उतना 'मन-मारण' का नहीं है जितना

मजल श्याम-घन-वरन लीन हौ, फिरि चित अनत न भटक्यो ।
'कृष्णदास' किये प्रान निछावर, यह तन जग सिर पटक्यो ॥

इष्टदेव कर्ता, धर्ता, हर्ता सब कुछ होने के पहले इष्ट है.
हमारी रुचि, प्रेम और लालसा पर अधिकार किये रहता है । वह
हमारे हृदय में सांसारिक प्रेम के लिये, मोह के लिये जगह नहीं
रहने देता. मोहिनी के मान को ठुकरा देना और मानिनी से
हृदय को हटा लेना आसान बना देता है—

तोरि मानिनीतें हियो, फोरि मानिनी मान ।

प्रेमदेव की छविहिं लखि, भये मियाँ रसखान ॥ॐ

* इस रास्ते में देश, जाति और सम्प्रदाय का कोई भेद नहीं
चलता । अनामी के भिन्न-भिन्न नामकरण कर देने से उसमें भेद थोड़े
ही आ जावेगा । इस अनस्ति भेदभाव के लिये लोग लड़ें तो मूर्खता
छोड़कर उसे और क्या कहेंगे ? लगभग चार सौ वर्ष पहले मनोहर
कवि ने कहा था—

अचरज मोहिं हिंदू तुरक, चादि करत संग्राम ।

इक दीपतिसों दीपियत, कात्रा कासीधाम ॥

यह रास्ता सबके लिये खुला है जो चाहे उससे अपने जीवन को
सरस बना ले । हिन्दू इसी रास्ते पर चलकर अपने जीवन में वास्तविक
मधुरिमा भरते हैं, मियाँ भी जब 'रसखान' होना चाहते हैं तो इसी मार्ग
पर चलते हैं—

प्रेमदेव की छविहिं लखि, भये मियाँ रसखान ।

हमारे लिये वह पुत्र (वात्सल्य में), मखा (सत्यभाव में) पति (माधुर्यभाव में), पत्नी (सूफीमाधुर्य में) माता-पिता मत्र कुछ बन जाता है । जो उसका जैसे भजन करता है उसको वह वैसे ही मिलता है ।

जाकी रही भावना जैसी । प्रभु मूरति देखी तिन तैसो ।

अगर ऐसा न होता तो भगवान् की यह प्रतिज्ञा भूठी न हो जाती—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

भक्त को उससे डरने का अवसर नहीं होता । वह इष्ट है, 'भय विनु होइ न प्रीति'का अनुसरण नहीं करता । 'रीझि भजो कै खीजि', वह अपनी तरफ का काम पूरा करेगा । तुलसीदास तो उनका 'पूतरा' नचाने तक को उतारू हो गये थे । भावुक भक्त उसमें और प्रेम में कोई अन्तर नहीं देखता ; वे दोनों एक हैं । बल्कि कहना यह चाहिये कि भगवान् साक्षात् प्रेमस्वरूप हैं—

प्रेम हरी को रूप है, वे हरि प्रेमस्वरूप ।

एक होय दो मैं लखै, ज्यों सूरज मैं धूप ॥

—रसखान

उपासक केवल अपने इष्टदेव का सान्निध्य चाहता है । उसीके प्रेम में वह निमग्न रहता है । उठते-बैठते, सोते-जागते, खाते-पीते कभी भी वह उसके मन से बाहर नहीं निकलता । वह उसे अपने हृदय में छिपाना चाहता है—

दूरि न दूरि दुःखी जो चाही तो दुःखी किन मरे अधेरे दिये में ।

—पद्माकर

अपनी आँखों में घमाना चाहता है—

साँघरेलाल को साँघरों रूप में नैनन को कजरा करि राख्यो ॥

—द्वय

अपने नारे संसार का उसी में पर्यवसान कर देना चाहता है—

आआं प्यारे मोहना, नयन भाँपि तोहि लेउँ ।

ना मैं देख्योँ और को, ना तोहि देखन देउँ ॥

—कबीर

शरीर से वह सब काम करता रहता है, पर उसकी लगन नहीं छूटती—'जस नागरि को चित नागरि में' (रसखान) । उसे उसकी प्रेममयी स्मृति रात-दिन बनी रहती है । उसके मनन, उसके ध्यान और उसके दर्शन से उसकी तृप्ति ही नहीं होती, जितना ही अधिक वह इस प्रेमामृत का पान करता है । उसके लिये उतनी ही अधिक तीव्र उसकी तृप्ता होती जाती है । वह चाहता है कि उसके रूप को देखने के लिये रोम-रोम आँखें बन जायँ, उसकी वाणी सुनने के लिये शरीर पर जगह-जगह कान हो जायँ और उसकी बगल छोड़कर वह कहीं जाव ही नहीं—

श्रोहरि को छवि देखिवे को अँगियाँ प्रति रोमहिं में करि देतो ।
 वैनन के सुनिवे हित श्रोन जिते तित ही करतो करि हेतो ॥
 मोढिग छाडि न काम कहुँ रहै, 'तोप' कहै लित्वतो विधि एतो ।
 तो करतार इती करनी करिके कलि में कल कोरति लेतो ॥

उपास्यदेव ही नहीं बल्कि उनके सान्निध्य और संसर्ग से उनके क्रीड़ा के स्थल भी उसी प्रकार की पृत और त्निग्ध भावनाओं से घिर जाते हैं । उपास्यदेव के अभाव में वे ही उसकी कोमल कल्पनाओं के केन्द्र हो जाते हैं । उसे अपने उपास्यदेव का सम्पूर्ण वैभव स्मृतिरूप से उनके चारों ओर विचित्र मण्डल बाँधे दिखायी देता है । उन स्थलों में वह अपने आपको उसी पुराने वातावरण में घिरा पाता है, जिसने एक दिन उनको पावन कर चिरस्मरणीय बनाया था । अतएव वे भी उसके लिये उत्तने ही आकर्षक हो जाते हैं ।

मानुस हौं तौ वहै 'रसखान' बसौं सँग गोकुल गाँव के ग्वारन ।
 जो पसु हौं तौ कहा बस मेरो चरौं नित नंद को घेनु मँझारन ॥
 पाहन हौं तौ वहै गिरिकौ जो कियौ हरि छत्र पुरंदर धारन ।
 जौ खगहौं तो बसेरो करौं मिलि कालिंदी कूल कदंब को डारन ॥

रसखान का यह सवैया तो प्रसिद्ध ही है, भक्तवर हठीजी का यह कवित्त भी इस सम्बन्ध में कम प्रसिद्धि पाने योग्य नहीं है—

गिरि कीजै गोधन, मयूर नव कुंजन को,
पसु कीजै महाराज नंद के नगर को ।
नर कौन ? तौन जौन राधे-राधे नाम रटै,
तट कीजै चर कूल कालिंदी के कगर को ॥

इतने पै जोइ कुछ कीजिये कुँवर फान्ह,
राखिये न भान फेर 'हठी' के झगर को ।
गोपी-पद-पंकज-रज कीजै महाराज,
तृन कीजै राचरेई गोकुल के वगर को ॥

तुलसीदासजी ने उपासक का आदर्श स्वरूप उस तेजपुंज लघु वयस 'तापस' में दिखाया है जो प्रयाग से आगे बढ़कर वन जाते हुए राम के दर्शनों के लिये उत्सुकता के साथ यमुनातट पर आया था। यह तपस्वी कौन था, इस पर वितर्क-तर्क करते हुए भिन्न-भिन्न विद्वानों ने विभिन्न मत दिये हैं, परन्तु हृदय उन्हींके मत को स्वीकार करता है जो उसमें स्वयं तुलसीदास का प्रतिरूप देखते हैं। वह चाहे जो रहा हो, पर आदर्श उपासक अवश्य था। राम को देखकर उसके प्रेमोल्लास की इयत्ता न रही। उसके शरीर में पुलक और आँखों में आँसू आ गये। उसकी दंशा का वर्णन नहीं हो सकता। आँखरूपी दोने से वह राम के रूपामृत का पान कर रहा था। उसे वही आनन्द हो रहा था जो भूखे को अच्छा आहार मिलने पर होता है।

मृत के आगे परमात्मा अपने समस्त ऐश्वर्य को भूल जाता है और प्रेम के भीने तार में ही बँध जाना सबसे बड़ा ऐश्वर्य नमस्कृत है—

या भीने-हित तार में, धल एको अधिकाइ ।

अग्निल लौकको ईस हू, जासों बांधो जाइ ॥

इस 'भीने हित-तार' को यह बल उसी की प्रेमवश्यता से मिला है । तभी तो—

संस महेस गनेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावैं ।

जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावैं ॥

—रसनिधि

नारद लों सुकव्यास रटें पचि हारैं तरु पुनि पार न पावैं ।

ताहि अहीर की छोहरियाँ छछियाभर छाछ पै नाच नचावैं ॥

—रसखान

सच्चे उपासक का प्रेम वह प्रेम नहीं जिसे करके 'सम्मन' की तरह पछताना पड़े—

निकट रहे आदर घटे, दूर रहे दुख होय ।

'सम्मन' या संसार में, प्रीति करे जनि कोय ॥

आध्यात्मिक प्रेम में यही तो विशेषता है कि वह 'सांसारिक प्रेम की तरह क्षीण नहीं होता, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है । जितना ही भक्त भगवान् के 'निकट' पहुँचता है उतना ही उसका प्रीतिभाजन होता जाता है । उपासना का अर्थ ही समीप बैठना

शिव तो नहीं आया है किन्तु समानार्थक (कन्याणकर) शंकर आया है— रुद्राणां शङ्करश्चास्मि (१०, २३) । ब्रह्म स्पष्ट शब्दों में सुकृत अथवा सुकर्ता (शुद्ध-शिव) भी कहा गया है—असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै सदजायत तदात्मान स्वयमकुमत तत्तस्मात्सुनकृतमुच्यते ।—(माण्डूक्य अनु० १) यो वै रुद्र.....यच्च मत्यम् में रुद्र और सत्य साध-नाथ आये है । (अथर्व शिरस, २) । और शिव भी रुद्र का ही एक रूप है । परंतु प्राचीन दार्शनिक साहित्य में 'सुन्दरम्' का अलग प्रयोग नहीं मिलता । संभवतः 'आनंदम्' इस भाव का द्योतन कर सके । ऊपर भी आनंदम् का ब्रह्म परक उल्लेख हो चुका है । तैत्तिरीय उपनिषद् में भी ब्रह्म को 'आनंदम्' और आनंदमयम्' माना है—'एतमानंदं मयमात्मानमुपसंक्रामति' तथा 'आनंदं ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन (ब्रह्मवल्ली, आनंद मीमांसा ९), आनंदाद्ध्येयं ग्वल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रत्यंत्यभिसंविशंति । (भृगुवल्ली, ६) 'सुन्दरम्' में रूप ग्रहण और 'आनंदम्' में तल्लीनता (अनुभूति) की ओर अधिक ध्यान जाता है । परंतु फिर भी ये बहुत भिन्न नहीं हैं । अंगरेजी में भी सौंदर्य और आनंद का एकत्व माना जाता है । कीट्स ने कहा था—

“ए थिंग ऑफ व्यूटी इज ए ज्वाड फॉर-इवर” सौंदर्य में आनन्द का नित्यस्वरूप निहित है । गीता में भी भगवान ने कहा

शिव तो नहीं आया है किन्तु ममानार्थक (कल्याणकर) शंकर आया है— रुद्राणां शङ्करश्चास्मि (१०, २३) । ब्रह्म स्पष्ट शब्दों में मुकुन अथवा मुकर्ता (गुड-शिव) भी कहा गया है—असद्वा इदमग्र आसीत् ततो वै मदजायत तदात्मान स्वयमकुरुन तत्तन्मात्सुनकृतमुच्यते ।—' माह्वय अनु० १ । यो वै रुद्र.....यच्च मत्यम् में रुद्र और सत्य साथ-साथ आये हैं । (अथर्व शिरस, २) । और शिव भी रुद्र का ही एक रूप है । परंतु प्राचीन दार्शनिक साहित्य में 'सुन्दरम्' का अलग प्रयोग नहीं मिलता । संभवतः 'आनंदम्' इस भाव का द्योतन कर सके । ऊपर भी आनंदम् का ब्रह्म परक उल्लेख हो चुका है । तैत्तिरीय उपनिषद् में भी ब्रह्म को 'आनंदम्' और आनंदमयम् माना है—'एतमानंद मयमात्मानमुपसंक्रामति' तथा 'आनंद ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन (ब्रह्मवल्ली, आनंद मीमांसा ९), आनंदाद्ध्येव ग्वल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रत्यंत्यभिसंविशंति । (शृगुवल्ली, ६) 'सुन्दरम्' में रूप ग्रहण और 'आनंदम्' में तल्लीनता (अनुभूति) की ओर अधिक ध्यान जाता है । परंतु फिर भी ये बहुत भिन्न नहीं हैं । अंगरेजी में भी सौंदर्य और आनंद का एकत्व माना जाता है । कौट्स ने कहा था—

“ए थिंग ऑफ च्यूटी इज ए ड्वाइ फॉर-इवर” सौंदर्य में आनन्द का नित्यस्वरूप निहित है । गीता में भी भगवान ने कहा

हे कि जो जो पदार्थ विभूतियुक्त, शोभायुक्त और जन्तियुक्त हैं,
उन्हें मेरे अंश से उत्पन्न समझो—

यद्यद्विभूतिगतमत्यं श्रीमद्विजितमेव वा

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशमन्भवम् । १०. ४१

परन्तु 'दिव्यम्' जिसका प्रयोग मुण्डक में हुआ है संभवतः
आनन्द की अपेक्षा "सुन्दरम्" के अधिक निकट है—

यथा नशस्यन्दमानाम्ममुद्रे,

अस्तं गच्छन्ति नामरूपं विहाय ।

यथा विद्वान् नाम रूपाद्विमुक्तः

परात्परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥

मुण्डक ३, २, ८

परन्तु सत्यं शिवं सुन्दरम् के निकटतम का सर्व-प्रिय प्रयोग
संभवतः 'सच्चिदानन्द' है। इस दृष्टि से इससे भी अच्छा प्रयोग
जो इतना सर्वप्रिय नहीं है, 'अस्ति भाति प्रियम्' है। उसे नयुसूदन
सरस्वती की अद्वैत सिद्धि की टीका (लघुचन्द्रिका) की टीका
में विट्ठलेशोपाध्याय ने किसी अन्य ग्रन्थ से उद्धृत किया है—

अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चैत्यंश पञ्चकः

आद्य त्रयम् ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततोद्वयम् ।

प्रत्येक वस्तु में पाँच अंश प्रतीत होते हैं। अस्ति भाति. प्रिय
रूप और नाम। पहले तीन ब्रह्म के रूप हैं और शेष दो
जगत् के।

क्रोचे ने जबसे साहित्यिक समालोचना के क्षेत्र में आध्यात्मिक सिद्धांत का प्रवेश किया तबसे कला के निर्णय में 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' की रट अति को मात्रा को पहुँच चुकी है। परंतु प्राचीनकाल में भी साहित्यिक-आलोचना-विज्ञान में इसका अभाव न था। साहित्यिक सिद्धान्तों की पुष्टि तथा अभिनन्दन के लिये प्राचीनकाल में भी दार्शनिक पदावली का प्रयोग किया जाता था। तैत्तिरीय के 'रसोवैतः' का प्रयोग हमारे प्राचीन साहित्यिक वाद-विवादों में भी होता रहा है। सांख्य और वेदान्त को प्राचीन आचार्य अपने सिद्धांतों की पुष्टि में पेश किया करते थे। काव्य-रस का 'ब्रह्मानन्द' महोदर' माना जाना तो प्रसिद्ध ही है।

अतएव यह भी विल्कुल असंभव नहीं कि 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' भी उतना ही प्राचीन ही जितने स्वयं वाचा वेणीमाधवदास, परंतु और जगह कहीं भी दार्शनिक अभिव्यञ्जना अथवा साहित्यिक समालोचना के क्षेत्र में उसका प्रयोग न होता देखकर दृढ़ता के साथ नहीं कहा जा सकता कि बात ऐसी ही थी। सत्रहवीं शताब्दी की लिखी नित्य पाठ की किसी पोथी में 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' जैसी पदावली प्रयुक्त हो और उसके प्रचार के लिये दो शताब्दी बाद ब्रह्मसमाज के महारथियों को उसका फिर से आविष्कार करना पड़े ! यदि यह सत्य है तो बड़ी आश्चर्यजनक बात है। यदि यह ग्रंथ किसी बने हुये वेणीमाधवदास का नहीं है तो

हाँ, इतना मैं बे-हिचक कह सकता हूँ कि गुरुनरिन्-गुमा-
 जी संबंधी परंपरागत श्रुतियों का और उस काल से कुन्द पेनिडा
 सिक तथ्यों का भी बहुत अच्छा संग्रह है। इसके लिये गुसाईं जी
 के शिष्य बाबा वेणीमाधवदास हमारे धन्यवाद के भाजन हैं। मैं
 नहीं इसका अन्तिम निर्णय मैं अपने से योग्य व्यक्तियों के लिये
 छोड़ देता हूँ और उनको मैं इस काम में सहायता पहुँचाने के
 लिये कनक भवन अयोध्या के महात्मा बालकराम विनायक जी,
 उन्नाव के पं० रामकिशोर शुक्ल वकील तथा मरुव ओवरा गया के
 पं० रामधारी पाण्डेय को विशेष रूप से आमंत्रित करता हूँ जो
 इस ग्रंथ को प्रकाश में लाने के साधन बनकर हम सबके धन्यवाद
 के भाजन हुये हैं।

काशी विद्यापीठ से प्रकाशित पुस्तकें

| | |
|---|------|
| दिक्चमी यूरोप | २।) |
| ग्रीस और रोम के महापुरूष | ३।।) |
| हेन्दू भारत का उत्कर्ष या राजपूतों का प्रारम्भिक इतिहास | ३।।) |
| अंग्रेज जाति का इतिहास (द्वितीय संस्करण) | २।।) |
| ह्वनवतूता की भारत यात्रा | २) |
| अफलातून की सामाजिक व्यवस्था | १।=) |
| अभिधर्म कोष | ५) |
| मनुपादानुक्रमणी | ।।।) |
| जापान-रहस्य | १।।) |
| सौन्दर्य विज्ञान | ।।।) |
| राष्ट्रीय शिक्षा का इतिहास | २) |
| भारत का सरकारी ऋण | १=) |
| Cosmogony in Indian thought. | ।।) |
| Essential unity of all Religions. | ३) |
| योग-सूत्र-भाष्य-कोष | ३) |
| मानवार्थभाष्य | ३।।) |
| मानव-धर्म-सार (द्वितीय संस्करण) | २) |

यवनों का भारत

(ले० प्रो० भगवती प्रसाद पान्थरी)

इतिहास के सम्बन्ध में खोजपूर्ण पुस्तक है। इसमें विद्वान् लेखक ने चढ़ी दूर-दूर से यात्रा करके मसालों का संग्रह किया है। इतिहास के विद्यार्थियों के बहुत लाभ की पुस्तक होगी।

भारत के प्रसिद्ध और निर्णायक युद्ध

(लेखक— प्रो० भगवती प्रसाद पान्थरी)

इस पुस्तक में लेखक ने वैदिक युग (४००० ई० पूर्व) के प्रसिद्ध युद्धों से प्रारम्भ कर सन् ११९२ ई० तक के युद्धों का वर्णन किया है। इसमें उस समय के बदलते युद्ध-कौशल और शास्त्र पर विशेष प्रकाश डाला है। इतिहास और खोज के विद्यार्थियों के लिये यह पुस्तक बहुत उपयोगी है।

वर्तमान मुस्लिम जगत

ले०—मुहम्मद हबीब, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के
इतिहास विभाग के अध्यक्ष

